

॥ श्रीहरिः ॥

संस्कारमार्त्तण्डः ॥

पारस्कर, आश्वलायनगृह्यसूत्रादि से संग्रह कर,
जन्म से मृत्युपर्यन्त संस्कारों का संस्कृत और
शुद्धनागरी भाषा से परिणित जसवन्तरामात्मज
परिणित टीपणलाल कुलचन्द्र उपनाम
हरिवल्लभ शर्मा प्रचारक प्रियतम-
धर्मसभा शिकारपुर (सिन्ध)
ने अलङ्कृत किया ॥

उक्त सभा के खास मेम्बर महाशय लक्ष्मीचन्द्र
वर्मा हरीराम की धन सम्बन्धी सहायता
तथा सत्यव्रतशर्माद्विवेदी के प्रबन्ध से

सरस्वतीप्रेस-इटावा में

मुद्रित हुआ ॥

प्रियतम सं० ६ विक्रम सं० १९५०

प्रथमवार १०००]

[मूल्य ॥॥]



श्री हरिः

सादर समर्पण ।

आपुष्मन् लक्ष्मीचंद्र वर्मा आपके कर कलम में श्री नन्दनन्दन के प्रसाद स्वरूप तथा आशीर्वाद की कुसुमाञ्जली स्वरूप यह संस्कार मातंगड ग्रन्थ अर्पित है जैसा है आप का है लीजिये ।

शान्तिरस्तु ! आरोग्यमस्तु !! आयुष्यमस्तु !!!

तदीयसार्वदिक शुभचिन्तक
मुसाफिर-हरिवल्लभ शर्मा

सीमन्तोद्घवन सामग्री-१ सोपारी १।२ गौली ३ मेवा ४ घृत ५ पीलासू।
 ६ तकुवा ७ बयून के कांटे ८ शानू ९ कुशा १० आंघकी लकड़ी ११ समिधा ३
 १२ चंदनका टुकड़ा १३ चंदनचूर ॥

जातकर्म की सामग्री-१ माशवी २ घृत ३ मुषर्यशलाका ४ चावलों की कण्टि ५ सपैप ६ कुशा

नामकर्म सामग्री-१ सोकारी १, २ रोली ३ चीनी ४ चंदनचूर ५ चंदन के
 टुकड़ा ६ कपूर ७ बालू ८ पुष्प ९ कुशा १० आंघकी लकड़ी ११ समिधा ३, १२
 घृत १३ चावल १४ गुड़ १५ मटी का पूर्णपात्र ॥

अन्नदाशनसामग्री- १ बालू २ कुशा ३ पुष्प ४ आंघ की लकड़ी ५ होने
 मटी का पूर्णपात्र ७ घृत ८ चंदन ९ भोजन ॥

बूढ़ाकर्म सामग्री- १ सोपारी २ रोली ३ चंदन चूर ४ पुष्प ५ घृत ६ चंदन
 ७ बालू ८ कुशा ९ आंघ की लकड़ी १० समिधा ३, ११ मटी का पूर्णपात्र
 होने १२ घृत १४ मखन १५ दही १६ बयून के कंटक १७ गोबर ॥

उपनयन सामग्री-१ सोपारी ३, २ नारियल ३ रोली ४ चंदन चूर ५ पंचरंग
 ६ कपूर ७ गुड़ ८ चीनी ९ चंदन १० होने ११ यज्ञोपवीत १२ मौला १३ आटा
 १४ चावल १५ कौपीन १६ घृण-छाला १७ आसन १८ सरावा १९ पलाशदंड २०
 घृत २१ बालू २२ कुशा २३ पुष्प २४ समिधा ३, २५ गोबर सूखे २६ आंघकी लकड़ी
 २७ आंघ के पत्ते २८ मटी के दो पात्र २९ मेरुला ३० मेवा ३१ फल ॥

अथ विवाह सामग्री-१ चावल लाठी २ चंदोवा ३ सुनली ४ मोली ५ रोली
 तीनि सोपारी ७ नारियल ८ पंचरंग ९ चंदन चूर १० यज्ञोपवीत दो जोड़े ११ सरावा
 चंदन १३ आसन १४ लाजा १५ शूर्प १६ दो मटी के पात्र १७ होने १८ मेवा १९ सिद्ध
 २० बालू २१ कदलीस्तम्भ २२ मध व्यंजनों के पत्ते २३ छरी २४ कुश २५ दूर्वा २६ पुष्प
 २७ शमीपत्र २८ आंघकी लकड़ी २९ समिधा तीन ३० दूध ३१ दही ३२ माखी ३
 आटा चावल गुड़ ३४ घृत ३५ परधर ३६ संप ३७ चौकिया तीन ३८ नवीन धसत्र
 अंतेष्टि सा०-प्रथम दिन १ चंदन २ चंदन चूर ३ पुष्प और पुष्पमाला ४ केसर
 लौका आटा ६ कुशा ७ तिल ८ कपूर ९ आंघकी लकड़ी १० मटी का पात्र ११ घृत
 १२ गोबर १३ यज्ञोपवीत १४ और सुगंधित औपधी ॥

चतुर्थदिन सा०-१ मटीका घड़ा २ दूध ३ शमीयाला ४ पुष्प ५ चंदनचूर ६ कपूर, ७ बस
 एकादशाह सा०-१ यज्ञोपवीत ४ जोरे २ पंचगव्य के लिये दूध दही गोमूत्र, गोबर
 घृत ३ पांच सोपारी ४ रोली ५ केसर ६ चंदन चूर ७ पुष्प ८ मेवा ९ कपूर १० बतारां
 ११ बालू १२ कुशा १३ होने १४ आंघकी लकड़ी १५ तीनि समिधा १६ मटी का पात्र १७
 तुलसी शृंग १८ मटीका कूड़ा १९ गौ के लिये कारिरेआदी २० बेसू फल के पत्ते

द्वादशाह सा०-१ सोपारी २ रोली ३ चंदनचूर ४ चंदन के टुकड़े ५
 लामघी ६ कपूर ७ पुष्प ८ बालू ९ कुशा १० आंघ की लकड़ी ११ समिधाती
 १२ होने १३ मटी का पात्र १४ धसत्र का टुकड़ा १५ एक घड़ा या तीन ॥ इति

अथ संस्कारमार्त्तण्ड-प्रस्तावः

सब महाशयों को विदित हो कि समय के परिवर्तन से बहुत काल से वैदिक संस्कारों का लोपसा होगया इस से हम ब्राह्मणादि लोग प्रायः धर्मकर्म हीन मलिन बुद्धि वाले होगये । यद्यपि कुछ २ संस्कारों के पुस्तक छपते और विकते भी थे परन्तु ठीक २ पाररकर गृह्य सूत्रके अनुकूल और नागरी भाषा सहित पुस्तक प्रायः नहीं मिलते थे । ऐसे पुस्तक का अभाव देखकर यह संस्कारमार्त्तण्ड पुस्तक छपाकर प्रकाशित किया गया । संसार में सब जड़ पदार्थों का भी संस्कार होता है । विषम भूमि को जब सम चौरस कर लीप लेसकर स्वच्छ कर लेते हैं तब विशेष कार्य साधक रोचक तथा मनोहर ग्राह्य होजाती है जिन घरों का लीपना लेसना आदि वा चूना से पीतन आदि संस्कार नहीं होता वे घृणित अग्राह्य तथा नष्टप्राय ही जाते हैं यदि संस्कार हीते रहते हैं तो वे घर मन के प्रसन्न रखने वाले रमणीय तथा ग्राह्य होजाते हैं । रांधीहुई दाल में छोंकना बघारना एक प्रकार का संस्कार है छोंकने बघारने से उस दाल के भीतर २ सब अशों में सुगन्धि के परमाणु व्याप्त होजाते हैं । इस कारण वह संस्कृत दाल सींधी रोचक तथा बुद्धिशोधक होजाती है । वस्त्रों का धोना ही संस्कार है इस प्रकार सभी वस्तु अच्छा संस्कार होने से अपनी ठीक उत्तमदशा में आजाता है और ठीक ३ काम का

होजाता है। इसी के अनुसार ब्राह्मणादि द्विज शरीरों के गर्भाधानादि संस्कार होने चाहिये। संस्कार शब्द का अर्थ व्याकरणानुसार शुद्धि है सो वाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकार का संशोधन गर्भाधानादि कर्मों के यथावत् करने से होता है। वाह्य शुद्धि से अन्तःकरण-मनकी प्रसन्नता स्वच्छतारूप शुद्धि होती और उस मनः शुद्धिरूप धर्म के संचित होने से ही मनुष्य को संसार परमार्थ का सुख मिलता है इस से संस्कार अवश्य करने चाहिये। और संस्कार न होने से ब्राह्मणादि तीनोंवर्ण पतित होजाते हैं इससे संस्कारों को न छोड़ो। सब संस्कारोंद्वारा दो प्रकार से मनुष्य की शुद्धि होती है। एकतो आयुर्वेद के अनुसार अनेक पदार्थों का सेवन तथा भक्षण करने से जैसे कि सुश्रुत के रसायन प्रकरण में लिखा है—

गव्यमाज्यंसुवर्णं च मधुक्षौद्रंचतत्रयम् ॥१॥

मेध्यमायुष्यमारोग्य-पुष्टिसौभाग्यवर्धनम् ॥१॥

गौ का घृत सुवर्ण और शहत इन तीनों को मिलाकर खानेसे बुद्धि आयु नीरोगता पुष्टि-धन और सौभाग्य बढ़ता है। कुश स्वभाव से ही शुद्ध हैं उन के द्वारा मार्जन तथा आचमन से शुद्धि होती अग्नि तथा जल भी स्वभाव से ही शोधक हैं। घृतादि सुगन्ध के होम से भी श्वासद्वारा मनुष्य की शुद्धि होती है। जात कर्म में गोघृत सुवर्ण और शहत मिलाकर चर्चे को चटाया जाता है उससे सुश्रुत के लेखानुसार बुद्धि तथा आयु बढ़ता है मनुस्मृति में लिखा है कि

ज्ञानंतपोऽग्निराहारो मृन्मनोवार्युपाञ्जनम् ।
वायुःकर्माकंकालौच शुद्धेःकर्तृशुद्धिदेहिनाम् ॥

ज्ञान, तप, शुद्ध पदार्थों का भोजन, अग्नि, मट्टी, मन, जल, लीपना, वायु, कर्मकाण्ड, सूर्य, घोर काल ये सब पदार्थ मनुष्यादि के शोधक हैं । संस्कारों में मन्त्रों का तत्त्वार्थ शोधना जानना ज्ञान, कर्म में कष्ट सहना तप, सुवर्ण घृत शहत आदि शुद्ध पदार्थों का भोजन, अग्नि, शुद्ध मट्टी की वेदि बनाना लीपना पोतना, होम से वायु का शुद्ध होना तथा सूर्य का उपस्थान आराधन करना इस प्रकार मनुजी के कहे शोधक ज्ञानादि सभी का संग्रह संस्कारों में आजाता है इस प्रकार पदार्थविद्या के अनुसार भी संस्कार करने से मनुष्य की शुद्धि होना सिद्ध ही है । मनुस्मृ० अ० २ । २६ । २७ ।

वैदिकैःकर्मभिःपुण्यै-निषेकादिविजन्मनाम् ।

कार्यैःशरीरसंस्कारः पावनःप्रेत्यचेहेच ॥ १ ॥

गाभैर्हामैर्जातकर्म-चौडमौञ्जीनिबन्धनैः ।

धैजिकंगार्भिकंचैनो द्विजानामपमृज्यते ॥ २ ॥

भा०-वेदोक्त पवित्र कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को इस लोक परलोक में पवित्र करने वाला शरीरों का गर्भाधानादि संस्कार करना चाहिये । सीमन्तोन्नयनादि के समय होनेवाले होमों से तथा जातकर्म, चूडाकर्म और उपनयनादि होमों से तथा उस समय होने वाले कर्म से द्विजों का व्रज सम्यन्धी तथा गर्भ सम्यन्धी दीप वा मलिनता शुद्ध होजाती है । इसलिये यथाविधि संस्कार अवश्य करने चाहिये ।

अमन्त्रिकातुकार्येयं स्त्रीणामावृदशोपतः ।

संस्कारार्थंशरीरस्य यथाकालंयथाक्रमम् ॥

भा०—कन्याओं के संस्कार श्रद्धि के लिये उसी २ काल में उसी २ क्रम से विना मन्त्र के करने चाहिये। केवल यज्ञोपवीत संस्कार कन्याओं का विवाह ही है। वेदोक्त कर्मों को स्वयं ठीक २ करना और क्षत्रिय वैश्यों को कराना यह हम ब्राह्मणों का कर्त्तव्य है। क्षत्रिय वैश्यों का इस में विशेष दोष नहीं है किन्तु हम लोगों ने विधिपूर्वक वेद वेदाङ्गों का पठन पाठन त्याग दिया तो जब कर्म वा संस्कारों का मर्म ही नहीं जानते फिर संस्कारों को कैसे स्वयं करें? वा ग्रन्थों को करावें?। इस से यह हम ब्राह्मण लोगों का ही दोष आलस्य वा मूर्खता है। अब हमें को चाहिये कि फिर भी संस्कारोंको जाने वेद वेदाङ्ग पढे कर्म करें करावें तो सब का कल्याण हो। इस ग्रन्थ में शीघ्रता के कारण वा मनुष्य सर्वज्ञ नहीं इस कारण कहीं न्यूनाधिकता से त्रुटी रहिगई हो तो पाठक क्षमा करंगे दूसरी आवृत्ति में पूर्ति की जायगी।

आपका मुसाफिर ग्रन्थकार

अथ संस्कारमार्त्तण्डः ॥

सर्वसंस्कारादिश्रौतस्मार्त्तकर्मणामधिष्ठात्रे सर्वकर्मफल
दात्रे सर्वत्रव्यापिने सर्वनियन्त्रे सर्वस्वामिने
श्रीकृष्णपरमात्मने नमः ॥

कुर्वन्नेवेहकर्माणि जिजीविषेच्छतथ्समाः ।

एवंत्वयिनान्यथेतोऽस्ति नकर्मलिप्यतेनरे ॥१॥

अथ गर्भाधानम् ॥

मूलम्-तामुदुह्य यथर्तुप्रवेशनम् ॥ ७ ॥ यथाकामी वा

काममाविजनितोः । सम्भवामेति वचनात् ॥८॥ इत्यादि ॥

पाररकरगृह्यसूत्र १ का० ११ क० ॥

अथ प्रयोगः-ऋतुकाले रजोदर्शने सञ्जाते चतुर्थादिसम्-
दिने पुण्याहे गर्भाधाननिमित्तं (मातृपूजापूर्वकं रवयमाभ्युद-
यिकं कृत्वा) पीडशरात्रादवाक् रात्रौ दक्षिणकरेण पति-
र्वध्वाउपरथमभिस्पृश्य जपति ॥

ओम् पूषा भगथं सविता मे ददातु रुद्रः
कल्पयतु ललामगुम् । विष्णुर्योनिं कल्पयतु

भाषार्थ-प्रथम गर्भाधान संस्कार का विचार दिखते हैं । ऋतुकाल में
धीये बडे आठवें दशवें वा वारहवें दिन स्त्री स्नान कर शुद्ध हो और शुभ (चन्द्र
बुध गृहस्पति शुक्र) पुण्य दिन में पति गर्भाधानार्थे मातृपूजा और आभ्युदयिक
कारके रात्रि में ऊपर संस्कृत में लिखे अनुष्ठार किसी पण्डित विद्वान् से एकान्त

त्वष्टा रूपाणि पिथंशतु । आसिञ्चतु प्रजाप-
तिर्धातां गर्भं दधातु ते ॥

इति मन्त्रेण । अथ प्राङ्मुख उपविष्ट उदङ्मुखो वा ए-
तामभिमन्त्रयेदनेन-

ओम् गर्भं धेहि सिनीवालि ! गर्भं धेहि पृथु-
ष्टुके ! । गर्भं ते अश्विनो देवावाधत्तां पुष्कर-
स्रजो ॥ ततः-ओम् रेतो मूत्रं विजहाति योनिं
प्रविशदिन्द्रियम् । गर्भा जरायुणावृत उल्बं ज-
हाति जन्मना ॥

इति मन्त्रेण रेतःस्त्रावणम् । अथ तस्या हृदयमालभेत-
ओम् यत्ते सुसीमे ! हृदयं दिवि चन्द्रमसि
श्रितम् । वेदाहं तन्मां तद्विद्यात्पश्येम शरदः
शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः
शतम् ॥

इति मन्त्रेण । ततः स्वरथो हृष्टमना हृद्देशे प्रसन्नाम-
नातुरां कामयमानामभग्नशय्याया प्रदोपादूर्ध्वं स्त्रियामभि-
गच्छेत् ॥ इति गर्भाधानम् ॥

मैं पढ़ समझ के स्वयं गर्भाधान का हत्य करे । भाषा में इस का विशेष दया
ख्यान लिखना उचित नहीं समझा गया । इस में परिहित पुरोहित का कु-
काम नहीं किन्तु वही गर्भाधान करने वाला पुरुष स्वयं सध करे । मातृपृथ-
गोर स्नायुदपिक सूत्र में नहीं है ॥ इति गर्भाधान समाप्तम् ॥

अथ पुंसवनम् ॥

मूलम्—अथ पुंसवनम् १ पुरास्यन्दतइति मासे द्वितीये
तृतीये वा २ इत्यादि पा० का० १ क० १४ ॥

प्रयोगः—तत्र गर्भाधानप्रभृतिद्वितीये तृतीये वा मासे
यस्मिन्दिने पुनक्षत्र [पुष्य पुनर्वसु मृगशिरा हस्त मूल अ-
वगा] युक्तश्चन्द्रस्तस्मिन्नहनि गर्भिणीमुपवासं कारयित्वा
तां स्नपयित्वाऽहते वाससी परिधाप्य (मातृपूजाभ्युदयिके)
कृत्वा वटप्ररोहं वटशुङ्गांश्च आचारात् कुशकंटकमपि शि-
शिरेण जलेन पिष्ट्वा बभ्रूदक्षिणासापुटे तद्रसं दद्यात्—

ओम्—हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य
जातः पतिरेक आसीत् । स दाधार पृथिवीं
द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१॥

ओं—अद्भ्यः संभूतः पृथिव्यै रसाच्च विश्व-
कर्मणः समवर्तताग्रे । तस्य त्वष्टा विदधद्रूप-
मेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥२॥

इति मंत्राभ्याम् ॥ इति पुंसवनम् ॥ २ ॥

अथ पुंसवनम्—गर्भाधान से दूसरे या तीसरे महिने में जिस दिन पुष्य पु-
नर्वसु, मृगशिरा, हस्त, मूल, अवगा इन में से किसी नक्षत्र से युक्त चन्द्रमा ही
उस से पूर्व दिन में गर्भिणी स्त्री को उपवास कराके अगले दिन स्नान कराके
नये बिना फटे शुद्ध दो वस्त्र पहिना कर स्नान कर शुद्ध हुआ पुरुष आचमन क-
रके मातृपूजा और आभ्युदयिक करने पश्चात् वरारोह (वटकी लता) वटशुङ्गा
और आचार से कुश के कांटों को ठण्डे जल में पीस कर वट्ट के दहिने नासिका
के छिद्र में उक्त ओपधियों का रस (हिरण्यगर्भः०) इत्यादिदो मंत्रोंसे सुंघात्रे ॥

इति पुंसवनम् ॥

अथसीमन्तप्रयोगः ।

मूलम्—अथ सीमन्तोन्नयनम् १ पु० सवनवत् २ प्रथमगर्भमासे षष्ठेऽष्टमे वा ३ पाररकरगृ० इत्यादि ॥ अथप्रयोगः

तत्र गर्भमासापेक्षया षष्ठेऽष्टमे वा पुन्नामनक्षत्रयुतचन्द्रे दिने मातृपूजाभ्युदयिके कृत्वा बहिःशालाया कुशकशिडका कुर्यात् । तत्र क्रमः—कुशत्रयेण हस्तपरिमितचतुरस्रभूमिं परिसमुह्य कुशानैशान्या निक्षिप्य गोमयोदकेनोपलिप्य सुवमूलेन स्फ्येन वोत्तरोत्तरतस्त्रिरुल्लिख्योत्तरेण वक्रमेणानामिकागुहृष्टाभ्या मृदमुद्धृत्य वारिणा तं देशमभिपिन्य कास्यपात्रेणाग्निमादाय तत्प्रत्यङ्मुसं निदध्यात् । ततो ब्रह्मवरणम्—

ओम्—अद्य कर्तव्यसीमन्तोन्नयनहोमकर्मणि कृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्म कर्तुममुकगोत्रममुकशर्माणं ब्राह्मणमेभिः पुष्पचन्दन-

अथ सीमन्तोन्नयनम्—पुसवन में वहे नतत्रो से युक्त चन्द्रमा जिस दिन हो उस दिन पहिले गर्भ में बढे वा आठवें महिने में सीमन्तकर्म करे । मण्डप बनाकर उस में १ हाथ लम्बी चौड़ी चाकोन वेदि बनावे । वेदि में पंचभूसंस्कार करे—तीन कुशो से वेदि मूनि को फाड कर कुशो को दैशान कोण में फेंक कर गोधा और जल से लीप कर सुवा के मूल वा स्फ्य से उत्तर २ वेदि में प्रागायत तीन रेखा करे । अनामिका और अगुष्ठ से रेखाओं में से मट्टी को सटाकर फेंक वे वेदि में जल सेचन करे । कासे के वा मट्टी के पात्रमें अग्नि लाकर पविनामिमु र स्थापन करे । सरपशात्—पुष्प चन्दन हाग्यूल और बस्तों को लेकर (सीमन्त० इत्यादि वाच्य पद के यजमान ब्रह्मा का धरण करे और पुष्पादि ब्रह्मा के हा

ताम्बूलवासोभिर्ब्रह्मत्वेन त्वामहं वृणोः। ओम्
वृतोऽस्मीति प्रतिवचनम् ॥ ओम् यथांविहितं
कर्म कुर्विति होत्राभिहिते। ओम् करवाणि ।

इति प्रतिवचनान्तरं—अग्नेर्दक्षिणतः शुद्धमासनं दत्त्वा
तदुपरि प्रागग्रान्कुशानास्तीर्यास्मिन्सीमन्तोन्नयनहोमकर्म-
णि त्वं मे ब्रह्मा भवेत्यभिधाय। ओम् भवानीनि तेनोक्ते-
अग्निप्रदक्षिणं कारयित्वा। ब्रह्माणं तत्रोपवेश्य प्रणीतापात्रं
पुरतः कृत्वा जलेनापूर्य कुशैराच्छाद्य ब्रह्मणी मुखमवलोक्या-
ग्नेरुत्तरतः कुशोपरि निदध्यात्। ततः परिस्तरणम्—वहि-
पश्चतुर्थभागमादायाग्नेयादीशानान्तं ब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तं नै-
र्ऋत्याद्वायव्यान्तम्। अग्नितः प्रणीतापर्यन्तम्। ततोऽग्नेरु-
त्तरतः पश्चिमदिशि पवित्रच्छेदनार्थं कुशत्रयं पवित्रकरणार्थं
साग्रमनन्तर्गभं कुशपत्रद्वयं प्रोक्षणीपात्रमाज्यस्थाली चरुरथा-

में देवे । ब्रह्मा पुष्पादि को निकर (दुतोऽस्मि) कहे । तत्र (यथाविधौ) यजमान
कहे ओर ब्रह्मा (करवाणि०) कहे । तत्र अग्नि से दक्षिण में शुद्ध आसन चौकी
आदि बिछाकर उस पर पूर्व को जिनका अग्रभाग ही ऐसे कुश बिछाकर ब्रह्मा
को अग्नि की प्रदक्षिणा कराके (अस्मिन् कर्मणि त्वं मे ब्रह्मा भव) इस कर्म
में तुम मेरे ब्रह्मा हो ऐसा कहकर ब्रह्मा के (भवानी) कहने पर उस आसन पर
ब्रह्मा को उत्तराभिमुख घेठाकर प्रणीतापात्र को सामने रस के जल से भर के
कुशों से आच्छादन कर ब्रह्मा का मुख अथलोकन करके अग्नि से उत्तर कुशों
पर प्रणीतापात्र को प्रागग्र रखे । तदनन्तर चार सुट्टी कुश लेकर अग्नि के सव
ओर परिस्तरण करे—एक चौथाई कुश अग्निकोण से दैशानदिशा तक, द्वितीय
भाग ब्रह्मा के आसन से अग्निपर्यन्त, तृतीयभाग नैर्ऋतकोण से वायुकोण पर्यन्त
चौथा अग्नि से प्रणीता पर्यन्त बिछावे । तदनन्तर अग्नि से उत्तर में प्रावर्षस्य
पात्रसादन करे । पवित्र छेदनार्थ तीन कुश तथा पवित्रकरणार्थ अग्रभाग सहित

ली संमार्जनकुशाउपयमनकुशाः प्रादेशमितपालाशसमिध-
 स्तिस्रः सुव आज्यं तदुलपूर्णपात्रं तिलमुद्गमिश्रास्तंडुलाः ।
 एतानि पवित्रच्छेदनकुशानां पूर्वपूर्वदिशिक्रमेणासादनीया-
 नि । तदुत्तरतः वीणागाथिनौ प्रादेशमात्रसाग्राश्वत्थशंकुः,
 त्रिश्वेतशल्लकीकण्टकं पीतसूत्रपूर्णस्तर्कुः, दर्भपिञ्जलिकात्र-
 यमुद्गुम्बरयुग्मफलसुवर्णाघटितप्रादेशमितशाखा । एतत्सर्व-
 मासाद्यपवित्रच्छेदनार्थकुशैः प्रादेशमितपवित्रे छित्त्वा सप-
 वित्रपाणिना प्रणीतोदकं त्रिः प्रोक्षणीपात्रे कृत्वा-अनामि-
 कांड्गुष्ठाभ्यामुत्तरायु पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुदिङ्गनं प्रणीतो-
 दकेन प्रोक्षणीप्रोक्षणं ततः प्रोक्षणीजलेन यथासादितद्रव्य-
 सेचनं ततोऽग्निप्रणीतयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रनिधानं तत आ-
 ज्यस्थाल्यामाज्यनिर्वापः, चरौ तु तिलतदुलमुद्गानां प्रणी-

जिन के भीतर अन्य कुछ न हो ऐसे दो कुश, प्रोक्षणीपात्र, आज्यस्थाली, चरु
 स्थाली संमार्जनकुश, उपयमनकुश, टांक की तीन समिधा, सुव, आज्य, चावल
 से भरा एक पूर्णपात्र, तिल सूग मिले चरु के लिये चावल, पवित्र छेदन कुशों
 से पूर्व पूर्व क्रम से उत्तर की अग्रभाग कर २ इन सब का स्थापन करे । उ-
 ने उत्तर में दो वीणा पर गाने वाले १ पीपल की सूटी । तीन जगह श्वेत १
 सेही का कांटा, पीले मूल से लपेटा १ सकुआ, ३ दाभ की पिंजुली, उदुम्बर
 के दो कल्लो सहित प्रादेशमात्र उदुम्बर की शाखा इन सब का आसादन करके
 पवित्रच्छेदनार्थ तीन कुशों से प्रादेशमात्र दो कुशों का छेदन करके पवित्र सहित
 दहिने हाथ से प्रणीता के जल को तीन बार प्रोक्षणीपात्र में डाल कर अना-
 मिका और अहुम में पकड़े हुये पवित्रों से उच प्रोक्षणीस्थ जलका उपवन करे
 और प्रणीता के जल से प्रोक्षणीस्थ जल का पवित्रों द्वारा तीन बार अभिसेचन
 कर के प्रोक्षणीपात्र के जल से आसादन किये आज्यस्थाली आदि का सेचन
 करके अग्नि और प्रणीतापात्र के बीच में प्रोक्षणीपात्र को रख देवे । तब आ-
 ज्यस्थाली में घृतपात्र से घृत गिराये और चरुपात्र में तिल चावल और सू

तोदकेन त्रिःप्रक्षालनं तत्र किञ्चिज्जलं दत्त्वा तद्गुलप्रक्षेपः ।
 ततः स्वयं चरुं गृहीत्वा ब्रह्मणाचाज्यं ग्राहयित्वा वह्नैरुप-
 र्युत्तरतश्चरुं दक्षिणत आज्यं युगपन्निदध्यात् । ततः सिद्धे चरौ
 ज्वलत्तृणं प्रदक्षिणं भ्रामयित्वा वह्नौ तत्प्रक्षेपः । ततः सुव-
 प्रतपनं त्रिः । ततः संमार्जनकुशानामग्नैरन्तरतो मूलैर्वाह्यतः
 सुव्रं संमृज्य प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य पुनस्त्रिःप्रतप्य दक्षिणतो नि-
 दध्यात् । तत आज्यमग्नित्तद्वास्पचरोः पूर्वगानीयाग्रे धृत्वा
 आज्यपश्चिमेन चरुमानीयाज्यरयोत्तरतो निदध्यात् । तत आ-
 ज्ये प्रोक्षणीवदुत्पवनम् । अवेक्ष्य सत्यपेद्रव्ये तन्निरसनं ततः
 पूर्ववत्प्रोक्षयुत्पवनं तत उत्थायोपथमनकुशानादाय प्रजा-
 पतिं मनसा ध्यात्वा तूर्णीमग्नौ घृताक्ताः समिधः क्षिपेत्

हाल के प्रणीता के जल से तीन बार धोकर प्रणीता के थोड़े जल सहित स्वयं
 चरु को ले के और ब्रह्मा आज्य को लेकर अग्नि के भीतर उत्तर में चरु और
 दक्षिण में आज्य को एक साथ अग्नि पर पकने को रखें तदनन्तर चरु पक
 जाने पर सूखे कुश जलाकर घी और चरु के ऊपर प्रदक्षिण समण कराके अग्नि
 में जलते कुश फेंक कर सुवा को तीन बार अग्नि में तपा के संमार्जन कुशों के
 अग्रभाग से भीतर को और कुशों के मूलभाग से बाहर की ओर सुवा को झाड़
 पोंछ शुद्ध कर तपा प्रणीता के जल से सेचन करके और फिर तीन बार तपा के
 अग्नि से दक्षिण की ओर सुवा को धर देवे । तत्पश्चात् तपते हुए घी की
 अग्नि से उत्तर के चरु से पूर्व की ओर से लाकर सामने धरे और आज्य के
 पश्चिम की ओर से चरु को अग्नि उत्तर आज्य से उत्तर में धरे । तब तीन बार
 प्रोक्षणी के तुल्य पवित्रों से घी का उपवन करके देवे यदि घृत में कुछ निकट
 वस्तु हो तो निकाल कर फेंक देवे और फिर तीन बार प्रोक्षणीपात्र का उप-
 वन करे । तदनन्तर रुठ कर उपयमनकुशों को घाम हाथ में लीके प्रजापति का
 मन से ध्यान करके घृत में डुबोई तीन समिधाओं को तूर्णी विना मन्त्र पढ़े
 एक २ कर अग्नि में चढ़ावे । फिर बैठ कर पवित्र सहित प्रोक्षणी के जल को

ली संमार्जनकुशाउपयमनकुशाः प्रादेशमितपालाशसमिध-
 स्तिस्रः सुव घ्राज्यं तरडुलपूर्णपात्रं तिलमुद्गमिश्रास्तंडुलाः ।
 एतानि पवित्रच्छेदनकुशानां पूर्वपूर्वदिशिक्रमेणासादनीया-
 नि । तदुत्तरतः वीणागाथिनौ प्रादेशमात्रसाग्राश्वत्थशंकुः,
 त्रिश्वेतशल्लकीकण्टकं पीतसूत्रपूर्णस्तर्कुः, दर्भपिञ्जूलिकात्र-
 यमुद्गुन्धरयुग्मफलसुवर्णाघटितप्रादेशमितशाखा । एतत्सर्व-
 मासाद्यपवित्रच्छेदनार्थकुशैः प्रादेशमितपवित्रे छित्त्वा सप-
 वित्रपाणिना प्रणीतोदकं त्रिः प्रोक्षणीपात्रे कृत्वा-घ्रनामि-
 कांडूगुष्ठाभ्यामुत्तराग्रे पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुदिद्गनं प्रणीतो-
 दकेन प्रोक्षणीप्रोक्षणं ततः प्रोक्षणीजलेन यथासादितद्रव्य-
 सेचनं ततोऽग्निप्रणीतयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रनिधानं तत घ्रा-
 ज्यस्थाल्यामाज्यनिर्वापः, चरौ तु तिलतरडुलमुद्गानां प्रणी-

जिन के भीतर अन्य कुश न हो ऐसे दो कुश, प्रोक्षणीपात्र, प्राज्यस्थाली, चर-
 स्थाली संमार्जनकुश, उपयमनकुश, टांक की तीन समिधा, सुव, घ्राज्य, चावलों
 से भरा एक पूर्णपात्र, तिल मूग मिश्र के लिये चावल, पवित्र छेदन कुशों
 से पूर्व पूर्व क्रम से उत्तर की अग्रभाग कर २ इन सब का स्थापन करे । उन
 से उत्तर में दो वीणा पर गाने वाले १ पीपल की खूटी । तीन जगह श्वेत १
 सेही का कांटा, पीले सूत से लपेटा १ लकुआ, ३ दाभ की विंजली, उद्गुन्धर
 के दो फलो सहित प्रादेशमात्र उद्गुन्धर की शाखा इन सब का आसादन करके
 पवित्रच्छेदनार्थ तीन कुशों से प्रादेशमात्र दो कुशों का छेदन करके पवित्र सहित
 दहिने द्वाय से प्रणीता के जल को तीन बार प्रोक्षणीपात्र में डाल कर अना-
 मिका और अहुम से पकड़े हुये पवित्रों से उस प्रोक्षणीस्थ जलका उपसन करे
 और प्रणीता के जल से प्रोक्षणीस्थ जल का पवित्रों द्वारा तीन बार अभिसेचन
 कर के प्रोक्षणीपात्र के जल से आसादन किये प्राज्यस्थाली आदि का सेचन
 करके अग्नि और प्रणीतापात्र के बीच में प्रोक्षणीपात्र को रख देवे । तब प्रा-
 ज्यस्थाली में घृतपात्र से घृत गिरावे और चरुपात्र में तिल चावल और मूग

तोदकेन त्रिःप्रक्षालनं तत्र किञ्चिज्जलं दत्त्वा तद्गुण्डुलप्रक्षेपः ।
 ततः स्वयं चरुं गृहीत्वा ब्रह्मणाचाज्यं ग्राहयित्वा वह्नेरुप-
 र्युत्तरतश्चरुं दक्षिणत आज्यं युगपन्निदध्यात् । ततः सिद्धे चरौ
 ज्वलत्तृणं प्रदक्षिणं भ्रामयित्वा वह्नौ तत्प्रक्षेपः । ततः सुव-
 प्रतपनं त्रिः । ततः संमार्जनकुशानामग्रैरन्तरतो मूलैर्वाह्यतः
 सुव्रं संमृज्य प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य पुनस्त्रिःप्रतप्य दक्षिणतो नि-
 दध्यात् । ततश्चाज्यमग्नितउद्वास्यचरोः पूर्वगानीयाग्रे धृत्वा
 आज्यपश्चिमेन चरुमानीयाज्यरयोत्तरतो निदध्यात् । ततश्चा-
 ज्ये प्रोक्षणीवदुत्पवनम् । अवेक्ष्य संत्येपद्रव्ये तन्निरसनं ततः
 पूर्ववत्प्रोक्षयुत्पवनं तत्तउत्थायोपयमनकुशानादाय प्रजा-
 पतिं मनसा ध्यात्वा तूर्णीमग्नौ घृताक्ताः समिधः क्षिपेत्

हाल के प्रणीता के जल से तीन बार धोकर प्रणीता के थोड़े जल सहित स्वयं चरु को ले के और ब्रह्मा आज्य को लेकर अग्नि के भीतर उत्तर में चरु और दक्षिण में आज्य को एक साथ अग्नि पकने के रक्ते तदनन्तर चरु पफ लाने पर मुखे कुश जलाकर घी और तपा के प्रदक्षिण समण कराके अग्नि में जलते कुश फेंक कर सुवा के मूलाग से बाहर की ओर सुवा को झाड़ पोड शहकर तपा प्रणीता के जल से सेवन करके और फिर तीन बार तपा के अग्नि से दक्षिण की ओर सुवा को देवे । तदपश्चात् तपते हुए घी को अग्नि से उतार के चरु से पूर्व की ओर से लाकर सामने धरे और आज्य के पश्चिम की ओर से चरु को अग्नि उतार आज्य से उत्तर में धरे । तत्र तीन बार प्रोक्षणी के तुल्य पवित्रो से घी का उपवन करके देवे यदि घृत में कुछ निकट बरतु हो तो निकाल कर फेंक देवे और फिर तीन बार प्रोक्षणीपात्र का उप-वन करे । तदनन्तर उठ कर उपयमनकुशो को वाम हाथ में लेके प्रजापति का मन से ध्यान करके घृत में डुबोई तीन समिधाओ को तूर्णी विना मन्त्र पढ़े एक २ कर अग्नि में चढावे । फिर बैठ कर पवित्र सहित प्रोक्षणी के जल के

अथोपविश्य सपवित्रप्रोक्षणीजलेनाग्निं प्रदक्षिणाक्रमेण पर्युक्ष्य प्रणीतापात्रे पवित्रे धृत्वा ब्रह्मणान्वारब्धः पातितदक्षिणाजानुःसमिद्धतमेऽग्नौ जुहुयात् । तत्राहुतिचतुष्टये प्रत्याहुत्यनन्तरं हुतशेषस्य घृतस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः ॥

ओ३म्—प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये नमः ।

इति मनसा

ओ३म्—इन्द्राय स्वाहा । इदं मिन्द्राय ० इत्याधारी

ओ३म्—अग्नये स्वाहा इदं मग्नये नमः ।

ओ३म् सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय नमः ।

इत्याज्यभागौ । ततो ब्रह्मणाऽन्वारम्भे कृते स्थालीपाकेन होमः-

ओ३म्—प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये ०

इति मनसा । ततोऽनन्वारब्धो जुहुयात् । तत्तदाहुत्यनन्तरं सुवावस्थितहुतशेषस्य प्रोक्षण्यां प्रक्षेपः । तत्रैवाज्यस्थालीपाकाभ्यां स्विष्टकृतोमः-

ओ३म् अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदं मग्नये

स्विष्टकृते नमः । ओ३म् भूः स्वाहा । इदं-

प्रदक्षिणाक्रमेण से इशानकीर्ण से लेकर उत्तर दिशा तक अग्नि के सब ओर सेवन करे अर्थात् प्रोक्षणीपात्र का सब जल पर्युक्ष्य में गिरा देवे । प्रणीतापात्र में दोनों पवित्र रखके प्रोक्षणीपात्र का विसर्जन करे । तदनन्तर दहिने घोटू के भूमि में टोक कर ब्रह्मा से अन्वारब्ध हुआ यजमान प्रक्षलित अग्नि में सुवा से आग्याहुतियों का होम करे । वहां २ उष २ आहुति देने पश्चात् सुवा में जो घृतविन्दु धरें उन को प्रोक्षणीपात्र में डालता जावे । प्रजापति का ध्यान कर पूर्वापार की तूर्णों आहुति देवे । त्याग सब यजमान स्वयं शीलता जाय ।

मग्नये नमस । ओम् भुवः स्वाहा । इदं वा-
यवे नमस । ओम् स्वः स्वाहा । इदं सूर्याय
नमस ॥ एता महाव्याहृतयः ॥ ओं त्वन्नो
अग्नेवरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि-
सोष्ठाः । यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वां
द्वेषाथंसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा । इदमग्नी-
वरुणाभ्यां नमस । ओं स त्वन्नो अग्नेऽवसो
भवती नेदिष्ठो अस्यां उषसो व्युष्टौ ।
अवयद्व नो वरुणथं रराणो वीहिमृडीकथं
सुहवो न एधि स्वाहा । इदमग्नीवरुणाभ्यां
नमस । ओं अयाश्चाग्नेऽस्य नभिशस्तिपा-
श्च सत्यमित्त्वमया असि । अया नो यज्ञं व-
हास्यया नो घेहि भेषजथंस्वाहा । इदम-
ग्नये नमस । ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्रं
यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । तेभिर्ना
अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्व-
र्काः स्वाहा । इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे
विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च नमस ।

आचार की दो आज्यभाग की दो और महाव्याहृतियों की तीन सर्वप्रायश्चित्त
की पांच तथा प्राजापत्य और स्विष्टकृत् दो सब चौदह आहुति त्यागों सहित

ओं उद्भुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं
 ध्यमथं अथाय । अथावयमादित्य व्रते त
 नागसो अदितये स्याम स्वाहा । इदं
 य नमम । इति सर्वप्रायश्चित्तम् ।

ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये नमम ।

इति प्राजापत्यम् । अथ संस्रवप्राशनम् । तत आचम्य

ओं अद्यैतस्मिन् सीमन्तोन्नयनहोमकर्मणि
 ताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थमिदं पूर्ण
 पात्रं प्रजापतिदेवतसमुक्कगोत्रायाऽमुक्कशर्म-
 णो ब्राह्मणाय ब्रह्मणे दक्षिणां तुभ्यमहं सं-
 प्रददे । ओ स्वस्तीति प्रतिवचनम् । ततः—

ओं सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु ।

इति पवित्राभ्यां प्रणीताजलेन शिरः संमृज्य—

ओं दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्वेष्टि
 यं च वयं द्विष्टमः । इत्यैशान्यां प्रणीतान्युव्वजोकर-
 णम् । ततः—स्तरणक्रमेण बर्हिस्तथाप्याज्येनाभिचार्य—

देके संस्रवप्राशन कर हाय धो आचमन करके ब्रह्मा की दक्षिणा देवे उस में (ज्याम
 द्यैतस्मिन्) इत्यादि संस्कार पड़े । और ब्रह्मा (ओम्-स्वस्ति०) कह कर दक्षिणा
 लेवे । तदनन्तर पवित्रों द्वारा प्रणीता का जल लेकर (ओ सुमित्रि०) पात्र पड़े
 के अपने शिर पर जलसेचन करके (ओ दुर्मित्रिया०) म.श से प्रणीता के जल
 को ईशान दिशा में लोट देवे और पवित्रों को विश्वामे हुए कुशों में मिला देवे
 तब निश्च क्रम से पुनः विद्याये से उसी क्रम से पवित्रों सहित उठाकर कुशों में

ॐ देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गासुमित ।
मनसरपत इमं देवयज्ञं स्वाहा वातेधाः
स्वाहा ॥ इदं वाताय नमस ॥

इति मन्त्रेण बर्हिर्होमः । ततः—परचादग्नेर्यधूमहतवा-
ससो परिधाप्य मृद्वासने उपवेशयेत् । ततस्त्रिरवेतशालकी-
कण्टकाश्वत्थशङ्कुपीततन्तुकुंदर्भपिंजूलोषितयोदुम्बरफल
युग्मान्वितप्रदेशमितशाखाभिर्वर्तुलीकृत्य सीमन्तं मूर्धनि
विनयति—

ॐ भूर्भुवः स्वर्विनयामि । इति मन्त्रेण सकृत्,
ॐ भूर्विनयामि । ॐ भुवर्विनयामि ।
ॐ स्वर्विनयामि ।

इति मन्त्रैर्वारत्रयं तत—उदुम्बरफलयुग्मान्वितशाल-
कीकण्टकादिपंचकं वधूसीमन्तदक्षिणातो वेणीकृत्वा—ध्रुव-
मूर्जति मन्त्रेण पतिर्वध्नाति—

ॐ अयमूर्जावितो वृक्ष उर्जाव फलिनीभव ।

पी लगा के दाप से ही कुर्गों का हीम (ओं देवा गातुविदो) मन्त्र पढ़ के त्याग के
साथ कर दिये । तदनन्तर अग्नि से पश्चिम में घण्टीके नभे शुद्ध दो मन्त्र पढ़िना कर
कोमल आमन पर घेटाये । तपश्चात् तीन स्थानों में अथेन मेही का कांटा, पी-
पल की सूटी, पीले मूल से लपेटा लफुआ, कुग की बंधीहुए तीन पिंजुली, गु-
गर के दो फलों से युक्त भारवा में मेही के कांटे आदि हो लपेट के तपू के
सूत्रांस्थान में बांध गये । (ओं भूर्भुवः) इत्यादि चार मन्त्रों से चार चार बांधगये
तदनन्तर पति घण्टी के सीमन्त के दक्षिणी ओर के वालों की पीठ के साथ मूलर
के दो फलों से युक्त मेही के कांटे आदि पांचों हो (अयमूर्जां) मन्त्र से बांध

तत उदुम्बरफलादिसमन्वितसूत्रदोरकं वधूश्रीवायाम-
नेनैव क्रमेणं वध्नीयात् । राजानथ संगायेतामितिप्रैथान-
न्तरं—सोमएव नो राजेमा मानुषीः प्रजाः । अविमुक्तचक्र
घ्रासीरंस्तोरे तुभ्यमसौ । श्री अमुकदेवि! इति गाथा वीणा-
गाथिनौ गाथतः । अन्धो वा वीरतरः । ततो या ग्रामस-
न्निहितनदी तस्या नाम गृह्णीयात् । तत उत्थाय वधूदक्षि
णकरेण सुवस्पृष्टेन फलपुष्पसमन्वितघृतेन—

ओं मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वै-
श्वानरमृतआजातमग्निम् । कविथं सम्मा-
जमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः
स्वाहा ॥ इति मन्त्रेण ।

ओं पूर्णां दर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत । व-
स्नेवविक्रीणावहा इषमूर्जथं शतक्रतोस्वाहा ॥

इत्यनेन च पूर्णाहुतिं दत्वोपविश्य सुवेण भस्मानीय
दक्षिणकरानामिकाग्रगृहीतभस्मना—

१) ओं ज्यायुषं जमदग्नेः । इति ललाटे । ओं

देवे । तिस पीछे गूलर के फलादि युक्त सूत के डोरा को पति वधू की श्रीवा
में बांधे । तदनन्तर यजमान वीणा पर गाने वालो से कहे कि (राजानं संगाये-
ताम्) तब दो वीणा बजाने वाले (सोमएव नो) इत्यादि मन्त्रको खं या पर गाये
मन्त्रान्त से अक्षीपद् को ढोड के तन के स्थानमें स्त्री का सद्योपन नाम बोले ।
तदनन्तर जो गाथ के सक्षीप में नदी ही उस का नाम लेवे । तिस पीछे फल
पुष्प समन्वित पूतसे भरे सुधाको वधूके दहिने हाथसे स्पर्श कराके (मूर्धानं)
मन्त्र से तथा (पूर्णां दर्विं) मन्त्र से पूर्णाहुति दिलावे । तदनन्तर दहिने हाथ
की अनामिका के अग्रभाग से कुण्ड की भस्म लेके (ज्यायुषं) से ललाट में (क-

कश्यपस्य त्र्यायुषम् । इति ग्रीवायाम् । ओं
यद्वेवेषु त्र्यायुषम् । इति दक्षिणबाहुमूले । ओं
तन्नो अस्तु त्र्यायुषम् । इति हृदि ।

इति त्र्यायुषं कुर्यात् । अनेनैव क्रमेण वध्वा अपि त्र्या-
युषं कुर्यात् । तत्र तत्ते अस्तु त्र्यायुषम्—इति विशेषः ॥ ततो
ब्राह्मणभोजनम् ॥ इति सोमन्तकर्म समाप्तम् ॥३॥

अथ-जातकर्म ॥

तत्र प्रथमं शूलवतीमद्विः परिपिञ्चेत्—

ओम्—एजतु दशमास्यो गर्भा जरायुणा
सह । यथायं वायुरेजति यथा समुद्रएजति ।
एवायं दशमास्यो अस्त्रज्जरायुणा सह ॥

इति मन्त्रेण । ततो वधूसमीपे पतिर्जपति ॥

ओ३म्—अवेतु पृश्निशेवलथं शुने जरा-
यवत्तवे नैव माथंसेन पीवरीं न कस्मिंश्चना-
यतनमवजरायु पद्यतामिति ॥

पपस्य०) से ग्रीवा में (यद्वेवेषु०) से दहिने बाहु के मूल में और (तन्नोअस्तु०)
। हृदय में मन्त्र लगावे । इसी क्रम से वधू के भी त्र्यायुष करे परन्तु वधू के
राम लगाने समय (तन्नो) के स्थान में (तत्ते) मन्त्र में कहे । तदनन्तर ब्रा-
ह्मण भोजन करावे । इति सोमन्तोन्नयनम् ॥

अथ जातकर्म—प्रथम जय गर्भवती स्त्री के पेट में मन्तानोत्पत्ति की पीड़ा
सेने लगे तब पति (एजतु दशमास्यो०) मात्र पद के स्त्री के शरीर पर मार्जन,
रे । फिर गर्भिणी परती के समीप बैठकर पति (अवेतु०) मात्र पढ़े । तदनन्तर

ततः पुत्रे जाते नाभिवर्धनीयात्प्राक् कुमारं दक्षिण-
करस्यानामिकया स्वर्णान्तर्हितया मधुघृते एकीकृते घृतमेव
वा वक्ष्यमाणमन्त्रैः प्राशयति-

ओ३म्-भूस्त्वयि दधामि । ओ३म् भु-
वस्त्वयि दधामि । ओ३म्-स्वस्त्वयि दधामि ।
ओ३म्-भूर्भुवःस्वः सर्वं त्वयि दधामि ॥

इति मन्त्रैः ॥ एतेञ्च मेधाजननम् ॥ ततः कुमारस्य
दक्षिण कर्णं नाभ्यां वा मुखं दत्त्वा जपेत्-

ओ३म्-अग्निरायुष्मान्तस वनस्पतिभिरायु-
ष्मँस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥१॥
ओ३म्-सोमआयुष्मान्तस ओषधीभिरायु-
ष्मँस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ २ ॥
ओ३म्-ब्रह्मायुष्मत्तद्वाह्नयैरायुष्मत्तेन त्वा-
ऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ३ ॥ ओ३म्-देवा
आयुष्मन्तस्तेऽमृतेनायुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽयु-
षाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥४॥ ओ३म्-ऋषयत्रा-

पुत्र के उरपर होनेपर नाल काटने से पहिले दहिने हाथ की अनामिका अङ्गु-
ली के अग्रभाग में मुखर्ण लगा के मुखर्ण सहित अङ्गुली से शहत और घी को सि-
ला के (ओ३म्भूस्त्वयि०) इत्यादि चार मन्त्री से बालक को धोहार चारवार घटावे
इस को मेधाजनन संस्कार कहते हैं । तदनन्तर वरुचे के दहिने कान वा नाभि
के समीप मुख करके (ओ३म्-अग्निरायुष्मान्०) इत्यादि आठ मन्त्र साधनी से

युष्मन्तस्ते व्रतैरायुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽयुषाऽ-
 ऽयुष्मन्तं करोमि ॥५॥ ओ३म्—पितर आयु-
 ष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन त्वायुषा-
 युष्मन्तं करोमि ॥ ६॥ ओ३म्—यज्ञ आयुष्मा-
 न्तसदक्षिणाभिरायुष्मांस्तेन त्वायुषायुष्मन्तं
 करोमि ॥ ७ ॥ ओ३म्—समुद्रआयुष्मान्तस-
 ख्वन्तीभिरायुष्मांस्तेन त्वायुषायुष्मन्तं क-
 रोमि ॥ ८ ॥ इति जपित्वा ।

ओ३म् त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायु-
 षम् । यद्वेदेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषम् ॥

इति त्रिर्जपेत् । अथ तरय दीर्घमायुः कामयमानः
 पुत्रमभिरुपशन्वात्सप्रं जपति सचायम्—

ओ३म्—दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निर-
 ससद्वितीयं परि जातवेदाः ॥ तृतीयमप्सु नृ-
 मणा अजस्रमिन्धानशनं जरते स्वाधीः ॥१॥
 ओ३म्—विद्सा ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि वि-
 द्सा ते धाम विभृता पुरुत्रा ॥ विद्सा ते ना-

पठके (न्यायुषं) मन्त्र को तीन बार पढ़े । तदनन्तर पुत्र की पूर्ण आयु होना चा-
 हता हुआ पिता वरुचे के सब शरीर का स्पर्श करता हुआ (ओ३म्-दिवस्परि०)

म परमं गुहा यद्विद्मा तमुत्सं यत आज-
 गन्थ ॥ २ ॥ ओ३म्-समद्रे त्वा नृमणा अ-
 प्स्वन्तर्नृचक्षाईधे दिवो अग्नऊधन् । तृतीये
 त्वा रजसि तस्थिवाथंसमपामुपस्थे महिषा
 अवर्द्धन् ॥३॥ ओ३म्-अक्रन्ददग्निः स्तनय-
 निवद्यौः क्षामा रेरिहद्वीरुधः समञ्जन् । सद्यो
 जज्ञानो त्विहीमिद्धो अख्यदारोदसी भानुना
 मात्यन्तः ॥ ४ ॥ ओ३म्-श्रीणामुदारो धरुणो
 रधीणां मनीषाणां प्रार्पणः सोमगोपाः ॥ वसुः
 सूनुः सहसो अप्सु राजा विभात्यग्र उषसा-
 मिधानः ॥ ५ ॥ ओ३म्-विश्वस्य केतुर्भुवनस्य
 गर्भ आ रोदसी अपृणाज्जायमानः । वीडुं
 चिदद्रिमभिनत्परायन् जना यदग्निमयजन्त
 पञ्च ॥६॥ ओ३म्-उशिक्षावको अरतिः सु-
 मेधामर्चेष्वग्निरमृतो निधायि । इयर्त्तिधूम-
 संरुषं भरिम्बदुच्छुक्रेण शोचिषाद्यामिनक्षन् ७
 ओ३म्दूशानोरुक्मउर्व्याद्यौदुर्मर्षमायुः प्रिये
 रुचानः । अग्निरमृतो अभवद्वयोभिर्यदनेन्द्यौ-
 रजनयत्सुरेताः ॥८॥ ओं यस्ते अद्य कृणवद्भद्र-

शोचे पूषन्देव घृतवन्तमग्ने ! । प्रतन्नय प्रतरं
 वस्यो अच्छामिसुम्नं देवभक्तं यविष्ठं ! ॥ ८ ॥
 ओम्-आ तं भज सौश्रवसेष्वग्न उक्थ उक्थ
 आभज शस्यमाने । प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना
 भवात्युज्जातेन भिनददुज्जनित्वैः ॥१०॥ ओं
 त्वासग्ने यजमाना अनुद्युन् विप्रवावसु द-
 धिरे वायरीणि । त्वया सह द्रविणमिच्छमाना
 व्रजं गोमन्तमुशिजो विवव्रुः ॥ ११ ॥

ततः कुमारं प्रतिदिशमेकैकं ब्राह्मणं मध्ये पञ्चममूर्ध्व-
 मवेक्ष्यमाणमवस्थाप्य तमुद्दिश्य-इममनुप्राणितेति पिता
 ब्रूयात् । ततरतेषु प्राणोति पूर्वा व्यानेति दक्षिणोऽपानेति-
 अपर उदानेति उत्तर, उपरिष्ठादवेक्ष्यमाणः समानेति पञ्चमो
 ब्रूयात् । एवामभावे पिता स्वयमेव तत्रतत्रोपविश्य तथैव
 ब्रूयात् । अथ कुमारस्य जन्मभूमिमभिमन्त्रयेत्-

ओं वेद ते भूमि हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रि-

इत्यादि ग्यारह मन्त्रों का पाठ करे । तदनन्तर घच्चे के चारों ओर पूर्वादि चार
 दिशाओं में चार ब्राह्मणों की ओर पांचवें ब्राह्मण को बीच में बैठे के [बीच वा-
 ला ब्राह्मण ऊपर की देखता ही तब] पिता बहे (इममनुप्राणित) तदन्तर पूर्व-
 वाला ब्राह्मण बहे (प्राण) दक्षिणवाला बहे (व्यान) पश्चिमवाला बहे (अपान)
 उत्तरवाला बहे (उदान) और बीचवाला पांचवां ऊपर की देखता हुआ बहे (स-
 मान) यदि उस समय पांच ब्राह्मण न मिलें तो पिता प्रियवाक्य कहकर स्वयं उ-
 सर दिशा में बैठ कर (प्राण) आदि शब्द बोललेवे । अथ इस के पश्चात् जहां
 वच्चे का जन्म हुआ हो उस स्थान की देखता हुआ (ओं वेद ते भूमि०) मन्त्र को

तम् । वेदाहं तन्मां तद्विद्यात्पश्येम शरदः शतं
जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतम् ॥

इति मन्त्रेण । अथाऽश्माभवेति कुमारमभिमृशति ।

ओम्—अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमश्रु-
तं भव । आत्मा वै पुत्रनामासि त्वं जीव श-
रदः शतम् ॥

ततः कुमारमातरमिडासीति मन्त्रेणाभिमन्त्रयेत् ।

इडासि मैत्रावरुणी वीरे ! वीरमजीजनथाः । सा
त्वं वीरवती भव याऽस्मान्वीरवतीऽकरत् ॥

ततः कुमारनाभिवर्द्धने कृते तस्या दक्षिणस्तनं प्रक्षाल्य
कुमाराय प्रयच्छति—

ओम्—इमं स्तनमूर्जस्वन्तं ध्यायां प्र-
पीनमग्रे शरीरस्य मध्ये । उत्सं जुषस्व म-
धुमन्तमूर्जस्वन्तसमुद्भियं सदनमाविशस्व ॥

इति मन्त्रेण ततो वामस्तनं प्रक्षाल्य प्रयच्छति—

ओम्—इमं स्तनमित्यादि । ओम्—यस्ते
स्तनः शशयो यो मयोभूर्या रत्नधा वसुविद्यः

पठे । इस के पश्चात् (अश्मा भवेत्) मन्त्र से वरुचे का स्पर्श करे । फिर वरुचे की माता की ओर देखता हुआ (इडासि) इत्यादि मन्त्र पठे । तदनन्तर वरुचे का नाल कटजाने पर स्त्री के दहिने स्तन [दूध] को धोकर (इमं स्तनं) मन्त्र से वरुचे के मुख में देवे । फिर बाये स्तन [दूध] का प्रक्षालन करके (इमं स्तनं) तथा (यस्ते स्तनः) इन दो मन्त्रों से वरुचे के मुख में देवे । तदनन्तर सूतिका स्त्री

सुदत्रः । येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्व-
ति ! तमिह धातवेऽकः ॥ इति मन्त्रांभ्याम् ।

ततः प्रसवित्रीशिरोदेशे भूमौ वारिपूर्णभाजनं निदध्यात् ।

ओम्—आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु जाग्रथ
एवमस्यां सूतिकायां सपुत्रिकायां जाग्रथ ॥

इत्यनेन मन्त्रेण तच्च सूतिकोत्थापनपर्यन्तं तत्रैव
धर्त्तव्यम् । ततः सूतिकागृहद्वारप्रवेशे पञ्चभूसंस्कारान् कृ-
त्वाग्नेरुपसमाधानं स चाग्निरुत्थानदिनपर्यन्तं तत्रैव धर्त्त-
व्यः । तत्र चाग्नौ सन्ध्ययोः फलीकरणारतखड्गलांस्तन्मिश्रान्
सर्पपान् दश दिनानि पिता अन्यो वा ब्राह्मणः शरडामर्का
इतिमन्त्राभ्यामाहुतिद्वयं नित्यं हस्तेन जुहोति ।

ओम्—शरडामर्का उपवीरः शौण्डिकेय उ-
लूखलः । मलिम्लुचो द्रोणासश्च्यवनो नश्य-
तादितः स्वाहा ॥ इदं शरडामर्काभ्यामुपवी-
राय मलिम्लुचाय द्रोणेभ्यश्च्यवनाय नमः ।
ओम्—आलिखन्ननिमिषः किंवदन्त उपश्रुति-
र्हर्षक्षः कुम्भीशत्रुः पात्रपाणिर्नृमणिर्हन्त्रीसु-

की खटिया के सिरहाने जल से भरेके एक घडा (आपो देवेषु) मन्त्र से धरे ।
यह घट सूतिका स्त्री के उठने पर्यन्त दश दिन तक वहीं धरा रखे । तदनन्तर
सूतिकाघर के द्वार पर पञ्चभूसंस्कार करके किसी कुयह वा श्रंगीठी में अ-
ग्निस्थापन करे । यह अग्नि दश दिन तक घड़ां रहे बुतने न पावे । उस अग्नि
में साय प्रातःकाल चायना के कुछ और सरसो की पिता वा अन्य ब्राह्मण (ओम्-

रतः कुशोपरि निदध्यात् । ततः परिस्तरणम्—बर्हिपश्चतुर्थ-
भागमादाग्नेयादीशानान्तं नैऋत्याद्वायव्यान्तम् । अग्निः
प्रणीतापर्यन्तम् । ततोऽग्नेरुत्तरतः पश्चिमदिशि पवित्रच्छेद-
नार्थं साग्रमनन्तर्गर्भं कुशपत्रद्वयं प्रोक्षणीपात्रमाज्यस्थाली
संमार्जनकुशा उपयमनकुशाः प्रादेशमितपालाशसमिधरित-
स्रः स्रुव आज्यं तदुल्लूख्यं पूर्णपात्रमेतानि पवित्रच्छेदनकुशा-
नां पूर्वपूर्वदिशि क्रमैः सादनीयानि । ततः पवित्रच्छेदन-
ार्थं कुशैः प्रादेशमितपवित्रे छित्त्वा सपवित्रपाणिना प्रणीतो-
दकं त्रिः प्रोक्षणीपात्रे कृत्वा—अनामिकाद्गुप्ठाभ्यामुत्तराग्रे
पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुदिङ्गनं प्रणीतोदकेन प्रोक्षणीप्रोक्षणं
ततः प्रोक्षणीजलेन यथासादितद्रव्यसेचनं ततोऽग्निप्रणी-
तयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रनिधानं तत आज्यस्थाल्यामाज्यनि-

लोकन करके अग्नि से उत्तर कुशों पर प्रणीतापात्र को प्रागग्र रखते । तदनन्तर
चार मुट्टी कुश लेकर अग्नि के सब ओर परिस्तरण करे—एक चौघाई कुश अ-
ग्निकोण से ईशानदिशा तक, द्वितीय भाग दक्षिण के आसन में अग्निपर्यन्त,
तृतीयभाग नैऋतकोण से वायुकोण पर्यन्त चौघा अग्नि से प्रणीता पर्यन्त बि-
छावे । तदनन्तर अग्निसे उत्तर में प्रागग्रसंख्य पात्रासादन करे । पवित्र छेदनार्थ
तीन कुश तथा पवित्रकरणार्थ अग्रभाग सहित जिनके भीतर अज्य कुश न हो ऐसे
दो कुश, प्रोक्षणीपात्र, आज्यस्थाली, संमार्जनकुश, उपयमनकुश, टाक की तीन
समिधा, स्रुव, आज्य, चावलीसे भरर एक पूर्णपात्र, पवित्र छेदन कुशों से पूर्व
पूर्व क्रम से उत्तर की अग्रभाग कर २ इंच सब का स्थापन करे । पवित्रछेद-
नार्थ तीन कुशों से प्रादेशमात्र दो कुशों का छेदन करके पवित्र सहित दहि-
ने हाथ से प्रणीता के जल को तीन बार प्रोक्षणीपात्र में डाल कर अनामिका
और अङ्गुष्ठ से पकड़े हुये पवित्रों से उच्च प्रोक्षणीस्थ जलका उपपवन करे और
प्रणीता के जल से प्रोक्षणीस्थ जल का पवित्रों द्वारा तीन बार अभिसेचन कर
के प्रोक्षणीपात्र के जल से आसादन किये आज्यस्थाली आदिका सेचन करके
अग्नि और प्रणीतापात्र के बीच में प्रोक्षणीपात्र को रख देवे । तब आज्यस्था-

र्वापः, आज्यमधिश्चित्य ज्वलत्तृणं प्रदक्षिणं भ्रामयित्वा व-
ह्नौ तत्प्रक्षेपः । ततः सुवप्रतपनं त्रिः । ततः संमार्जनकु-
शानामग्रैरन्तरतो मूलैर्वाह्यतः सुवं संमृज्य प्रणीतोदकेना-
भ्युक्ष्य पुनस्त्रिःप्रतप्य दक्षिणतो निदध्यात् । तत आज्य-
मग्नितउद्वास्याग्नेरुत्तरतो निदध्यात् । तत आज्ये प्रोक्षणी-
वदुत्पवनम् । आज्यमवेक्ष्य सत्यपद्रव्ये तन्निरसनं ततः पूर्व-
वत्प्रोक्षय्युत्पवनं, ततउत्थायोपयमनकुशानादाय प्रजापतिं
मनसा ध्यात्वा तूष्णीमग्नौ घृताक्ताः समिधः क्षिपेत् । अ-
थोपविश्य सपवित्रप्रोक्षणीजलेनाग्निं प्रदक्षिणक्रमेण प-
र्युक्ष्य प्रणीतापात्रे पवित्रे धृत्वा ब्रह्मणान्वारवधः पातित-
दक्षिणजानुः समिद्रुतमेऽग्नौ जुहुयात् । तत्राहुतिचतुष्टये प्र-

ली में घृतपात्र से घृत गिरावे घृत को अग्नि पर धरके सूखे कुश जलाकर घी
के ऊपर प्रदक्षिण भ्रमण कराके अग्नि में जलते कुश फेंक कर सुवा को तीन
बार अग्नि में तपा के संमार्जन कुशों के अग्रभाग से भीतर को और कुशों के
मूलभाग से बाहर की ओर सुवा को झाड़ पीछे शूढ़कर तपा प्रणीता के जल से
सेचन करके और फिर तीन बार तपा के अग्नि से दक्षिण की ओर सुवा को
धरदेवे । तत्पश्चात् तपते हुए घी को अग्निसे उतार के उत्तरमें धरे । तब तीन
बार प्रोक्षणी के तुल्य पवित्रोंसे घी का उत्पवन करके देवे यदि घृतमें कुछ निकल
वस्तु हो तो निकाल कर फेंक देवे और फिर तीन बार प्रोक्षणीपात्र का उत्प-
वन करे । तदनन्तर ठठ कर उपयमनकुशों को वाम हाथ में लेके प्रजापति का
मन से ध्यान करके घृत में डुबोई तीन समिधाओं को तूष्णीं बिना मन्त्र पढ़े
एक २ कर अग्नि में चढ़ावे । फिर बैठ कर पवित्र सहित प्रोक्षणी के जल को
प्रदक्षिणक्रम से ईशानकोण से लेकर उत्तर दिशा तक अग्नि के सब ओर सेचन
करे अर्थात् प्रोक्षणीपात्र का सब जल पर्युक्षण में गिरा देवे । प्रणीतापात्र में
दोनों पवित्र रखके प्रोक्षणीपात्र का विसर्जन करे । तदनन्तर दहिने घोंटू को
भूमि में टेक कर ब्रह्मासे अन्वारवध हुआ यजमान प्रज्वलित अग्नि में सुवा
से आज्याहुतियों का होम करे । वहाँ २ उष २ आहुति देने पश्चात् सुवा में

त्याहुत्यनन्तरं हुतशेषस्य घृतस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः ॥

ओ३म्-प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये नमः ।

इति मनसा

ओ३म्-इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय० । इत्याघारौ

ओ३म्-अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये नमः ।

ओ३म्-सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय नमः ।

इत्याज्यभागी ।

ओ३म्-भूः स्वाहा ॥ इदमग्नये नमः ।

ओं-भुवः स्वाहा ॥ इदं वायवे नमः । ओं

स्वः स्वाहा ॥ इदं सूर्याय नमः ।

एता महाव्याहृतयः ॥

ओं- त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्-दे-
वस्य हेडोऽअवयासिसीष्ठाः । यजिष्ठो व-
ह्नितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषाथंसि प्रमु-
मुग्ध्यस्मत्स्वाहा ॥१॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां
नमः । ओ३म्-स त्वन्नो अग्नेऽवमो भवोती-
नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टी । अवयस्व

जो घृतबिन्दु बचे उन को प्रोक्षणीपात्र में डालता जावे । प्रजापति का ध्यान कर पूर्वोघार की तूष्णीं आहुति देवे । त्याग सब यजमान स्वयं धीलता जाय । आघार की दो आज्य भाग की दो और महाव्याहृतियों की तीन सर्वप्राय-

नो वरुणथं रराणो वीहि मृडीकथं सुहवी न-
 णधि स्वाहा ॥२॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां नमस ।
 ओं-अयाश्चाग्नेऽस्यनभिश्चितपाश्च सत्य-
 मित्त्वमया असि । अया नो यज्ञं वहास्यया
 नो धेहि भेषजथं स्वाहा ॥ ३ ॥ इदमग्नये
 नमस । ओं-ये ते शतं वरुण ये सहस्रं य-
 ज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । तेभिर्नोऽद्य
 सवितोत विष्णुर्विष्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः
 स्वाहा ॥४॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे वि-
 ष्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्कभ्यश्च नमस ।
 ओम्-उदुत्तमं वरुण पाशमश्मदवाधमं वि-
 मध्यमथं श्रथाय । अथावयमादित्य ! वृते
 तवांनागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥५॥ इदं
 वरुणाय नमस । एताः सर्वप्रायश्चित्ताहु-
 तयः । ओम्-प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजा-
 पतये नमस । इति मनसा प्राजापत्यम् ।
 ओम्-अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदम-
 ग्नये स्विष्टकृते नमस ॥

इति स्विष्टकृद्धोमः । ततः संस्त्रवप्राशनमाचमनं च
 कृत्वा ब्रह्मणे दक्षिणां दद्यात् । ओमद्यैतस्मिन्नामकर्महो-
 मकर्मणि कृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं
 प्रजापतिदेवतममुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्रह्मणे ब्राह्मणाय
 दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे-इति दक्षिणां दद्यात् । ओं स्व-
 स्तीति प्रतिवचनम् । ततः—

ओं सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु ।

इति पवित्राभ्यां प्रणीताजलमानीय तेन शिरः संमृज्य-

ओं दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि

यं च वयं द्विष्मः ॥

इत्यैशान्यां प्रणीतान्युव्जीकरणम् । ततः स्तरणक्र-
 मेण बर्हिस्तथाप्य घृतेनाभिघार्य हस्तेनैव जुहुयात् ।

ओं देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित ।

मनसस्पतइमं देवयज्ञथं स्वाहा वातेधाः

स्वाहा ॥ इदं वाताय न मम । इति बर्हिर्होमः ।

द्विष्ट की पाच तथा प्रजापत्य और स्विष्टकृत् दो सत्र चौदह माहुति त्यागों
 सहित देके संस्त्रव प्राशन कर हाथ पी आचमन कर के ब्रह्मा को दक्षिणा देके
 उक्त में (ओमद्यैतस्मिन्०) इत्यादि सकल्प करे । और ब्रह्मा स्वस्ति कह कर
 दक्षिणा लिये । तदनन्तर पवित्रो द्वारा प्रणीता का जन लेकर (ओ सुमित्रि०)
 मन्त्र पठ के अपने शिर पर जलसेधन करके (ओ दुर्मित्रिया०) मन्त्र से प्रणीता
 के शेष जल को ईशान दिशा में लौट देके और पवित्रों को विदाये हुए कुशों में
 मिला देके तब जिस क्रम से कुश विदाये से उसी क्रम से पवित्रो सहित उठा
 कर कुशों में पी लगाके हाथ से ही कुशों का होम (ओ देवागातुवि०) मन्त्र

प्राङ्मुखं बालमादाय दक्षिणकर्णं—अमुकशर्मासीति
त्रिः श्रावयति । अथ आयुर्वेदान्मन्त्रः ॥

ओम्—अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधिजायसे ।
आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम् ॥
नाम इव्यक्षरं चतुरक्षरं सुखोद्यं शर्मान्तं ब्राह्मणस्य वर्मान्तं
क्षत्रियस्य गुप्तान्तं वैश्यस्य दासान्तं शूद्रस्य ॥ इति नामकर्म ॥

अथ निष्क्रमणम् ।

तत्र चतुर्थे मासि शुभे दिने रनातमलङ्कृतं शिशुं गृ-
हाद्वहिरानीय पिताऽन्यो वा ब्राह्मणः सूर्यमुदीक्षयति ।

पढ़ के त्याग के साथ कर देवे। तब बच्चे का पूर्व की मुख कर गोद में लीके उस
के कान में मुख लगाकर तीन बार कहे (अमुकशर्मासि) और (ओम्—अङ्गाद-
ङ्गात्सं०) मन्त्र को भी बच्चे के कान में पढ़े। नाम दो वा चार अक्षर का घो-
लने में सरल ब्राह्मण का शर्मान्त, क्षत्रिय का वर्मान्त, वैश्य का गुप्तान्त, और शूद्र
का दासान्त नाम रखे। कन्याओं के तीन वा पांच अक्षर के नाम धरे यथा—

श्वेदनिधि, विद्यानिधि, सत्यव्रत, धर्मानन्द, सुखदेव, सद्यदेव, दीनदयाल,
श्रीकृष्ण, हरिकृष्ण, हरेराम, श्रीधर, श्रीवत्सल, हरिवत्सल, माधव, रामरत्न,
राजाराम, रूपाराम, जयराम, लक्ष्मीचन्द्र, लक्ष्मण, शिवशंकर, महादेव, जयदेव
गोविंदराम, मधुसूदन, जयकृष्ण, बलभद्र, बलराम, शत्रुघ्न, नारायण, जयानन्द,
क्षेमराम, केवलराम, इत्यादि के साथ शर्मा, वर्मा, गुप्त, दास, लगालेना ॥

कन्याओं के नाम—ज्ञानदेवी, दमयन्ती, दयावती, बुद्धिमती, सावित्री,
भंगलदेवी, यशोदा, हेमवती, रुक्मिणी, लक्ष्मी, सत्यभामा, ईश्वरी, विष्णुदेवी
जयदेवी, श्रीदेवी, पूर्णदेवी, राधादेवी, भाग्यवती, कलावती, लीलावती, यज्ञा-
वती, रमादेवी, विद्याधरी, सरस्वती, सुखदा, मैत्रेयी, सीतादेवी, इत्यादि ॥

अथ निष्क्रमण—चौथे महिने में शुभ दिन बालक को स्नान कर और शुद्ध
वस्त्र आभूषण पहिना के पिता वा अन्य ब्राह्मण घरसे बाहर लाके (तच्छुद्धदेव०)

ओम्—तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् ।
 पश्येमं शरदः शतं जीवेम शरदः शतथं शृ-
 गुयाम शरदः शतं प्रव्रवाम शरदः शतमदी-
 नाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥

इति मन्त्रेण । तत्र फलपुष्पान्वितपयसा भास्कराया
 र्घा देयः ॥ इति निष्क्रमणम् ॥ ६ ॥

अथान्नप्राशनम् ॥

तत्र पठे मासि शुभे दिने स्नातः शुचिराचान्तः शुक्लद्वि-
 वासाः पिता सूतिकागृहण्य कुशकण्डिकां कुर्यात् । तत्र
 कुशैर्हस्तपरिमितचतुरस्रभूमिं परिसमुह्य तानैशान्यां नि-
 क्षिप्य गोमयोदकेनोपलिप्य स्फयेन सुवेण वा प्रादेशमात्र-
 मुत्तरीत्तरक्रमेण प्रागग्रं त्रिरुल्लिख्य उल्लेखनक्रमेणाना-
 मिकाङ्गुष्ठाभ्यां मृदं समुहधृत्य वारिणा तं देशमभ्युक्ष्य-
 कारयपात्रस्थं वह्निं प्रत्यद्मुखमुपसमाधाय—

मन्त्र पठ के मूर्य का दर्शन कराये तथा फल पुष्प सहित दूध का अर्घ्य मूर्य को
 दये ॥ इति निष्क्रमणम् ॥

अथ अन्नप्राशन—बड़े मदिने में शुभदिन पूर्वार्द्ध में बालक का पिता स्नान
 प्राणम कर दो बस्त्र पहिन के सूतिकाघर में विधिपूर्वक हीम करे । प्रथम
 वेदि में पचभूमिस्कार करे—तीन कुण्डों से वेदिभूमि को भाड़ कर कुण्डों को
 ईशानकेण में पेंककर गोबर और जल से लीप कर सुषार के मूल वा स्फ्य से
 उरर ० वेदिमें प्रागायत तीन रेखा करे । अन्नानिका और अंगुष्ठ से रेखाओं
 में से मृद को सटाकर पेंक के वेदिमें जलसेचन करे । कासेके वा मदी के पात्र
 में अग्नि स्कार पदिभाभिमुख स्थापन करे । तत्पश्चात्—पुरप चन्दन तारबूल

ओम्—अद्यकर्तव्यान्नप्राशनहोमकर्मणि
कृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्म कर्तुममुंकगोत्र-
समुकशर्माणां ब्राह्मणमेभिः पुष्पचन्दनताम्बू-
लवासीभिर्ब्रह्मत्वेन त्वामहं वृणो ।

इति ब्रह्माणं वृणुयात् ।

ओम्—वृतोऽस्मीति प्रतिवचनम् । ओम्—यथाविहितं
कर्म कुर्वति यजमानेनोक्ते—ओम्—करवाणीति तेनोक्ते अ-
ग्नेर्दक्षिणतः शुद्धमासनं निधाय तदुपरि प्राग्ग्रान् कुशाना-
स्तीर्य अग्निप्रदक्षिणं कारयित्वा ब्रह्माणमुदङ्मुखं तत्रोपवे-
श्यास्मिन्नन्नप्राशनहोमकर्मणि त्वम्मे ब्रह्माभवेत्यभिधाय—
ओम्—भवानीति तेनोक्ते प्रणीतापात्रं पुरतः कृत्वा वारिणा
परिपूर्य कुशैराच्छाद्य ब्रह्मणो मुखमवलोक्याग्नेरुत्तरतो नि-
दध्यात् । ततः परिस्तरणं बर्हिषश्चतुर्थभागमादायाग्नेयादी-
शानान्तं ब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तं नैर्ऋत्याद्वायव्यान्तमग्नितः

ओर घन्टो को लेकर (ओगद्य०) इत्यादि वाक्य पढ़ के यजमान ब्रह्मा का
वरण करे और पुष्पादि ब्रह्मा के हाथ में देवे । ब्रह्मा पुष्पादि को लेकर (वृती-
ऽस्मि) कहे । तब (यथाधि०) यजमान कहे ओर ब्रह्मा (करवाणि) कहे । तब
अग्नि से दक्षिण में शुद्ध आसन चौकी आदि धिखाकर उस पर पूर्व को जिनका
अग्रभाग हो ऐसे कुछ धिखाकर ब्रह्मा को अग्नि की प्रदक्षिणा कराके (अस्मिन्
कर्मणि त्वं मे ब्रह्मा भव) इस कर्म में तुम मेरे ब्रह्मा ही ऐसा कहकर ब्रह्मा के
(भवानि) कहनेपर उस आसन पर ब्रह्मा को उत्तराभिमुख बैठाकर प्रणीतापात्र
को सामने रख के जल से भर के कुशों से आच्छादन कर ब्रह्मा का मुख अथ-
लोकन करके अग्नि से उत्तर कुशों पर प्रणीतापात्र को प्राग्ग्र रखते । तदनन्तर
चार मुट्टी कुछ लेकर अग्नि के सब ओर परिस्तरण करे—एक चौथाई कुश अ-
ग्निकोण से ईशानदिशा तक, द्वितीय भाग ब्रह्मा के आसन से अग्निपर्यन्त,

प्रणीतापर्यन्तं ततोऽग्नेरुत्तरतः पश्चिमदिशि पवित्रच्छेदनार्थं कुशत्रयम्, पवित्रकरणार्थं साग्रमनन्तर्गर्भितकुशपत्रद्वयं प्रोक्षणीपात्रं आज्यस्थाली चरुस्थाली सम्मार्जनकुशा उपयमनकुशाः प्रादेशमितपलाशसमिधस्तिस्रः स्रुत्र आज्यं पूर्णपात्रं चर्वथास्तण्डुला एतानि पवित्रच्छेदनकुशानां पूर्वपूर्वदिशिक्रमेणासादनीयानि । ततः पवित्रच्छेदनकुशैर्यजमानप्रादेशमितपवित्रच्छेदनं सपवित्रकरेण प्रणीतोदकं त्रिः प्रोक्षणीपात्रे निधाय द्वाभ्यामनामिकाद्गुष्ठाभ्यामुत्तराग्रे पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुत्पवनं ततः प्रोक्षणीपात्रं सव्यहस्तेन गृहीत्वा दक्षिणानामिकाद्गुष्ठाभ्यां पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुदिङ्गनं ततः प्रणीतोदकेन प्रोक्षणीपात्रमभ्युक्ष्य प्रोक्षणीजलेनासादितवस्तुसेचनं कृत्वाऽग्निप्रणीतयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रं निदध्यात् । ततः आज्यस्थाल्यामाज्यं निरूप्य प्रणीतोदकेन तण्डुलान्प्रक्षो-

तृतीयभाग नैऋतकोण से वायुकोण पर्यन्त चौथा अग्नि से प्रणीता पर्यन्त दि-
 क्तावे । तदनन्तर अग्निसे उत्तर में प्राक्संस्थ पात्रासादन करे । पवित्र छेदनार्थे
 तीन कुश तथा पवित्रकरणार्थे अग्रभाग सहित जिनके भीतर अन्य कुश न हो ऐसे
 दो कुश, प्रोक्षणीपात्र, आज्यस्थाली, सम्मार्जनकुश, उपयमनकुश, टाक की तीन
 समिधा, स्रुत्र, आज्य, चावलोंसे भरा एक पूर्णपात्र, पवित्र छेदन कुशों से पूर्व
 पूर्व क्रम से उत्तर को अग्रभाग कर २ इंच सव्य का स्थापन करे । पवित्रछेद-
 नार्थे तीन कुशों से प्रादेशमात्र दो कुशों का छेदन करके पवित्र सहित दहि-
 ने हाथ से प्रणीता के जल को तीन वार प्रोक्षणीपात्र में डाल कर अनामिका
 और अङ्गुष्ठ से पकड़े हुये पवित्रों से तप्त प्रोक्षणीस्थ जलका उत्पवन करे और
 प्रणीता के जल से प्रोक्षणीस्थ जल का पवित्रों द्वारा तीन वार अग्निसेचन कर
 के प्रोक्षणीपात्र के जल से आसादन किये आज्यस्थाली आदिका सेचन करके
 अग्नि और प्रणीतापात्र के बीच में प्रोक्षणीपात्र को रख देवे । तब आज्यस्थाली
 में घृतपात्र से घृत गिरावे घृत को अग्नि पर धके लूखे कुश जलाकर घी

एव चरुपात्रे प्रणीतोदकं दत्त्वा तत्र तण्डुलान् प्रक्षिप्य स्वयं चरुं गृहीत्वा ब्रह्मणाचाज्यं ग्राहयित्वावन्हावुत्तरतश्चरुं दक्षिणात् आज्यं निदध्यात् । ततः सिद्धे चरौ तृणादि प्रज्वाल्य उभयोरुपरि प्रदक्षिणं भ्रामयित्वा वह्नौ तत्प्रक्षेपः । ततस्त्रिः सुवप्रतपनं सम्मार्जनकुशानामग्रैरन्तरतो मूलैर्वाह्यतः सुवंसंमज्ज्य प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य पुनस्त्रिः प्रतप्य दक्षिणातो निदध्यात् । ततः आज्यमग्नितश्चरोः पूर्वैशानीयाग्रे घृत्वा आज्यपश्चिमेन चरुमानीयाज्यस्योत्तरतो निदध्यात् । ततः आज्यस्य प्रोक्षणीवत्त्रिरुत्पवनम् । अवेक्ष्य सत्यपद्रव्ये तन्निरसनं ततः प्रोक्षय्युत्पवनम् । तत उत्थाय उपयमनकुशान्वामहस्ते कृत्वा प्रजापतिं मनसा ध्यात्वा तूष्णीमग्नौ घृताक्ताः समिधस्तिस्रः प्रक्षिपेत् । तत उपविश्य सपवि-

के ऊपर प्रदक्षिण भ्रमण कराके अग्नि में जलते कुश फेंक कर सुवा को तीन बार अग्नि में तपा के सम्मार्जन कुशों के अग्रभाग से भीतर को और कुशों के मूलभाग से बाहर की ओर सुवा को फाड़ पीछे शूद्रकर तथा प्रणीता के जल से सेचन करके और फिर तीन बार तपा के अग्नि से दक्षिण की ओर सुवा को धरदेवे । तत्पश्चात् तपते हुए घी को अग्निसे उत्तर के उत्तरमें धरे । तब तीन बार प्रोक्षणी के तुल्य पवित्रोंसे घी का उत्पवन करके देखे यदि घृतमें कुछ निरुद्ध वस्तु ही तो निकाल कर फेंक देवे और फिर तीन बार प्रोक्षणीपात्र का उत्पवन करे । तदनन्तर उठ कर उपयमनकुशों को वाम हाथ में लेके प्रजापति का मन से ध्यान करके घृत में डुबोई तीन समिधाओं को तूष्णीं विना मन्त्र पढ़े एक २ कर अग्नि में चढावे । फिर बैठ कर पवित्र सहित प्रोक्षणी के जल को प्रदक्षिणाक्रम से ईशानकोण से लेकर उत्तर दिशा तक अग्नि के सब ओर सेचन करे अर्थात् प्रोक्षणीपात्र का सब जल पर्युत्पण में गिरा देवे । प्रणीतापात्र में दोनो पवित्र रखके प्रोक्षणीपात्र का विसर्जन करे । तदनन्तर दहिने घोट को

त्रप्रोक्षयदुदकेन प्रदक्षिणक्रमेणाग्निं पर्युक्ष्य प्रणीतापात्रे
पवित्रे निंधाय ब्रह्मणान्वारवधः पातितदक्षिणजानुः समि-
द्धतमेऽग्नौ जुहुयात् । तत्र प्रथमाहुतिचतुष्टये तत्तदाहुत्य-
नन्तरं सुवावस्थितहुतशेषस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः ।

ओ३म्—प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये नमसा

इति मनसा

ओ३म्—इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय ० । इत्याधारी

ओ३म्—अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये नमस ।

ओ३म्—सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय नमस ।

इत्याज्यभागौ ततोऽनन्वारवधेन साधारणासाधारणा-
हुतिद्वयं कार्यम् । तत्र प्रथमाहुतिमन्त्रः—

ओम्—देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां वि-
श्वरूपाः पशवो वदन्ति । सा नो मन्द्रेषमूर्जं
दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु स्वाहा ॥
इदं वाचे नमस । द्वितीयाहुतिस्तु ॥

ओम्—देवीं वाचमित्यादिमन्त्रं पठित्वा
ओम्—वाजी नो अद्य प्रसुवाति दानं वाजी

देवां ऋतुभिः कल्पयाति ॥ वाजो हि मा
सर्ववीरं जजान विश्वा आशा वाजपतिर्जये-
यथंस्वाहा ॥ इदं वाचे वाजाय नमस ।

इति मन्त्राभ्याम् ॥ ततः स्थालीपाकेनाहुतिचतुष्टयम् ।

ओम्-प्राणेनान्नसशीय स्वाहा ॥ इदं प्रा-
णाय नमस । ओम्-अपानेन गन्धसशीय
स्वाहा ॥ इदमपानाय नमस । ओम्-चक्षुषा
रूपाण्यशीय स्वाहा ॥ इदं चक्षुषे नमस ।
ओम्-श्रोत्रेण यशोऽशीय स्वाहा ॥ इदं श्रो-
त्राय नमस ।

ततो ब्रह्मणान्यारुधकतृकी होमः-तत्र तत्तदाहुत्यन-
न्तरं सुशायस्वितहुतशोषद्रव्यस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः ।
तत्रैवाज्यस्थालीपाकाभ्यां स्विष्टकृतम् ।

ओम्-अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इद-
मग्नये स्विष्टकृते नमस । तत आज्येन ।

ओम्-भूः स्वाहा ॥ इदमग्नये नमस ।

साधार की दो और जायवभाग की दो आहुति देकर (दोनों भाग) इत्यादि
साधारण समाधारण दो आहुति मात्रा के जायवभाग विधे बिना देकर स्थालीपाक
में (मालेनाः) इत्यादि मर्गों द्वारा चार आहुति देये । मदनमत्त मात्रा के
जायवभाग करने पर होम करे तथा सुभा का भोग भी प्रोक्षणीपात्र में छोड़ता

ओं-भुवः स्वाहा ॥ इदं वायवे नमस । ओं
स्वः स्वाहा ॥ इदं सूर्याय नमस ।

एता महाव्याहृतयः ॥

ओं- त्वन्नो अग्ने वरुणास्य विद्वान् दे-
वस्य हेडोऽन्नवयासिसीष्ठाः । यजिष्ठो व-
ह्नितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषाथंसि प्रसुमु-
ग्ध्यस्मत्स्वाहा ॥ १ ॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां
नमस । ओम्-स त्वन्नो अग्नेऽवसो भवोती
नेदिष्ठो अस्यो उषसो व्युष्टी । अवयध्व
नो वरुणं रराणो वीहि मूडोकथं रुहवो
नएधि स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां नमस ।
ओं-अयाप्रचाग्नेऽस्यनभिश्चिन्तिपाश्च सत्य-
मित्त्वमया असि । अया नो यज्ञं वह्नास्यया
नो धेहि भेषजं स्वाहा ॥ ३ ॥ इदमग्नये
नमस । ओं-ये ते शतं वरुण ये सहस्रं य-
ज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । तेभिर्नो अद्य
सवितोत विष्णुर्विश्वे सुञ्चन्तु नरुतः स्वर्काः
स्वाहा ॥४॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे वि-

जवि । ओर पृथ ओर चरु (भात) दोनो से एक स्विष्टकृत् आहुति देवर केवल
पी से महाव्याहृतियों की तीन आहुति सर्वभूमिदत्त की पाच आहुति तथा

श्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च नमसः ।
 ओम्—उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदबाधमं वि-
 मध्यमथं अथाय । अथावयमादित्य ! वृते
 तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥५॥ इदं
 वरणाय नमसः । इति सर्वप्रायश्चित्तम् ।
 ओम्—प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये न
 मसः । इति मनसा प्राजापत्यम् ।

प्रथमं संस्कारप्राशनम् । तत आचम्य—ओमद्यकृतैतद-
 न्नप्राशनहोमकर्मणि कृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थं
 मिदं पूर्णपात्रं प्रजापतिदेवतममुकगोत्रायामुकशर्मणो ब्रह्मणो
 ब्राह्मणाय दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे—इति दक्षिणां दद्यात् ।
 ओं स्वस्तीति प्रतिवचनम् । ततः प्रणीताविमोकः—

ओं सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु ।
 इति पठित्वा पवित्राभ्यां प्रणीताजलमानीय तेन शिरः संमृज्य—
 ओं दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेषि-
 यं च वयं द्विषमः ॥

एक प्राजापत्य आहुति त्यागो सहित इत आहुतियो को देके संस्कारप्राशन कर-
 हाय धी आचमन कर के ब्रह्मा को दक्षिणा देवे उस में (ओमद्यैतस्मिन्) इ-
 त्यादि संकल्प करे । और ब्रह्मा स्वस्ति कह कर दक्षिणा लेवे । तदनन्तर पवित्रों
 द्वारा प्रणीता का जल लेकर (ओं सुमिदि) मन्त्र पढ़ के अपने शिर पर जल
 सेचन करके (ओ दुर्मित्रिया) मन्त्र से प्रणीता के शेष जल को ईशानदिशा में

कुशकण्डिकामारभेत । तत्र क्रमः—कुशैर्हरतमितां भूमिं परि-
समुह्य तानैशान्या परित्यज्य गोमयोदकेनोपलिप्य सुवमू-
लेन प्रादेशमात्रं त्रिरुल्लिख्य उल्लेखनक्रमेणानामिकाङ्-
गुष्ठाभ्यामृदमुद्धृत्य वारिणा तं देशमभ्युक्ष्य कारयपात्रेणा-
ग्निमानीय प्रत्यहमुखमग्नेरुपसमाधानं कुर्यात् । ततोऽग्नेः
पश्चिमतो यजमानाद् दक्षिणदिशि रनापितमहतवासः परि-
धाप्य कुमारमङ्के निधाय माता उपविशति । ततः पुष्पच-
न्दनताम्बूलवासारवादाथ—

ओम्—अद्यैतस्मिन् कर्तव्यं चडाकर्महोमक-
र्मणि कृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्म कर्तुममु-
कगोत्रसमुकशर्माणां ब्राह्मणमेभिः पुष्पच-
न्दनताम्बूलवासोभिर्ब्रह्मत्वेन त्वामह वृणो ।

इति ब्रह्माणं वृणुयात् ।

ओम्—वृतोऽस्म ति प्रतिदचनम् । ओम्
यथाविहितं कर्म कुर्विति यजमानेनीक्ते । ओ-
म्—करवाणि ।

शुद्ध भूमि में मरुदण्य बनाके त्रिधिपूर्वक होम करे । प्रथम वेदि में पंचभूषणकार
करे—तीत कुशो से वेदिभूमि को साहचर कुशो को ईशानकीर्ण में फेंककर गोबर
और जल में लीप कर सुखा व मूल वा रूप्य से उत्तर २ वेदि में प्राणायत
तीन रेखा करे । अनामिका और अंगुष्ठ से रेखाओं में से मट्टी को टटा कर फेंक
के वेदि में जलसेचन करे । कामे के वा मट्टी के पास में अग्नि लाकर पदिमा-
भिमुख स्थापन करे । तत्पश्चात्—पुष्प चन्दन ताम्बूल और बस्त्रों को लेकर (ओ-
मद्यः) इत्यादि वाक्य पठ के यजमान ब्रह्मा वा करण करे और पुरपादि ब्र-
ह्मा के हाथ में देवे। ब्रह्मा पुष्पादि को लेकर (ओम्ब्रह्मोऽस्मि) कहे । तथ (य

इतिप्रतिवचनम् । ततो यजमानोऽग्नेर्दक्षिणतः शुद्धमासनं द-
त्वात्तदुपरि प्राग्ग्रान्कुशानास्तोर्याग्निं प्रदक्षिणं कारयित्वाऽ-
स्मिन्कर्मणि त्वं मे ब्रह्मा भवेत्यभिधाय । ओम्—भवानीति ते-
नोक्ते ब्रह्माणमुदहसुखं तत्रोपवेश्य—प्रणीतापात्रं पुरतः कृत्वा
वारिणा परिपूर्य कुशैराच्छाद्य ब्रह्मणो मुखमवलीक्याग्नेरुत्त-
रतः कुशोपरि निदध्यात् । ततः परिस्तरणं वह्निपञ्चतुर्थभा-
गमादाय—आग्नेयादीशानान्तं ब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तं नेत्र्मृत्या-
द्वयव्यान्तमग्नितः प्रणीतापर्यन्तम् । ततोऽग्नेरुत्तरतः पश्चि-
मदिशि पवित्रच्छेदनार्थं कुशत्रयम् । पवित्रकरणार्थं साग्र-
मनन्तर्गर्भितकुशपत्रद्वयम् । प्रीक्षणीपात्रं, घ्राज्यस्थाली सं-
मार्जनकुशाः, समिधस्तिखः, सुव, घ्राज्यं, तदुल्लूकपात्रं,
पवित्रच्छेदनकुशानां पूर्वपूर्वदिशिक्रमेणासादनीयम् । अग्नी-

पावि०) यजमान वहे शोर ब्रह्मा (करवाणि०) कहे । तब अग्नि से दक्षिण में
एह आसन घोक्री आदि बिद्याकर उस पर पूर्व की जिनका अग्रभाग हो ऐसे कुश
बिद्याकर ब्रह्मा को अग्नि की प्रदक्षिणा कराके (अस्मिन् कर्मणि त्वं मे ब्रह्मा भव)
इस कर्म में तुम मेरे ब्रह्मा हो ऐमा कहकर ब्रह्मा के (भवानी) कहनेपर उस
आसन पर ब्रह्मा को उत्तराभिमुख बैठाकर प्रणीतापात्र को सामने रख के जल
से भर के कुशों से आच्छादन कर ब्रह्मा का मुख अथलोकन करके अग्नि से उत्तर में
कुशों पर प्रणीतापात्र को प्राग्ग्र रखे । तदनन्तर चार मुट्टी कुश लेकर अग्नि
के सब शोर परिस्तरण करे—एक शीघाई कुश अग्निकोण से ईशानदिशा तब,
द्वितीय भाग ब्रह्मा के आसन से अग्निपर्यन्त, तृतीयभाग नेत्र्मृतकोण से घामु-
कोण पर्यन्त चौथा अग्नि से प्रणीता पर्यन्त बिछावे । तदनन्तर अग्नि से उत्तर
में प्रापसंस्थ पात्रामादन करे । पवित्र छेदनार्थं तीन कुश तथा पवित्रकरणार्थं
अग्रभाग सहित जिन के भीतर अन्य कुश न हो ऐसे दो कुश, प्रीक्षणीपात्र,
'घ्राज्यस्थाली, संमार्जनकुश, उपयमनकुश, टाक को तीन समिधा, सुव, घ्राज्य,
चावलीसे भरा एक पूर्णपात्र, पवित्र छेदन कुशों से पृथं पूर्व क्रम से उत्तर की

पामुत्तरोत्तरतः साधारणवस्तून्युपकल्पनीयानि तत्र शीतोद-
कमुष्णोदकं घृतदधिनवनीतान्यतमस्य पिण्डः, त्रिःश्वेतश-
ल्लकीकण्टकं साग्रसप्तविंशतिकुशपत्राणि, लोहक्षुरः, नापि-
तः, वृषभगोमघपिण्डः । ततः पवित्रच्छेदनकुशैः पवित्रे छि-
त्त्वा सपवित्रकरेण प्रणीतोदकं त्रिः प्रोक्षणीपात्रे निषिच्य द्वा-
भ्यामनामिकाङ्गुष्ठाभ्यामुत्तराग्रे पवित्रे गृहीत्वा त्रिरूपवनं
ततः प्रोक्षणीपात्रं वामहस्ते कृत्वाऽनामिकाङ्गुष्ठगृहीतप-
वित्राभ्यां प्रोक्षणीजलं त्रिरुत्क्षिप्य प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी-
पात्रमभ्युक्ष्य प्रोक्षणीजलेनासादितवस्तून्यभिषिच्यग्निप्र-
णीतयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रं निदध्यात् । आज्यस्थाल्यामाज्यं
कृत्वाऽधिश्चित्य ज्वलत्तृणादिकमादायाज्यस्योपरि प्रदक्षिणं
भ्रामयित्वा बह्वी तत्क्षिपेत् । ततस्त्रिः सुवप्रतपनं संमार्ज-
नकुशानामग्रैरन्तरती मूलैर्याहृतः सुवं संमृज्ज्व प्रणीतो-

अथभाग कर २ इन सब का स्थापन करे । उक्त वस्तुओं से उत्तर २ की ओर
साधारण वस्तु रखे—शीतजल, गर्मजल, घी दही या रुक्तान इन में से कोई एक,
तीन जगह में प्रदेत सेही का एक काटा, अथभाग सहित सप्ताईश कुश, लोह
का छुरा, नाई, घैल का गोथर इन सब को स्थापित करके पवित्रच्छेदनार्थ तीन
कुशों से प्रादेशपात्र दो कुशों का छेदन करके पवित्र सहित दहिने हाथ से प्र-
णीता के जल को तीन बार प्रोक्षणीपात्र में डाल कर अनामिका और अङ्गुष्ठ से
चकड़े हुये पवित्रों से उस प्रोक्षणीस्थ जल का उपवन करे और प्रणीता के जल
से प्रोक्षणीस्थ जल का पवित्रों द्वारा तीन बार अभिषेचन करके प्रोक्षणीपात्र के
जल से आसादन किये आज्यस्थाली आदि का प्रोक्षण करके अग्नि और प्रणी-
तापान के बीच में प्रोक्षणीपात्र को रख देवे । तब आज्यस्थाली में घृतपात्र से
घृत गिराछे घृत को अग्नि पर धरके सुखे कुश जलाकर घी के ऊपर प्रदक्षिण
धमक करके अग्नि में जलते कुश फेंक कर रुखा की तीन बार अग्नि में त-
पा के समार्जन कुशों के अथभाग से भीतर की ओर कुशों के मूलभाग से बाह-

दकेनाभ्युक्ष्य पूर्ववत्त्रिः प्रताप्य दक्षिणतो निदध्यात् । ततः—
 प्रदक्षिणक्रमेणाग्नित् आज्यमवतार्याग्रतो निदध्यात् । ततः
 प्रोक्षणीवत्त्रिराज्यमुत्पूयावेक्ष्य सत्यपद्रव्ये तन्निरसनं पूर्व-
 वत्प्रोक्षणयुत्पवनं ततउत्थाय उपयमनकुशानादाय वामह-
 स्ते कृत्वा प्रजापतिं मनसा ध्यात्वा तूष्णीमग्नी घृताक्ताः
 समिधरित्स्रः प्रक्षिपेत् । तत् उपविश्य सर्पावन्नप्रोक्षणयुद-
 केन प्रदक्षिणक्रमेणाग्निं पर्युक्ष्य प्रणीतापात्रे पवित्रे कृत्वा
 ब्रह्मणान्वारव्यः पातितदक्षिणजानुः समिद्धतमेजनौ जुहुया-
 त् । तत्र प्रत्याहुत्यन्तरं स्तुवावस्थितहतशेषघृतस्य प्रोक्ष-
 णीपात्रे प्रक्षेपः । ततो वक्ष्यमाण क्रमेणाधाराज्यभागमहा-
 व्याहृति सर्वप्रायश्चित्तहीमान् कुर्यात् ।

र की ओर स्तुवा को ज्वाल पोछ शुद्धकर तथा प्रणीता के जल से सेचन करके
 और फिर तीन बार तथा के अग्नि से दक्षिण की ओर स्तुवा को धर देवे ।
 तत्पश्चात् तपते हुए घी की अग्नि से उत्तर के उत्तर में धरे । तब तीन बार
 प्रोक्षणी के तुल्य पद्वित्रों से घी का उपपवन करके देवे यदि घृतमें कुछ निष्कृष्ट
 वस्तु हो तो निकाल कर फेंक देवे और फिर तीन बार प्रोक्षणीपात्र का उपप-
 वन करे । तदनन्तर उठ कर उपयमनकुशों को वाम हाथ में लेके प्रजापति का
 मन से ध्यान करके घृत में हुबोई तीन समिधाओं को तूष्णीं बिना मन्त्र पढ़े
 एक २ कर अग्नि में चढावे । फिर बैठ कर पवित्र सदित प्रोक्षणी के जल को
 प्रदक्षिणक्रम से ईशानकीर्ण से लेकर उत्तर दिशा तक अग्नि के मध्य ओर सेचन
 करे अर्थात् प्रोक्षणीपात्र का मध्य जल पर्युक्षण में गिरा देवे । प्रणीतापान में
 दोनों पवित्र रखके प्रोक्षणी पात्र का विभर्जन करे । तदनन्तर दहिने घोंटू को
 भूमि में टेक कर ब्रह्म से अन्वारव्य हुआ यजमान प्रज्वलित अग्नि में स्तुवा
 से आश्याहुतियों का हीम करे । वहा २ उच २ आहुति देने पश्चात् स्तुवा में
 जो घृतविन्दु बचे उन को प्रोक्षणीपात्र में डालता जावे । प्रजापति का ध्यान

ओं-प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये
नमस ॥१॥ इति मनसा ।

ओं-इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय नमस ।

ओं-अग्नये स्वाहा । इदमग्नये नमस ।

ओं-सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय नमस ।

ओं-भूः स्वाहा । इदमग्नये नमस ॥५॥

ओं-भुवः स्वाहा । इदं वायवे नमस ॥६॥

ओं-स्वः स्वाहा । इदं सूर्याय नमस ॥७॥

ओं-त्वं नो अग्ने वरुणस्य त्रिद्वान्देवस्य
हेडोऽअवयासिसीष्ठाः । यजिष्ठो वह्नितमः
शोशुचानो विश्वा द्वेषाथंसि प्रमुमुग्ध्यस्म-
त्स्वाहा । इदमग्नीवरुणाभ्यां नमस ॥८॥ ओं-
स त्वन्नो अग्नेऽवसो भवोती नेदिष्ठो अस्या
उषसो व्युष्टौ । अवयक्ष्व नो वरुणाथंरराणो
वीहि मृडीकथं सुहवो न एधि स्वाहा ।
इदमग्नीवरुणाभ्यां नमस ॥९॥ ओं-अया-
प्रचाग्नेऽस्यनभिश्चितपाप्रच सत्यमित्त्वमया-

कर पूर्वाधार की सुर्धो आहुति देवे । त्याग सब यजमान स्वयं बोलता जाय ।
आधार की दो भाग्यभाग की दो ओर महाव्याहृतिपौ की तीन सर्वप्राय-

असि । अथा नो यज्ञं वह्नास्यया नो धेहि
 भेषजं स्वाहा । इदमग्नये नमम ॥१०॥ ओं
 ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वि-
 तता महान्तः । तेभिर्नो अद्य सवितोत वि-
 ष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा । इदं
 वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो
 मरुद्भ्यः स्वर्कभ्यश्च नमम ॥११॥ ओं—उदु-
 त्तमं वरुण पाशमस्मदबाधमं विमध्यमं अ-
 थाय । अथावयमादित्य व्रते तवानागसो
 अदितये स्याम स्वाहा । इदं वरुणाय नमम ।

ओं—प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये
 नमम ॥१३॥ इति मनसा प्राजापत्यम् ।

ओं—अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदम-
 ग्नये स्विष्टकृते नमम ॥१४॥ इति स्विष्टकृत् ।

अथ संस्रवप्राशनम् । तत आचम्य—

ओं—अद्यामुष्य कुमारस्य कृतैतच्चूडाक-
 रणहोमकर्मणि कृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्म-

यज्ञ की पांच तथा प्राजापत्य और स्विष्टकृत् दो सब चौदह आहुति त्यागों
 सहित देके संस्रवप्राशन कर हाथ धो आचमन करके ब्रह्मा को दक्षिणा देवे

प्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं प्रजापतिदेवतममुक-
गोत्रायांऽसुं कश्मणे ब्राह्मणाय ब्रह्मणे दक्षिणां
तुभ्यमहं संप्रददे । इति ब्रह्मणे दक्षिणां दद्यात् ।

ॐ—स्वस्तीति प्रतिवचनम् । ततः—

ॐ—सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु ॥

इति पवित्राभ्यां प्रणीताजलमानीय तेन शिरः संमृज्य-

ॐ—दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वे-
ष्टि यं च वयं द्विष्टमः ॥

इत्यैशान्यां प्रणीतान्युदजीकरणं ततःस्तरणक्रमेण च-
र्हिंरुत्थाप्याज्येनाभिघार्थ-

ॐ—देवा गातुविदो गातुं वित्वा गा-
तुमित । सत्सस्पतइमं देवयज्ञं स्वाहा वाते-
धाः स्वाहा ॥ इदं वाताय नमस ॥

इति मन्त्रेण चर्हिंर्हामः । अथ शीतोदकमुष्णोदकेन-

ॐ—उष्णेन वाय उदकेनेह्यदिते केशान्वप ।

उस में (जामशेनस्मिन्) इत्यादि संकल्प करे । और ब्रह्मा ओ स्वस्ति कह कर
दक्षिणा लेवे । तदनन्तर पवित्रो द्वारा प्रणीता का जल लेकर (ओ सुमित्रि)
मन्त्र पढ़ के अपने शिर पर जलसेषण करके (ओ दुर्मित्रिया) मन्त्र से प्रणीता
के शेष जलको स्थान दिशा में लौट देवे और पवित्रो को बिछाये हुए कुशो में
सिना देवे तब जिस क्रम से कुश बिछाये थे उसी क्रम से पवित्रो सहित उठा
कर कुशो में घी लगा के हाथ से ही कुशो का हीम (ओ देवागातुषि) मन्त्र
पढ़ के त्याग के साथ कर देवे । सब शीतल जल को गर्म जल के साथ (उ-

इति मन्त्रेणाभिषिच्य तक्रमिश्रितोदके नवनीताद्यन्य-
तमपिण्डं तूप्यां प्रक्षिप्य दक्षिणपश्चिमोत्तरक्रमेण पूर्वनि-
शावदुकुमारकेशजूटिकात्रये दक्षिणजूटिकाम्-

ओम्-सवित्रा प्रसूता देव्या आपउन्द-
न्तु ते तनुं दीर्घायुत्वाय वर्चसे ॥

इति मन्त्रं पठित्वा तेनैव मिश्रितवारिणा प्रक्षाल्य
ततो दक्षिणभागस्थितजूटिकाभागत्रयं कुर्यात् । तत्र-एका-
मेकां जूटिकां प्रति कुशपत्रत्रयसंयोजनं कुर्यात् । शल्लकी
कण्टकेन तूप्यां लिखरणां कृत्वा भागत्रयं कुर्यात् । ततः स-
प्तविंशतिकुशपत्रतः पत्रत्रयमानीय तत्केशमूलसंलग्नाग्र-
जूटिकाप्रथमभागमध्यान्तरितं कुर्यात् ।

ओम्-ओषधेःत्रायस्व स्वधिते नैन थंहि
थंसीः । शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता न-
मस्ते अस्तु सा माहिथं सीः ॥

छेन घाप०) मन्त्रसे मिलाके थोड़ा मट्टा भी जल में मिलादे उस मट्टा मिने
जल में नवनीत—नैनू—मकड़न का या दही का थोड़ा अंश डाले तब पूर्वा-
भिमुख बैठे बालक के शिर के दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर में तीनों ओर पहिले से
थालों के तीन जूड़ा बांध रखे हों उनमें से दहिने जूड़ा को (ओं सवित्रा०)
मन्त्र पढ़ के उस घृतादि मिलाये जल से भिगोवे । तदनन्तर दहिने भाग के
जूड़ा बाधे केशो के तीन भाग करे उन एक एक भाग में तीन २ कुश लगावे ।
अर्थात् तीन स्थानों में श्वेत सेही के काटे से प्रथम थालो को अलग २ करके
तीन भाग करे तदनन्तर सप्ताईश कुशों में से तीन कुश लेबर उन कुशों के
अग्रभाग को दहिने केशों के तीन भागों में से पहिले भाग के मूलमें (ओषधे०)
मन्त्र पढ़ के लगावे । तदनन्तर (शिवो नामासि०) मन्त्र पढ़के लोह का डुरा

इति मन्त्रेण लोहक्षुरं गृहीत्वा-

ॐम्-निवर्तयाम्यायुषेऽन्नाद्याय प्रज-
ननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ।

इति मन्त्रेण जूटिकासंलग्नं कुर्यात् । ततः कुशपत्र-
त्रयसहितां जूटिकां छिनत्ति-

ॐम्-येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य रा-
ज्ञो वरुणस्य विद्वान् । तेन ब्रह्माणो वपत्तं-
दमस्यायुष्यं जरदष्टिर्यथासत् ॥

इति मन्त्रेण पश्चिमजूटिकाच्छेदनं कुर्यात् । ततस्तांल्लन-
कुशपत्रत्रयसहितान् अनुदुद्धीमयपिण्डोपरि उत्तरस्यां दिशि
निदध्यात् । अत्रैव पूर्वप्रक्षालितपरभागद्वये कुशपत्रत्रित-
यान्तर्निधानादिच्छेदनवर्जं सर्वं पर्यवदेव कृत्वा छेदनं तूष्णीं
ततः पश्चिमजूटिकायां पूर्ववत्तेनैव मन्त्रेण प्रक्षालनं तूष्णीं
शल्लकीकरटकैः भागत्रयकरणं केशमूलसंलग्नकेशान्तरि-
तमध्यकुशपत्रत्रयं प्रारणक्षुरग्रहणतत्संयोजनानि तत्तन्मन्त्रे-
णैव कुर्यात् । तत्र प्रथमजूटिकाच्छेदने मन्त्रः-

हाथमें लेकर (निवर्तया०) मन्त्र से बालोंमें छुरा लगाके (येनावपरमविता०)
मन्त्र पढ़के दहिने केशोंके तीन भागोंमें से पश्चिम भाग को कुशो सहित काटे ।
उन तीन कुशों सहित काटे केशों को बेल के गोबर पर उत्तर की ओर रखे
तब पहिले भिगोये दहिने दो भागों में तीन २ कुय रखना आदि केशच्छेदन
छोड़ कर पूर्व के तुष्य सब कामकरे और केशोंका छेदन बिना मन्त्र पढ़े तूष्णीं
करे । तदनन्तर शिर के पश्चिम भाग के जूटिका में पूर्ववत् सभी मन्त्र से बालों का
भिगोना तथा बिना मन्त्र पढ़े सेही के काटे से केशों के तीन भाग करना केशों
के मूल में लगे बालों से ठपे तीन कुशों को रखना छुरा का हाथ में लेना और
बालों में लगाना उन २ उक्त मन्त्रों से करे । उस में पश्चिम की प्रथम जूटिका

ओम्—त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायु-
षम् । यद्वेवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम् ॥

इति मन्त्रेण च्छित्त्वा पूर्ववद्धोमयपिण्डोपरि निद-
ध्यात् । तत्रावशिष्टभागद्वये कुशपत्रत्रयं केशान्तर्निधा ना-
दिच्छेदनवर्जं सर्वं पूर्ववदेवच्छेदनं तूष्णीमेव कुशपत्रत्रयस-
हिततूनकेशानां गोमयपिण्डोपरि धारणं च तत उत्तरभाग
जूटिकायां प्रक्षालनादिक्षुरसंयोजनान्तेषु पूर्ववत्तन्मन्त्रप्र
योगः प्रथमभागजूटिकायां छेदने मन्त्रः—

ओं—येन भूरिप्रचरा दिवं ज्योक्च पश्चा-
द्धि सूर्यम् । तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे
जीवनाय सुप्रलोक्याय स्वस्तये ॥

ततः केशान् गोमयपिण्डोपरि निदध्यात् । ततोऽव-
शिष्टभागद्वये कुशपत्रत्रये केशान्तर्निधानादिच्छेदनवर्जं
सर्वं पूर्ववच्छेदनं तूष्णीं गोमयपिण्डोपरि धारणमपि ततः

के काटने का मात्र (त्र्यायुषं) है । छेदन करके पहिले के तुल्य केशों को घैल
के गोवर पर रखते । और पश्चिम के शेष दो भागों में तीन २ कुशों को केशों
के भीतर रखना आदि केशछेदन को छोड़ के सब काम पूर्ववत् ही करे । और
तूष्णी केशों का छेदन करके कुश सहित केशों को गोवर पर धरे । तदनन्तर
गिर के उत्तरभाग के जूड़ा में भिगोना आदि केशों में छुरा लगाने पर्यन्त पूर्व-
वत् उस २ मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये । उत्तर के तीन भागों में से प्रथम
भाग के केश (येनभूरि) मात्र से काटे । तब उन कुछ सहित केशों को भी गोवर
पर धरे । तदनन्तर शेष रहे उत्तर के दो भागों में तीन २ कुशों को केशों के

शयेमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाथं
सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥

इति मन्त्रेण दक्षिणकर्णमभिमन्त्र्य-

ओं वक्ष्यन्ती वेदागनीगन्ति कर्णं प्रियथं
सखायं परिषस्वजाना । योषेव शिङ्क्ते वित-
ताधिधन्वज्जयाइयथं समने पारयन्ती ॥

इति मन्त्रेण वामकर्णमभिमन्त्रयेत् । ततो मध्यं वीक्ष्य
नापितद्वारा वेधयेत् । तस्मिन् समये मधुरादिदानं समाचा-
रात् । ततो ब्राह्मणभोजनम् । इति कर्णवेधः ॥६॥

मन्त्रण करके (वक्ष्यन्ती०) मन्त्र से बायें कान का अभिमन्त्रण करे अर्थात् दहिने बायें कान की ओर देवता हुआ उस २ मन्त्र की पढ़े । तब कान का मध्यभाग देख कर नाई के द्वारा कान का वेधन [छेदन] करावे । तदनन्तर ब्राह्मणों की भोजन करावे वा शक्यनुसार सीधा देदेवे ॥ इति कर्णवेध समाप्त ॥

अथोपनयनसंस्कारप्रस्तावः ॥

आचार्यस्य धर्मज्ञ वेदवेदाङ्गाध्यापनपरस्य धार्मिकस्य
विदुषः समीपे येन विधिना येन लिङ्गेन कृत्येन च सह बालो
नीयते स उपनयनविधिः । तस्य च वर्णभेदेन कालभेद उच्यते—

गर्भाष्टमेऽष्टेकुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

गर्भादिकादशोराज्ञो गर्भात्तुद्वादशेविशः ॥

अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयेद्गर्भाष्टमे वा । एकादशवर्षं
राजन्यम् ॥ द्वादशवर्षं वैश्यम् ॥ इति पारस्करः ।

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यविप्रस्यपञ्चमे ।

राज्ञोचलार्थिनःपष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥

कार्पासमुपधीतस्याह विप्रस्योर्ध्ववृतांत्रिवृत् ।

शणसूत्रमयंराज्ञो वैश्यस्याधिकसौत्रिकम् ॥

भाषार्थः—उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार का प्रथम प्रस्ताव लिखते हैं ।
धर्म के साथ वेद वेदाङ्ग पठाने में तत्पर धर्मात्मा विद्वान् आचार्य के समीप
में जिस विधि, जिस घिहू को धारण या क्रिया को कराके बालक विधिपूर्वक
वेदाध्ययनार्थ लाया जाय उस विधि या कर्मका नाम उपनयन या यज्ञोपवीत
संस्कार है ब्राह्मणादि के वर्णभेद से उसमें कालभेद या वस्तुभेद दिसाते हैं । गर्भ
से वा जन्म से ब्राह्मण का आठवें वर्ष, गर्भ से वा जन्म से क्षत्रिय का ग्यारहवें
वर्ष और गर्भ से वा जन्म से वैश्य का बारहवें वर्ष उपनयन संस्कार करे । मनु
तथा पारस्करादि ऋषि के मत में विकल्प है । ब्रह्मवर्चसतेज चाहने वाले ब्राह्मण
का पाँचवें, मनु चाहने वाले क्षत्रिय का छठे और इसी शरीर में धनादि ऐश्वर्य
चाहने वाले वैश्य का आठवें वर्ष यज्ञोपवीत करे । कर्पासम्भय सूत्र का ब्राह्मण
के लिये, शणका क्षत्रिय को और भेड़ की जन का वैश्य को धारण करना चा-
हिये । वा यथासम्भव जो प्राप्त हो उसी को मनु धारण करें ।

तत्र यज्ञसूत्रनिर्माणधारणाविषये किञ्चल्लिख्यते ।

त्रिवृद्ध्ववृत्तंकार्यं तन्तुत्रयमधोवृत्तम् ।

त्रिवृत्तंचोपधीतस्या-त्तस्यैकोग्रन्थिरिष्यते ॥

वामावर्त्तं त्रिगुणं कृत्वा प्रदक्षिणावृत्तं नवगुणं तदेव
त्रिदोरकं कृत्वा ग्रन्थिमेकं विदध्यात् ॥

पृष्ठवंशेचनाभ्यांच धृतंयद्विन्दतेकटिम् ।

तद्वार्यमुपधीतस्या-न्नातिलम्बंनचोच्छ्रितम् ॥

वामरकन्धेधृतेनाभि-हृत्पृष्ठवंशयोर्धृतम् ।

यथाकटिपर्यन्तं प्राप्नोति तावत्परिमाणं कर्त्तव्यमित्यर्थः ।

कार्पासक्षौमगोवाल-शाणवल्कतृणादिनाम् ।

सदासम्भवतोधार्य-मुपधीतं द्विजातिभिः ॥

शुचौदेशेशुचिःसूत्रं संहताङ्गुलिमूलके ।

आविष्यपश्चात्पत्यात् त्रिगुणीकृत्ययत्नतः ॥

यज्ञोपधीत बनाने तथा पहार ने के विषय में कुछ लिखते हैं । तीन होरा इकट्ठे कर ऊपर की बाहें और की प्रथम ठेंठे पश्चात् उस की त्रिगुना कर नीचे की दहिना ठेंठ कर नौ तार का एक होरा बनाकर उस की त्रिगुना कर एक लगह गांठ लगावे ऐसी नौतार वाली तीन लडो का यज्ञोपधीत होना चाहिये । बायें कन्धे से पीछे पीठ के बीच से, आगे नाभिस्यन में धारण किया जो कटि भाग तक पहुंचे ऐसा यज्ञोपधीत पहारना चाहिये किन्तु इस में अधिक लम्बा वा ऊंचा न हो । कपरम, अतसी, गौडे बाल, शण, बबकन और तृणादि इन में से जिस देग काल में जिस का मिलना सम्भव हो उसी का यज्ञोपधीत ब्राह्म-
णादि लोग बनाकर पहनें । सब मिलें तो कपरम का ब्राह्मण शणका क्षत्रिय और ऊनका वैश्य पहने । शङ्ख स्थानमें स्वयं शङ्ख हुआ पुरुष सब अंगुलियों के मूलोंको मिलाकर छानवे द्वार मूलको लपेटकर त्रिगुना करके (आपीहिष्ठाऽ) इत्यादि तीन

अत्रलिङ्गकैस्त्रिभिःसम्यक् प्रह्लात्योर्ध्ववृत्तंचतत् !
 अत्रदक्षिणामावृत्तं सावित्र्यात्रिगुणीकृतम् ॥
 अधःप्रदक्षिणावृत्तं समरयान्नवसूत्रकम् ।
 त्रिरावेष्ट्यहृदंबद्ध्वा ब्रह्मविष्णुशिवान्नमेत् ॥
 यज्ञोपवीतंपरम—मितिमन्त्रेणधारयेत् ।
 सूत्रंसलोमकंचेत्स्या—ततःकृत्वाविलोमकम् ॥
 सावित्र्यादशकृत्वोऽद्वि—र्मन्त्रिताभिस्तदुक्षयेत् ।
 विच्छिन्नंवाप्यधोयातं भुक्त्वानिर्मितमुत्सृजेत् ॥
 स्तनादूर्ध्वमधोनाभे न्नयार्थतत्कथंचन ।
 ब्रह्मचारिण्येकस्या—त्स्नातस्यद्वेवहूनिवा ॥
 तृतीयमुत्तरीयार्थं वस्त्राभावेतदिष्यते ।
 ब्रह्मसूत्रेतुसव्येऽसे स्थितेयज्ञोपवीतित्ता ॥

मन्त्रो से उस त्रिगुण सूत का सम्यक् प्रह्लासन करवायी और से ऊपर की छँटे
 फिर नीतार करके सावित्रीमन्त्र से प्रदक्षिण छँटे । ऐसे नौ सूत के एक छोर
 को त्रिगुना कर गाठ लगाके उत्पत्ति स्थिति प्रलयकर्ता ईश्वर को नमस्कार करे
 तदनन्तर (यज्ञोपवीतं परमं०) मन्त्र से धारण करे । यज्ञोपवीत सूत्र में किसीके
 बाल लग गयेहो तो उन बालो को निकाल के गायत्री मन्त्र से जल को पट २
 दशबार उस का सेवन कर प्रवित्र करे । टूट गया हो वा नाभि से नीचेके भाग
 में आगया हो तो ऐसे यज्ञोपवीत को त्याग के नया बनाया विधिपूर्वक पहिने
 स्तनो से ऊपर कण्ठमात्र में वा नाभि से नीचे यज्ञोपवीत को कदापि धारण न
 करे । ब्रह्मचारी एक यज्ञोपवीत पहने स्नातक गृहस्थ दो वा तीन चार आदि
 यज्ञोपवीत पहने । यदि शरीर पर अंगोच्छा न हो तो अवश्य ही तीसरा यज्ञो-
 पवीत अंगोच्छा के स्थान में धारण करे । धाये कन्धे पर से पहने तो पुरुष
 सपवीतो वा यज्ञोपवीतो कहाता ऐसा पहनकर देव कर्म करे । पहिने कन्धे

प्राचीनावीतिताऽसव्ये कृण्वन्त्येतुनिवीतिता ।

यदि नियतेऽष्टमवर्षादिकाले बालस्य शक्तिः कर्मानुष्ठातुं न स्याद्यद्वा केनापि कारणेन पिता नियतकाले संस्कारं कर्तुं न शक्नुयात्तदा ।

आषोडशाद्ब्राह्मणस्य-सावित्रीनातिवर्त्तते ।

आद्वाविंशत्क्षत्रवन्धो-राचतुर्विंशतेर्विशः ॥

अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ।

सावित्रीपतितात्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥

त्रात्यसंस्कारश्चशास्त्रोक्तप्रायश्चित्तानुष्ठानपूर्वको यथा सम्भवति तथाऽग्र एतन्संस्कारान्ते वक्ष्यामः ।

मेरुलामजिनं दण्ड-मुपवीतं कमण्डलुम् ।

अप्सुप्रास्यविनष्टानि गृह्णीतान्यानिमन्त्रवत् ॥

अथशिष्टा चेतिकर्त्तव्यता संस्कारान्ते द्रष्टव्या ॥

इति प्रस्तावः ।

ये पहिने तो प्राचीनावीती अपसव्य कहाता ऐसा पहन कर पितृकर्म करे और कण्ठ में माला के समान पहरना निधीतो कहाता है ऐसा पहन के ऋषिकर्म करे । यदि आठवें आदि नियत वर्ष में बालक को कर्म करने की शक्ति न हो तो अथवा किसी कारण नियत समय पिता संस्कार न करसके तो १६ वर्ष तक ब्राह्मण का नर तक क्षत्रिय का और २४ वर्ष तक वैश्य का संस्कार हो सकता है । इन से आगे तीनों पतित हो जाते हैं उन का संस्कार शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त होकर जैसा ही सकता है वही आगे कहेंगे । मेरुला, मुगधर्म, दण्ड, यज्ञोपवीत और कमण्डलु ये नष्ट हो जाय तो ब्रह्मचारी इन को जल में डाल के मात्र पूर्वक नये धाराकरे । इस विषय का शेष विचार संस्कार के अन्त में देखो । आरम्भ में वा जब २ वीं वर्ष में यज्ञोपवीत धारण की आवश्यकता हो तब २ इसी उक्त प्रकार यज्ञोपवीत को बनावे तथा पहने ॥

अथोपनयनविधिः ॥

तत्रोत्तरायणे शुक्रपक्षे पुष्येऽर्हनि [चन्द्रे, बुधे, वृह०, शुके] स्वस्तिपुण्याहवाचनादिपूर्वकमेतत्कर्मारभेत ॥

ब्राह्मणान् कुमारं च भोजयित्वा वहिःशालायां पञ्चभूसंस्कारपूर्वकं लौकिकाग्निं स्थापयित्वा पर्युप्तशिरसं रत्नसुवर्णादिभिर्यथाशक्त्यलङ्कृतमुपनेयं कुमारमाचार्यपुरुषा आचार्यसमीपं [सत्यवाग्धृतिमान्दक्षः सर्वभूतदयापरः । आस्तिकोवेदनिरतः शुचिराचार्यउच्यते] संस्कारार्थमानीयाग्नेः पश्चात्पूर्वाभिमुखमुपवेशयेयुः । आचार्यः स्वस्माद्दक्षिणस्यां

उत्तरायण शुक्रपक्ष और चन्द्र, बुध, वृहस्पति शुक्र इन पुण्यदिनों में तथा अच्छे पुण्य नक्षत्र में स्वस्तिवाचनादि मङ्गलकृत्य करके इस कर्म का आरम्भ करे । अब यहाँ यद्योपवीत संस्कार का विधान लिखते हैं । ब्राह्मणों और बालक को भोजन कराके अग्न्याधान की शाला से भिन्न अन्य ब्राह्मण शाला [जो मण्डप उसी संस्कार के लिये पृथक् बनाया हो] में जहाँ भूमी वैश वा कंकड़ादि न हो ऐसी शुद्ध भूमि में एक हाथ चतुष्कोण वेदि बनावे उस वेदि का कुशों से परिसमूहन २-गोबर और जलसे लीपना, ३-स्रुवा के मूल से प्रागग्र उदकसंस्थ प्रादेशमात्र तीन रेखा करना, ४-उल्लेखन क्रम से अनामिका और अंगुष्ठद्वारा मृत् को उठा २ कर फेंकना, ५-जल से वेदि का अभ्युक्षण करना । इस प्रकार पंचभूसंस्कार करके आचार्य पूर्वाभिमुख हो वेदि में अग्नि को स्थापित करे । पञ्चभूसंस्कार तथा अग्निस्थापन आचार्य ही करे । तब बालक के सब बाल मुढाके स्नान करा यथाशक्ति सुवर्णादि के आभूषण जिस को पहनाये हो ऐसे बालक को आचार्य अपने अन्य शिष्य द्वारा तुल्लाके अग्नि से पश्चिम में अपने से दहिनी ओर खड़ाकरे वा बैठावे-[सत्यवादी, धीरज वाक्ता चतुर, सब प्राणियों पर दयालु आस्तिक वेद के पढने पढाने में तत्पर पवित्र रहने वाला विद्वान् आचार्य कहाता है] वह आचार्य अपने से दक्षिण दिशा में बैठे

दिश्यवस्थितं बालम्—ब्रह्मचर्यमागामिति ब्रूहि। बालस्तथा वदेत्। ततो ब्रह्मचार्यसानीति ब्रूहि—इत्याचार्यः। बालस्तथा वदेत्। ततो येनेन्द्राद्येत्याचार्यः कुमारं वासः परिधापयेत्।

ओं—येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः पर्यदधा-
दमृतम्। तेन त्वा परिदधाम्यायुषे दीर्घा-
युत्वाय बलाय वर्चसे ॥

[अत्र वासइति जातावेकवचनम्। तेन यावत्प्रयोजनं तावन्ति ब्रह्मचर्याश्रमस्य शाखादीन्यधोर्ध्ववस्त्राणि कौपी-
नादीन्यनेनैव मन्त्रेण परिधापयेत्] ततो माणवकस्य द्वि-
राचमनम्। तत आचार्य इयंदुरुक्तमिति मन्त्रेण युवासु-
वासा इति मन्त्रेण वा तूष्णीं वा ब्रह्मचारिणः कटिप्रदेशे
प्रवरसंख्याग्रन्थियुतां त्रिवृतां मौञ्ज्यादिकां मेखलां बध्नी-
यात् प्रादक्षिण्येन परिवेष्टयेत् ॥

ओम्—इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्णं
पवित्रं पुनतीमन्नागात्। प्राणापानाभ्यां व-

बालक से (ब्रह्मचर्यं) वाच्य कहे और बालक भी उस का वैया ही उत्तर
उनी वाच्य से देवे। तब आचार्य (ब्रह्मचार्यसानी) इस वाच्य को बालक से
कहनावे और बालक वैया ही कहे। तदनन्तर आचार्य (येनेन्द्राय) मन्त्र पहके
वस्त्र पहनावे। वस्त्र कहने से कौपीन, उसके ऊपर लपेटने का वस्त्र और ऊपर
से ओढ़ने आदि का जो २ वस्त्र ब्रह्मचारी को आवश्यक ही वह २ वस्त्र इसी
मन्त्रसे वस्त्र पहना देवे। ये ही वस्त्र ब्रह्मचर्याश्रम में रहेंगे। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी
को गण के सप्रिय को अतर्फी के और वैश्व को ऊन के वस्त्र देवे। तब बालक
को दोबार आचमन करावे। तदनन्तर आचार्य (इयं दुरुक्तं) मन्त्रसे वा (युवासु)

लमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम् ॥
 ओंयुवा सुवासाः परिवीत आगात्स उं श्रेयान्
 भवति जायमानः । तं धीरासः कवय उन्न-
 यन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥

तत आचार्यो ब्रह्मचारिणे यज्ञसूत्रं दद्यात् । स च य-
 ज्ञोपवीतमिति मन्त्रं पठित्वा दक्षिणबाहुमुद्धृत्य वामस्कन्धे
 यज्ञोपवीतं परिदधीत-

ओम्-यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्स-
 हजं पुरस्तात् । आयुष्यमग्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं
 यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः । यज्ञोपवीतमसि
 यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यासि ॥

तत आचार्यो ब्रह्मचारिण उत्तरीयार्थमजिनं प्रयच्छेत् ।
 सच मित्रस्य चक्षुरिति मन्त्रेण तूष्णीं वा कृष्णाजिनं रौ-
 रवं वारतं वा चर्म परिदधीत ।

ओम्-मित्रस्य चक्षुर्धरुणं बलीयस्तेजो यश-

मन्त्रसे अथवा तूष्णीं विना मन्त्रके ब्रह्मचारी के जितने प्रवहो रतनी गाठो वाली
 मूंज, आदि की सेखलाके ब्रह्मचारी के कटिभाग में प्रदक्षिण क्रमसे लपेटकर बाधे
 फिर आचार्य अपने हाथ से ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत देवे और बालक यज्ञो-
 पवीत को अपने हाथ में लेकर (यज्ञोपवीत०) मन्त्र पढके दहिने बाहु को ड-
 टाकर बायें कन्धे से यज्ञोपवीत पहने । तदनन्तर आचार्य ब्रह्मचारी को ऊपर
 से ओढने के लिये सृग चर्म देवे । और (मित्रस्य चक्षु०) मन्त्र से वा तूष्णीं ब्रा-
 ह्मणादि के धानक कर्सायल आदि के चर्म को धारण करे ।

स्विस्थविरथं समिद्धमनाहनस्यं वसनं जरि-
ष्णु परीदं वाज्यजिनं दधेऽहम् ॥

तत आचार्यो ब्रह्मचारिणे तूष्णीं दण्डं प्रयच्छेत्-स
ब्रह्मचारी च यो मे दण्डइति पठित्वा दण्डं प्रतिगृह्णीयात् ।

ओम्-यो मे दण्डः परापतद्वैहायसोऽधिभू-
स्याम् । तमहं पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्र-
ह्मवचसाय ॥

केचिदाचार्याः सोमयागदीक्षावदत्र दण्डविधिमिच्छन्ति ।
तद्यथा-अध्वर्युर्यजमानमुखसंमितमौदुम्बरं दण्डं यजमा-
नाय समर्पयेत् । स दीक्षितो यजमान उच्छ्वस्येति मन्त्रेणोर्ध्वं
कुर्यात् । एवं ब्रह्मचार्यपि दण्डमुच्छ्वसेत् । ततो दण्डप्रदा-
नानन्तरमाचार्योऽस्य वटीरञ्जलिं स्वकीयाञ्जलिस्थाभिर-
द्विरापोहिष्ठेति वचनेन पूरयेत्-

ओमापोहिष्ठासयोभुव-स्तानऊर्जेदधातन ।

तदनन्तर आचार्य तूष्णीं ब्रह्मचारी को विष्टव वा. पलाशादि का दण्ड देवे
और वह ब्रह्मचारी (यो मे दण्डः) मन्त्र पढ़के दण्ड-को आचार्य के हाथ से
लेवे । कोई आचार्य लोग सोमयाग की दीक्षा के समान यहां भी दण्ड प्रदण
का विधान कहते हैं । यहां सोमयाग में भी यह है कि अध्वर्यु यजमान के
मुख तक ऊंचा गूलरका दण्ड यजमान को देता और दीक्षित यजमान उस दण्ड
को (उच्छ्वस्येत्) मन्त्र पढ़के ऊपर को ऊंचा उठाता है । यहां अध्वर्युस्थानी
आचार्य और दीक्षित यजमान ब्रह्मचारी माना जायगा । तत्र दण्ड देने पश्चात्
आचार्य अपनी अञ्जलि को जल से भरके ब्रह्मचारी की अञ्जलि को अपनी अञ्ज
लीके जल से (आपो हिष्ठा) इत्यादि तीन मन्त्रों से भरे [आचार्य और ब्रह्म-

महेरणाय चक्षुषे ॥१॥ ओम्-योवःशिवतमोर-
स-स्तस्यभाजयतेहनः। उशतीरिवमांतरः ॥२॥
ओम्-तस्मात्तरंगमामवो यस्यक्षयायजिन्वथ ।
आपोजनयथाचनः ॥

[आचार्यवटुकौ तूष्णीं स्वस्वाब्जली जलेन पूरयित्वा-
ऽऽचार्यः स्वाब्जलिना वटुकाब्जलिमवक्षारयेत्तत्सवितुर्वृणी-
महइति मन्त्रेण-

ओम्-तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम् ।
श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥

इत्याश्वलायनगृह्ये विशेषः] तत् आचार्यः-सूर्यमुदीक्ष-
स्व-इति वाक्येन ब्रह्मचारिणं प्रेषयेत्-वटुश्च तच्चक्षुरिति
मन्त्रं पठन् सूर्यमुदीक्षेत-

ओम्-तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् ।
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतथं शू-
णायाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः
स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥

पानी दोनो अपनी २ अङ्गुलियो को बिना मन्त्र पढ़े जल से भरके आचार्य अप-
नी अङ्गुलि के जल को (तत्सवितुर्वृणी०) मन्त्र से ब्रह्मचारी के अङ्गुलिस्य जल
में गिरावे । यह आश्वलायनगृह्यसूत्रानुसार मेद है]

तदनन्तर (सूर्यमुदीक्ष) हम धार्य से आचार्य ब्रह्मचारी से प्रेष कहे और
ब्रह्मचारी (तच्चक्षुर्देव०) मन्त्र पढ़के सूर्य को देखे [आचार्य स्वयं (देव सवित

स्विस्थविरथं समिद्धमनाहनस्यं वसनं जरि-
ष्णु परीढं वाज्यजिनं दधेऽहम् ॥

तत आचार्यो ब्रह्मचारिणे तूष्णीं दण्डं प्रयच्छेत्-स
ब्रह्मचारी च यो मे दण्डइति पठित्वा दण्डं प्रतिगृह्णीयात् ।
ओम्-यो मे दण्डः परापतद्वैहायसोऽधिभू-
श्याम् । तमहं पुनरादद आधुषे ब्रह्मणे ब्र-
ह्मवर्चसाय ॥

“केचिदाचार्याः सोमयागदीक्षावदत्र दण्डविधिमिच्छन्ति ।
तद्यथा-अध्वर्युर्यजमानमुखसंमितमौदुम्बरं दण्डं यजमा-
नाय समर्पयेत् । स दीक्षितो यजमान उच्छ्रयस्वेति मन्त्रेणोर्ध्व
कुर्यात् । एवं ब्रह्मचार्यपि दण्डमुच्छ्रयेत् । ततो दण्डप्रदा-
नानन्तरमाचार्योऽस्य वटोरञ्जलिं स्वकीयाञ्जलिस्थाभिर-
द्विरापोहिष्ठेति वृत्तेन पूरयेत्-”

ओमापोहिष्ठास्योभुव-स्तानऊर्जेदधातन ।

तदनन्तर आचार्य तूष्णीं ब्रह्मचारी को विस्व वा पलाशादि का दण्ड देवे
और वह ब्रह्मचारी (यो मे दण्ड ०) मन्त्र पढ़के दण्ड को आचार्य के हाथ से
लेवे । कोई आचार्य लोग सोमयाग की दीक्षा के समान यद्य भी दण्ड पहरण
का विधान कहते हैं । यहा सोमयाग में रीति यह है कि अध्वर्यु यजमान के
मुख तक ऊँचा गूलर का दण्ड यजमान को देता और दीक्षित यजमान उस दण्ड
को (उच्छ्रयस्व ०) मन्त्र पढ़के ऊपर को ऊँचा उठाता है । यहा अध्वर्युस्थानी
आचार्य और दीक्षित यजमान ब्रह्मचारी माना जायगा । तब दण्ड देने पश्चात्
आचार्य अपनी अञ्जलि को जल से भरके ब्रह्मचारी की अञ्जलि को अपनी अञ्ज-
लीके जल से (आपो हिष्ठा ०) इत्यादि तीन मन्त्रों से भरे [आचार्य और ब्रह्म-

महेरणाय चक्षुषे ॥१॥ ओम्-योवःशिवतमोर-
स-स्तस्यभाजयतेहनः। उशतीरिवमांतरः ॥२॥
ओम्-तस्मात्प्ररंगमामवो यस्यक्षयायजिन्वथ।
आपोजनयथाचनः ॥

[आचार्यवटुकौ तूष्णीं स्वस्वाब्जली जलेन पूरयित्वा-
ऽऽचार्यः स्वाब्जलिना वटुकाञ्जलिमवक्षारयेत्तत्सवितुर्वृणी-
महइति मन्त्रेण-

ओम्-तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्।
श्रोष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥

[इत्यारवलायनगृह्ये विशेषः] तत आचार्यः-सूर्यमुदीक्ष-
स्व-इति वाक्येन ब्रह्मचारिणं प्रैपयेत्-वटुरश्च तच्चक्षुरिति
मन्त्रं पठन् सूर्यमुदीक्षेत्-

ओम्-तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्।
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतथं शृ-
णुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः
स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥

शरी दोनो अपनी व अञ्जलियों को बिना मन्त्र पढ़े जल से भरके आचार्य अप-
नी अञ्जलि के जग को (तत्सवितुर्वृणी) मन्त्र से ब्रह्मचारी के अञ्जलिस्थ जल
में गिरावे। यह आश्वनायनगृह्यसूत्रानुसार वेद है।

तदनन्तर (सूर्यमुदीक्ष) इस वाक्य से आचार्य ब्रह्मचारी से प्रैप कहे और
ब्रह्मचारी (तच्चक्षुर्देव) मन्त्र पढ़के सूर्य को देखे [आचार्य-सूर्य (देव-चक्षित

१. [ओम्-देव सवितरेष ते ब्रह्मचारी तं गोपाय स मा मृत
इति मन्त्रेण सूर्यावलोकनम् । मन्त्रप्रचाचार्यपठनीय इत्याश्व-
लायने विशेषः] तत आचार्यो माणवकदक्षिणांसस्योपरि
हस्तं नीत्वा ममव्रतेतइति मन्त्रेण माणवकस्य हृदयमालभेत-

ओम्-मम व्रते ते हृदयं दधामि मम
चित्तमनुचित्तं ते अस्तु । मम वाचमेकमना
जुषस्व बृहस्पतिष्ठ्वा नियुनक्तु मह्यम् ॥

तत आचार्योऽस्य कुमारस्य दक्षिणं हस्तं साङ्गुष्ठं गृही-
त्वां कोनामासीति वदेत् । [ओम्-देवस्य त्वा सवितुः प्र-
सवेऽश्विनोर्वाहुभ्यां पूष्णी हस्ताभ्यां हस्तं गृह्णाभ्यसौ ॥ इ-
ति स्वपाणिना साङ्गुष्ठं बहुपाणिं गृह्णीयादित्याश्वला-
यनगृह्ये विशेषः] पृष्ठो ब्रह्मचारी च-अमुकशर्माऽहं भोः ।
इत्येवं प्रतिवदेत् । पुनराचार्यः-कस्य ब्रह्मचार्यसीति कुमारं
पृच्छेत् । भवतइति कुमारेणोक्ते-आचार्यः-

ओम्-इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यस्यग्निराचार्य-
स्तवाहमाचार्यस्तवासौ ॥

रेप०) इस मन्त्र को पढ़के शिष्य को सूर्यावलोकन करावे यह विशेषता है] तब
आचार्य बालक के दहिने कन्धे के ऊपर से हाथ रोजाके (ममव्रते०) मन्त्र से हृदय
का स्पर्श करे । फिर आचार्य इस बालक के दहिने हाथ को अङ्गुष्ठ सहित पकड़के
कहे कि (कोनामासि) [तथा (देवस्य रवा सवि०) इस मन्त्र को पढ़के अपने हाथ
से आंगूठा सहित ब्रह्मचारी के हाथ को पकड़े यह आश्वलायनगृह्यमन्त्र में
विशेषता है] और आचार्य से पूछा हुआ ब्रह्मचारी (अमुक शर्माऽहंभोः)
ऐसा प्रत्युत्तर देवे । फिर ब्रह्मचारी से आचार्य कहे (कस्य ब्रह्मचार्यसि) तब
पर (भवतः) ऐसा उत्तर बालक कहे तब आचार्य (इन्द्रस्य ब्रह्म०) इत्यादि

असावित्यस्य स्थाने सर्वत्र शर्माद्यन्तं ब्रह्मचारिनामोच्चारणं कार्यम् । अथाचार्यः प्रजापतयइत्यादिमन्त्रान् स्वयं पठन् कुमारं बद्धाञ्जलिं पूर्वादिदिङ्मुखमुपस्थानं कारयेत्—
 ओं—प्रजापतये त्वा परिददामि ॥

ओं—देवाय त्वा सवित्रे परिददामि ॥

ओं—अद्भ्यस्त्वौषधीभ्यः परिददामि ॥

ओं—द्यावापृथिवीभ्यां त्वा परिददामि ॥

ओं—विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि ॥

ओं—सर्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्यः परिददास्यरिष्ट्यै ।

प्रजापतयइति पूर्वस्यां देवायेति दक्षिणस्यामद्भ्य इति पश्चिमायां द्यावेत्युत्तरस्यां विश्वेभ्यइत्यधः सर्वेभ्यइति चोर्ध्वं मुखं कृत्वा माणवकउपरथानं कुर्यात् । ततः कुमारीऽग्निं प्रदक्षिणीकृत्याचार्यस्योत्तरत उपविशेत् । ततः पुष्पचन्दनताम्बूलवासंस्यादाय—ओमद्यकर्त्तव्योपनयनहोमक-

मन्त्र पठे मन्त्र के अन्त में (आचार्यस्तवदेवशर्मन्!) इत्यादि प्रकार असौपद के स्थान में शर्माद्यन्त ब्रह्मचारी का नाम बोले ।

तदनन्तर आचार्य (प्रजापतये०) इत्यादि मन्त्रोसे हाथ जोड़े हुए वाक् के पूर्वादि दिशाओं में उपस्थान करावे मन्त्रोको आचार्य स्वयंपठे (प्रजापतये त्वा०) मन्त्र को पठता हुआ पूर्वाभिमुख बालक को उपस्थान करावे (देवाय त्वा०) से दक्षिणामिमुख (अद्भ्यस्त्वौ०) से पश्चिमामिमुख (द्यावापृथि०) से उत्तरामिमुख (विश्वेभ्यस्त्वा०) से नीचे की दिशा को देखता हुआ और (सर्वेभ्यस्त्वा०) से ऊपर की दिशामें उपस्थान करावे । तदनन्तर कुमार बालक अग्नि की प्रदक्षिणा करके आचार्य से उत्तर में बैठ के पुष्प चन्दन ताम्बूल और घस्रों को हाथ में लेकर (ओमद्य०) इत्यादि वाक्य पढ़के ब्रह्मचारी ब्रह्माका वरण करे और

मंशि कृतो कृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मकर्तुममुकगोत्रममुकशमां-
 शं ब्राह्मणमेभिः पुष्पचन्दनताम्बुलवासोभिर्ब्रह्मत्वेन त्वा
 महं वृणो । इति ब्रह्माणं वृणुयात् । ओम्-वृतोऽस्मीति
 प्रतिवचनम् । ततोऽग्नेर्दक्षिणतः शुद्धमासनं निधाय तदु-
 परि प्राग्ग्राण्कुशानास्तीर्य, ब्रह्माणमग्निप्रदक्षिणं कारयि-
 त्वाऽस्मिन् कर्मणि त्वं मे ब्रह्मा भवेत्यभिधाय भवानीति
 तेनोक्ते तदुपरि ब्रह्माणमुदह्मुखमुपवेशयेत् । ततः प्रणी-
 तापात्रं पुरतः कृत्वा वारिणा परिपूर्य कुशैराच्छाद्य ब्रह्म-
 णो मुखमवलोक्याग्नेरुत्तरतः कुशोपरि निदध्यात् । ततः
 परिस्तरणम्-वर्हिषश्चतुर्थभोगमादायाग्नेयादीशानान्तं, ब्र-
 ह्मणोऽग्निपर्यन्तम् । नैऋत्याद्वायव्यन्तमग्निः प्रणीता-
 पर्यन्तम् । ततोऽग्नेरुत्तरतः पश्चिमदिशि पवित्रच्छेदनार्थं
 कुशत्रयं पवित्रकरणार्थं साग्रमनन्तर्गमं कुशपत्रद्वयम् ।
 प्रोक्षणीपात्रमाज्यस्थाली संमार्जनकुशाः । उपयमनकुशाः ।

पुष्पादि ब्रह्मा के हाथ में दैवे । ब्रह्मा पुष्पादि को लेकर (वृतोऽस्मि) कहे । तब
 अग्निसे दक्षिण में शुद्ध आसन चौकी आदि विद्याकर उसपर पूर्व को जिन कर
 अग्रभाग हो ऐसे कुश विद्याकर ब्रह्मा की अग्नि की प्रदक्षिणा कराके (अस्मिन्
 कर्मणि त्वं मे ब्रह्मा भव) इस कर्म में तुम मेरे ब्रह्मा हो ऐसा कहकर ब्रह्मा के
 (भवानी) कहने पर उस आसन पर ब्रह्मा को उत्तराभिमुख बैठकर प्रणीतापात्र
 को सामने रखके ललमे भरके कुशोसे आच्छादन कर ब्रह्मा का मुख अवलोकन
 करके अग्नि से उत्तर कुशो पर प्रणीतापात्र को प्रणय रखे । तदनन्तर चार
 मुट्टी कुश लेकर अग्नि के सब ओर परिस्तरण करे-एक चौथाई कुश अग्नि कोण
 से दृशान दिशा तक, द्वितीय भाग ब्रह्मा के आसन से अग्निपर्यन्त हृतीय भाग
 नैऋत्य कोण से वायु कोण पर्यन्त चौथा अग्नि से प्रणीता पर्यन्त विद्याके ।
 तदनन्तर अग्नि से उत्तर में प्राक्संख्य पात्रासादन करे । पवित्र छेदनार्थ तीन
 कुश तथा पवित्रकरणार्थ अग्रभाग सहित जिन के भीतर अग्र्य कुश न हों
 ऐसे दो कुश, प्रोक्षणीपात्र आज्यस्थाली, संमार्जनकुश, उपयमनकुश, ठाक

समिधरितस्तः। सुव आज्यम् । पूर्णपात्रम्, पवित्रच्छेदनकु-
शानां पूर्वपूर्वदिशि क्रमेणासादनीयम् । इति पात्रासादनम् ।
ततः पवित्रच्छेदनकुशैः पवित्रे छित्वा सपवित्रकरेण प्रणी-
तोदकं त्रिः प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षिप्यानामिकाङ्गुष्ठाभ्यां गृही-
तपवित्राभ्यां तज्जलं किञ्चित् त्रिरुत्क्षिप्य प्रणीतोदकेन प्रो-
क्षणीपात्रं त्रिरभिपिच्य प्रोक्षणीजलेनासादितवरतुसेचनं
कृत्वाऽग्निप्रणीतापात्रयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रं निदध्यात् ।
आज्यस्याल्यामाज्यनिर्वापोऽधिश्चयणं ततः कुशान् प्रज्वा-
ल्याज्योपरि प्रदक्षिणं भ्रामयित्वा बन्धौ तत्प्रक्षिप्य सुवं त्रिः
प्रतप्य सम्मार्जनकुशानामग्रैरन्तरतो मूलैर्वाह्यतः सुवं सं-
मृज्य प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य पुनस्त्रिः प्रतप्याग्नेर्दक्षिणतो नि-

कीतीन समिधा, सुव, आज्य, पूर्णपात्र, पवित्रच्छेदन कुशो से पूर्वपूर्व दिशाम क्रम से सब का स्थापन उत्तर की अग्रभाग कर २ करे । तदनन्तर पवित्रच्छेदनार्थ तीन कुशों से प्रादेशमात्र दो कुशों का छेदन करके पवित्र सहित दहिने हाथ से प्रणीता के जल को तीन बार प्रोक्षणीपात्र में हाल कर अनामिका और अङ्गुष्ठ से पकड़े हुए पवित्रो से उस प्रोक्षणीस्थ जल का तपवन [अर्थात् पवित्रो द्वारा प्रोक्षणीपात्र के जलकी ऊपर को उछालना] कर और प्रणीता के जल से प्रोक्षणीस्थ जल का पवित्रो द्वारा तीन बार अभिपेचन करके प्रोक्षणीपात्र के जल से स्थापित किये आज्यस्थाली आदि सब पदार्थों का सेचन करके अग्नि और प्रणीतापात्र के बीच में प्रोक्षणीपात्र को रख देवे । तब आज्यस्थाली में घृतपात्र से घृत गिरा के अग्नि पर तपने को रखे तदनन्तर मूखे कुश जला कर घी के ऊपर प्रदक्षिण चमक करके अग्नि में जलते कुश फेंक कर सुवा की तीन बार अग्नि में तपा के सम्मार्जन कुशों के अग्रभाग से भीतर को और कुशों के मूल भाग से बाहर की ओर सुवा को झाड़ पीछे शूट कर तथा प्रणीता के जल से सेचन करके और फिर तीन बार तपाके अग्निसे दक्षिण की ओर सुवाकी धर देवे । तत्पश्चात् तपते हुए घी की अग्नि से उतार के तीनवार प्रोक्षणी के तुल्य

दध्यात् । ततश्चाज्यमग्नेरवतार्य त्रिः प्रोक्षणीवदुत्पूयावेक्ष्य सत्यपद्रव्ये तन्निरस्य पुनः प्रोक्षयुत्पवनम् । ततउत्थायोपयमनकुशान् वामहस्ते कृत्वा प्रजापतिं मनसा ध्यात्वा तूप्यो घृताक्सारितस्र समिधोऽनौ प्रक्षिपेत् । पुनरुपविश्य सपवित्रप्रोक्षयुदकेन प्रदक्षिणक्रमेणाग्निमुदकसंस्थं पर्युक्ष्य प्रणीतापात्रे पवित्रे निधाय प्रोक्षणीपात्रं विसर्जयेत् । ततः पातितदक्षिणजानुर्ब्रह्मणान्वारव्यः समिदृतमेऽनौ सुवेणाज्याहुतीर्जुहुयात् । तत्र तत्तदाहुत्यनन्तरं सुवावस्थितहुतशेषरय प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः—

ॐ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये नमम । इति मनसा । ॐम्—इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय नमम । इत्याघारौ । ॐमग्नये

पवित्रे से घी का उत्पवन करके देवे यदि घृत में कुछ निकट वस्तु ही हो निकाल कर फेंक देवे और फिर तीन बार प्रोक्षणीपात्र का उत्पवन करे । तदनन्तर उठकर उपयमनकुशों को वाम हाथ में लेके प्रजापति का मन से ध्यान करके घृत में टुघोई तीन समिधाओं को तूर्णों बिना मन्त्र पढ़े एक बार अग्नि में चढावे । फिर बैठ कर पवित्रसहित प्रोक्षणी के जल को प्रदक्षिणक्रम से ईशान कोण से लेकर उत्तर दिशा तक अग्नि के सय और बीचन वरे प्रथात् प्रोक्षणीपात्र का सय जल पर्युक्ष्य में गिरा देवे । प्रणीतापात्र में दीनो पवित्र रत के प्रोक्षणीपात्र का विसर्जन करे । तदनन्तर घोट्ट को भूमि में टेक कर ब्रह्मा से अन्वारव्य हुआ ब्रह्मवारी प्रज्वलित अग्नि में सुवा से आउयाहुतियों का होम करे । महा २ वस २ आहुति देने पश्चात् सुवा में जो घृतविन्दु बचे उनको प्रोक्षणीपात्र में डालता जावे । प्रजापति का मनसे ध्यान कर पूर्वाघार की तूर्णों आहुति देवे । त्याग सब का ब्रह्मवारी स्वय वीक्षता जाय । आघार की दो आरय भाग की दो और महाव्याहृतियों की तीन सर्वप्राय-

स्वाहा । इदमग्नये नमस । ओम्-सोमाय
 स्वाहा । इदं सोमाय नमस । इत्याज्यभागौ ।
 ओं भूः स्वाहा । इदमग्नये नमस । ओं भुवः
 स्वाहा । इदं वायवे नमस । ओं स्वः स्वाहा ।
 इदं सूर्याय नमस । एता महाव्याहृतयः ।

ओं त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य
 हेडोऽअवयासिसीष्ठाः । यजिष्ठो वह्नित-
 मः शोशुचानो विश्वा द्वेषाथंसि प्रमुमुग्ध्य-
 स्मत्स्वाहा ॥ १ ॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां न-
 मस । ओं स त्वन्नो अग्नेऽवसो भवोती ने-
 दिष्ठो अस्यो उपसो व्युष्टौ । अवयस्व नो
 वरुणथं रराणो वीहिसृडीकथं सुहवो नरधि
 स्वाहा ॥ २ ॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां न मस ।
 ओम्-अथाइचाग्नेऽस्यनभिप्रस्तिपाश्च स-
 त्यमित्त्वमयाअसि । अथा नो यज्ञं वहार्य-
 या नो धेहि भेषजथंस्वाहा ॥ ३ ॥ इदमग्नये
 नमस ॥ ओम्-ये ते शतं वरुण ये सहस्रं

शित्त की पाच तथा प्राजापत्य और म्विष्टकृत् दी सत्र चौदह आहुति त्यागों
 सहित देके संस्तव प्राशन कर हाथ धीं आचमन कर के ब्रह्मा की दक्षिणा देवे

यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । तेभिर्नोऽब्रुव
 सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः
 स्वाहा ॥ ४ ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे
 विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्कभ्यश्च न-
 मम ॥ ओम्-उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदबा-
 धसं विमध्यमथं श्रथाय । श्रथावयमादित्य
 वृते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥५॥
 इदं वरुणाय न मम । एताः सर्वप्रायश्चित्ता-
 हुतयः । ओम्-प्रजापतये स्वाहा । इदं प्र-
 जापतये न मम । इति मनसा प्राजापत्यम् ।
 ओम्-अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदमग्नये
 स्विष्टकृते न मम ।

इति स्विष्टकृद्गोमः । ततः संस्रवप्राशनमाचमनं च कृत्वा
 ब्रह्मणे दक्षिणां दद्यात् । ओमद्यैतस्मिन्दुपनयनहोमकर्मणि
 कृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं प्रजाप-
 त्तिदेवतममुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्रह्मणे ब्राह्मणाय दक्षिणां
 तुभ्यमहं संप्रददे इति दक्षिणा दद्यात् । एषोस्वस्तीति प्रति-
 वचनम् । ततः-

एष मे (ओमद्यैतस्मिन्) इत्यादि स्वरूप करे । धीर ब्रह्मा स्वस्ति वद कर
 दक्षिणा लेखे । तदनन्तर पवित्रों द्वारा प्रणीता का जन लेख (ओमनिश्रि)

ओं सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु ।
इति पवित्राभ्यां प्रणीताजलमानीय तेन शिरः समृज्य-
ओं दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं
च वयं द्विषमः ॥

इत्यैशान्यां प्रणीतान्युव्जीकरणम् । ततः स्तरणक्रमेण
वर्हिस्तथाप्य घृतेनाभिचार्य हस्तेनैव जुहुयात् ।

ओं देवा गातुविदो गातुं वित्वा गातुमित । म-
नसस्पतइमं देवयज्ञं स्वाहा वातेधाः स्वा
हा ॥ इदं वाताय नमम ।

इति वर्हिर्होमः । पञ्चभूसंस्कारा ब्रह्मवर्णादिवर्हि-
र्होमान्तं च सर्वं कर्म सामान्यतया सर्वस्मार्त्तहोमेषु कर्त्त-
व्यम् ॥ तत आचार्यएव ब्रह्मचारिणं संशास्यात् । तद्यथा-ब्र-
ह्मचार्यसि-इत्याचार्यः । भवानीति ब्रह्मचारी । अपोऽशान

मन्त्र पठ के अपने शिर पर जलसेवन करके (ओं दुर्मित्रिया०) मन्त्र से प्रणीता
के शेष जल को ईशान दिशा में लौट देवे और पवित्रों को बिछाये हुए कुर्छों में
गिला देवे तब जिस क्रम से कुछ बिछाये थे वही क्रम से पवित्रों सहित उठा
कर कुर्छों में घी लगा के हाथ से ही कुर्छों का होम (ओं देवा गातुवि०) मन्त्र
पठ के त्याग के साथ कर देवे । पंचभूसंस्कार और ब्रह्मा के वरण से लेकर यहा तक
कटा वर्हिर्होम पर्यन्त मद्य कर्म सामान्य कर सब स्मार्त्त होमों में करना चाहिये ॥

तदनन्तर आचार्य ही ब्रह्मचारी को शिक्षा करे-आचार्य-तुम ब्रह्मचारी हो ।
अब से तुम ब्रह्म नामवेदोक्त कर्म करने के अधिकारी हुए हो । बालक-में ब्र-
ह्मचारी होकर । आचार्य-तुम भोजन से पहिले सदा एकवार आचमन किया क-
रो । बालक-आचमन करू गा । आचार्य-तुम स्नान सन्ध्योपासन, वेदाध्ययन नि-

इत्या० । अशानि-इति ब्र० । कर्म कुरु-इत्या० । करवाणि
 इति ब्र० । मां दिवा सुपुण्या-इत्याचार्यः । नस्वपानीति ब्र० ।
 वाचं यच्छ-इत्या० । यच्छानि-इति ब्र० । समिधमाधेहि-
 इत्या० । आदधानि-इति ब्र० । अपोऽशान-इत्याचार्यः । अ-
 शानि-इति ब्रह्मचारी वदेत् । एवं शासितायाग्नेरुत्तरतः प्र-
 त्यङ्मुखोपविष्टायाचार्यपादोपसंग्रहणपूर्वकमुपसन्नायाचार्यं
 समीक्षमाणायाचार्यणापि समीक्षितायास्मै ब्रह्मचारिणे नि-
 वारितशङ्खतूर्यादिशब्देऽविघ्ने आचार्यः सावित्रीमन्त्रयात् ।
 अग्नेर्दक्षिणतस्तिष्ठत आसीनाय वा ब्रूयादिति कैचित् ।
 प्रणवव्याहृतिपूर्वकं प्रथममेकैकं पादम् । तथा द्वितीयमर्द्ध-
 शस्तथैव तृतीयं सर्वां च शिर्येण सह पठन्नुपदिशेत् । यथा-
 ओम्-भूर्भुवःस्वः-तत्सवितुर्वरेण्यम् ।

शाखाणादि अपना शास्त्रीक कर्म नियमसे करी । बालक-में कर्ण करूंगा । आचार्य
 तुम दिन में मत सोया करो । बालक-मही सोऊंगा । आचार्य धर्मशास्त्र में कहे
 समय तुम मौन रहा करो । बालक-मौन धारण करूंगा । आचार्य-आग्ने निसे अ-
 नुसार नित्य समिधाधान किया करो । बालक-में नित्य समिधाधान करूंगा ।
 आचार्य-भोजन के पश्चात् नित्य आचमन किया करो । बालक-भोजन किये प-
 श्चात् नित्य आचमन किया करूंगा । इस प्रकार आचार्य शिला कर चुके तब प्र-
 णवारी यार्थे हाथ से आचार्य के यार्थे पग का और दहिने हाथ से दहिने पग का
 स्पर्श करके अग्नि से उत्तर पश्चिमाभिमुख आचार्य के निकट ही बैठे आचार्य
 अग्नि से उत्तर में पूर्वोभिमुख आसन पर बैठा हो आचार्य की और बालक
 देवता हो और बालक का मुख आचार्य देवता हो ऐसे दशा में शङ्ख वाजे
 आदि के शब्द न होते हो ऐसे समय में आचार्य ब्रह्मचारी को सावित्री मन्त्र
 का उपदेश करे । अग्नि से दक्षिण में खड़े हुए ब्रह्मचारी को सावित्री मन्त्र का
 उपदेश करे यह किहीं आचार्यों का मत है । प्रथमावृत्ति में प्रणव और व्या-
 हृतियो सहित एक २ पाद का उपदेश करे (ओम्भूर्भुव स्वः-तत्सवि०) (श्री

ओम्-भूर्भुवःस्वः-भर्गो देवस्य धीमहि ।
ओम्-भूर्भुवःस्वः-धियो योनः प्रचोदयात् ॥

इयमेकावृत्तिः

ओम्-भूर्भुवःस्वः-तत्सवितुर्वरेण्यम्भ-
र्गो देवस्य धीमहि । ओम्-भूर्भुवःस्वः-धियो
योनः प्रचोदयात् ॥ इति द्वितीयावृत्तिः

ओम्-भूर्भुवःस्वः-तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव-
स्य धीमहि । धियो योनः प्रचोदयात् ॥

इति तृतीयावृत्तिः । संवत्सरे वा पणमासे वा चतु-
र्विंशत्यहे वा द्वादशाहे वा षडहे वा त्र्यहे वा काले क्षत्रिय-
वैश्ययोर्ब्रह्मचारिणोराचार्यः सावित्रीमनुब्रूयात् । अधिका-
रितारतम्पपरीक्षार्थाः कालविकल्पाः । अत्राधसरे ब्रह्मचा-
रिणाः समिदाधानम् । तद्यथा-आचार्यदक्षिणदिश्यग्निः
पश्चिमोपविष्टो ब्रह्मचारी दक्षिणहस्तेन शुष्कगोमयकाष्ठं
प्रक्षिप्याग्नेसुश्रवइति पञ्चभिर्मन्त्रैरग्निं प्रदीपयेत् ।

भूर्भुवःस्वः-भर्गो०) (ओम्-भूर्भुवःस्वः-धियो०) द्वितीयावृत्ति में ऊपर लिखे
अनुसार प्रथम आधी अथवा के साथ प्रणवव्याहृति लगा के कहलाये द्वितीय बार
ऐसे ही तृतीय पाद का उच्चारण करावे और तृतीयावृत्ति में प्रणव व्याहृतिपों
सहित पूरे गायत्री मन्त्र का उच्चारण आचार्य करावे शिष्य साथ र कहता जाये ।
एक वर्ष में या छः मास में या चौबीस दिन में या बारह दिन में या छः दिन में
अथवा तीन दिन में क्षत्रिय वैश्य ब्रह्मचारियों को आचार्य सावित्री मन्त्र का उपदेश
करे । अधिकारी की न्यूनधिकता परीक्षा द्वारा जानने के लिये समय के कई
विकल्प किये हैं । इसी अवसर में ब्रह्मचारी समिदाधान करे । ऊँचे-आचार्यके
दक्षिण दिशा में और अग्नि से पश्चिम में घंटा ब्रह्मचारी दहिने हाथ से मुखे

ओम्-अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु ॥ १ ॥

ओम्-यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि ॥ २ ॥

ओम्-एवं माथं सुश्रवः सोश्रवसं कुरु ॥ ३ ॥

ओम्-यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा

असि ॥ ४ ॥ ओम्-एवमहं मनुष्यणां वेदस्य

निधिपो भूयासम् ॥ ५ ॥

हस्तद्वयेन वा संधुक्षणं कुर्यात् । ततो दक्षिणहस्तेन प्रदक्षिणमग्निमद्विः पर्युक्ष्योत्थाय तिष्ठन्स्वप्रादेशमिता घृताक्तास्तिस्रः पलाशसमिध आदाय तास्वैकैकामग्नये समिधमित्येषातइति वीभाभ्या वाऽऽवृत्त्या तिस्रःसमिधआदध्यात् ॥

ओम्-अग्नये समिधमाहार्षं बृहते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवमहमायुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहमसान्यनिराकरिष्णुर्यशस्वी तेज-

के आने कण्ठे अग्नि में डालता हुआ (अग्नेसुश्रवः) इत्यादि पाप मन्त्रों से अग्नि को प्रदीप्त करे अथवा अग्नि में कण्ठे वा समिधा न छोड़ता हुआ दोनों हाथ से ही मन्त्र पढ़ता हुआ अग्नि को घोंके । तदनन्तर दहिने हाथ से किसी छोटे पात्र में वा हाथ में जल लेकर ईशानकोण से उत्तर पर्यन्त प्रदक्षिण क्रम से अग्नि के सब ओर जल सेचन करे फिर ठठ कर सड़ा हुआ ब्रह्मचारी अपने प्रादेशमात्र पल में हुथोई टाक की तीन समिधाओं को हाथ में लेकर उन में से एक २ को (अग्नये समिधः) मन्त्र से वा (एषातेः) मन्त्र से वा इन दोनों

स्वी ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भूयासम् । ओम्-
एषाते अग्नेसमित्तयावर्द्धस्वचाचप्यायस्व ।
वर्द्धिपीमहिच वयमा च प्यासिपीमहिस्वाहा ।

तत उपविश्य पूर्ववदग्ने सुश्रवइत्यादि पञ्चमन्त्रैरग्निं
संदीप्य प्रदक्षिणं पर्युक्ष्य तूष्णीं पाणी प्रतप्य प्रतप्य त-
नूपाइति प्रतिमन्त्रं मुखं विमृज्यात् ।

ओम्-तनूपाअग्नेऽसि तन्वं मे पाहि ॥१॥
ओमायुर्दाअग्नेऽस्यायुर्मं देहि ॥२॥ ओम्-
वर्चादा अग्नेऽसि वर्चा मे देहि ॥३॥ ओम्-
अग्ने यन्मे तन्वा जनन्तन्म आपृण ॥ ४ ॥
ओम्-मेधां मे देवः सविता आदधातु ॥५॥
ओम्-मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु ॥६॥
ओम्-मेधां मेऽश्विनौ देवावाधत्तां पुष्क-
रस्त्रजौ ॥ ७ ॥

ततोऽङ्गानि च म इति शिरः प्रभृति पादान्तं दक्षिण-
पाणिना सर्वाङ्गमालभेत-

मन्त्रों से तीन बार करके तीनों समिधा अग्नि में चढ़ावे तीनों बार मन्त्र भी
पढ़े । तदनन्तर बैठ कर पहिले कहे अनुसर (अग्ने सुश्रवः) इत्यादि पाँच
मन्त्रों से अग्नि को प्रज्वलित प्रदीप्त कर और पर्युक्षण [अग्नि के सघ और पू-
र्यवत् जलशेचन] करके दिना मन्त्र पढ़े दीनों हाथ तथा २ कर (तनूपा०) इत्यादि
प्रत्येक मन्त्र से मुख का स्पर्श करे । तदनन्तर (अङ्गानि च०) मन्त्र पढ़ के शिर

शयस्तिस्त्रः षड् द्वादशापरिमिता वा स्त्रियो ब्रह्मचारी भिक्षां याचेत् । केचिन्मातरं तदभावे स्वसारं तस्या अप्यभावे मातुर्निजां भगिनीं प्रथमं भिक्षा याचेतेति मन्यन्ते । भिक्षा मानीयाचार्याय निवेदयेत् । ततो भैक्षं भुङ्क्ष्वेति गुरुणाऽनुज्ञातो भोजनं कुर्यात् । इत आरभ्य सूर्यास्तमयावधि वाग्यतस्तिष्ठेदिति विकल्पितम् । ततो ब्रह्मचारी सायंसन्ध्यामुपास्य—अग्नेसुश्रवइत्यादि मन्त्रैः पाणिना परिसमूहनादारभ्याभिवादनपर्यन्तं सर्वं कृत्यं कृत्वा वाचं विसृजेत् । अथोपनयनकालादारभ्य समावर्तनावधि ब्रह्मचारिणः कृत्यम्—भूमौ शयनम् । अक्षारालवणाशनम् । दण्डधारण-

नकार [इनकार] न करें ऐसी तीन, छ बारह वा अनिष्टत दृष्ट्यावाली स्त्रियों से ब्रह्मचारी भिक्षा मागे । किन्हीं आचार्यों का मत है कि एवम माता से भिक्षा मागे माता न हो तो अपनी सगी बहनसे और भगिनी भी न हो तो माता की सगी बहन मातृस्वपा (मौसी) से भिक्षा मागे । भिक्षा को लेकर आचार्य के सामने घरे [भिक्षा कहने से यहा पकाया हुआ अन्न जानो । चाहे रोटी दाल, भात पूरी आदि ही वा फल आदि ही विलु दानेरूप करवा अन्न, आटा वा रुपया पैसादि का नाम यहा भिक्षा नहीं है] जब आचार्य आज्ञा करें कि (भैक्षं भुङ्क्ष्व) तब ब्रह्मचारी भोजन करे इस समय से लेकर सूर्यास्त होने समय तक ब्रह्मचारी सोन होकर खड़ा रहे किन्तु बैठे लेटे नहीं । चाहे और शक्ति भी होती ऐसा अवश्य करे । खड़ा रहना असम्भव हो तो न करे । तदनन्तर ब्रह्मचारी सायं काल की संध्या करके (अग्ने ! सुश्रव ८) इत्यादि मन्त्रों को पढ़ता हुआ दोनों हाथ से अग्नि को धौंकने से लेकर आचार्य तथा वृद्धादि वी अभिवादन करने पर्यन्त कृत्य करके वाणी का विसर्जन करे अर्थात् बोलने लगे । अब उपनयन रु-रकार के समय से लेकर समावर्तन पर्यन्त ब्रह्मचर्याशन के विशेष नियम कहते हैं । भूमि पर सोवे किसी खार तथा किसी लवण का न खावे, नित्यदृष्ट वा धारण अग्निका धरिधरख जैश घूर्व धौंकने से लेकर अभिवादन पर्यन्त कहनुके ही इची

मग्निपरिचरिणं गुरुशुश्रूषा भिक्षाचर्या सायंप्रातर्भोजनार्थं
भोजनसान्निध्ये वारद्वयं वाऽनिन्द्ये कर्मनिष्ठवेदः प्यायित्रा-
ह्लाणगृहे गुर्वाज्ञया भैक्षं याचित्वा भोजनविधिना भुञ्जीत ॥

मधु क्षौद्रं मांसं च कदापि नाश्रीयात् । नद्यादिजलाशये
प्रविश्य स्नानं नाचरेत् । किन्तु दूतदकेन स्नायात् । ख-
ट्वादाद्युपर्यासनं वर्जयेत् । स्त्रीगमनम् । स्त्रीणां मध्येऽव-
स्थानं च वर्जयेत् । तथा च मनुः—

वर्जयेन्मधुमांसंच गन्धंमाल्यंरसान्स्त्रियः ।
शुक्तानियानिसर्वाणि प्राणिनांचैवहिंसनम् ॥
अभ्यङ्गमञ्जनंचाक्षयो—रूपानच्छत्रधारणम् ।
कामंक्रोधंचलोभंच नर्त्तनंगीतवादनम् ॥
द्यूतंचजनवादंच परिवादंतथाऽनृतम् ।
स्त्रीणांचप्रेक्षणालम्भ—मुपघातंपरस्यच ॥

विधान से नित्य सायंप्रात काल समिदाधान करता रहे, गुरु की सेवा, शुश्रूषा कर-
ना, धर्म वा नियम विषय में आचार्य की जो आज्ञा हो अवश्य पालन करे। सायं-
प्रात काल भोजनार्थ अनिन्दित, धर्म कर्म निष्ठ, वेद का पठन पाठन करने वाले
ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मागकर भोजनविधि से नित्य सायंप्रात काल भोजन
किया करे। ब्राह्मणारी शहत और मांस को कभी न खावे। नदी आदि के जल
में घुसकर स्नान न करे किन्तु जलाशय से लोटा वा घड़ा भर र वाहर स्नान करे।
खटिया आदि ऊँचे पर न सोवे। स्त्री गमन का सर्वथा ही परित्याग रखे।
स्त्रियों के दौध वा पास में निवास न करे। मनुजी ने कहा है कि—शहत,
मांस, इतर आदि मृगम्य, पुष्पादिमाला, लवणादिरस, स्त्रियों का सङ्ग, घासी घरा
आवादि, प्राणियों वा जीव जन्तुओ का मारना, शरीर में तैल मर्दन, आँखों में अ-
ञ्जन वा सुरमा लगाना, जूमा तथा खाता का धारण करना, काम, क्रोध, लोभ,
नाचना, गाना, बजाना, जुआ चाँपड़ आदि खेलना, किसी की निन्दा स्तुति
करना, बहुत बकना, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन करना, स्पर्शकरना, किसी

एकःशयीतसर्वप्र-नरेतःस्कन्दयेत्क्वचित् ।

कामाद्विस्कन्दयन्रेतो हिनस्तिव्रतमात्मनः ॥

स्मृत्यन्तरेतु-मधुमासाञ्जनोच्छिष्ट-मुक्तस्त्रीप्राणिहिंसनम्

भास्करालोकनाशलील-परिवादादिवर्जयेत् ॥

अत्रादिशब्देन पर्युपितताम्यूलदन्तधावनावसकृदिका-
दिवास्वापङ्कत्रपादुकागन्धमाल्योद्वर्त्तनानुलेपनजलक्रीडाद्यू-
तनृत्यगीतवाद्यालापादीन्यन्यान्यपि वर्जनीयानि । तथा-

कार्याभिक्षासदाधार्य कौपीनंकटिसूत्रकम् ।

कौपीनमहतंधार्य्य दगडंवावस्त्रपार्श्वयुक् ॥

यज्ञोपवीतमजिनं मौञ्जीदगडंचधारयेत् ।

नष्टेभ्रष्टेनवंमन्त्राद् धृत्वाभ्रष्टंजलेक्षिपेत् ॥

एवमष्टाचत्वारिंशद्वार्षिकं वेदब्रह्मचर्यं षट्त्रिंशद्वर्षं
यावद्ग्रहणं वा कुर्यात् ॥

को पीटना इन सब को छोड़ दे ये काम कभी न करे । सदा सर्वत्र ऊँसेला सोवे कभी
वीर्यपात न होने दे । यदि कामवेग से वीर्यपात जाता है तो अपने व्रतको मनु
का देता है । स्मृत्यन्तरो में इतना अधिक लिखा है कि उच्छिष्ट भोजन, सूर्यको
देखना, विषयो की चर्चा, दातौल करना, पान खाना, दिन में सोना, सशामू
पहरना स्नान के पश्चात् चन्दनादि सुगन्ध शरीर में लगाना, जलक्रीडा, भज
नादि को तान भर र गाना छोड़ दे । तथा सदा भिक्षा माग कर खावे कटि-
वस्तु सहित कौपीन को सदा धारण करे, कौपीन और दगड मटे टूटे नहो
ये यज्ञोपवीतादि चिन्ह टूट फूट जायें तो उन को जल में डालकर मन्त्र पूर्वक
नये धारण करे । इस प्रकार वेदाध्ययन के लिये अडतालीश, छत्तीश अठारह
वा नौ वर्ष का ब्रह्मचर्य नियम से धारण करे । अथवा एक दो तीन वा चारो
वेद छत्रों अङ्गों सहित तथा ब्राह्मण यन्त्रो सहित जितने दिन में पूरे पठ सके
उतने दिन ब्रह्मचर्य के नियमों का धारण करे ॥

इत्युपनयनसंस्कार समाप्त ॥

अथवेदारम्भः।

देशकालौ स्मृत्त्राऋग्वेदव्रतादेशं यजुर्वेदव्रतादेशं वा करिष्ये इति यथावेदं सकलस्य पञ्चभूसंस्कारपूर्वकं लौकिकाग्निं स्थापयेत्। तत्र ब्रह्मचारिणमाहुयाग्नेः पश्चात् स्वस्योत्तरत उपवेश्य ब्रह्मोपवेशनाद्याज्यभागान्तं कर्म कृत्वा यदि ऋग्वेदमारभेत तदा—पृथिव्यै स्वाहा। इदं पृथिव्यै न मम। अग्नये स्वाहा। इदमग्नये न मम। इति द्वे आज्याहुती हुत्वा। ओम्-ब्रह्मणे स्वाहा। इदं ब्रह्मणे न मम। ओं छन्दोभ्यः स्वाहा। इदं छन्दोभ्यो न मम। ओं प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये न मम। ओं देवेभ्यः स्वाहा। इदं देवेभ्यो न मम। ओम्-ऋषिभ्यः स्वाहा। इदं ऋषिभ्यो न मम। ओं अद्भ्यै स्वाहा। इदं अद्भ्यै न मम। ओं मेधायै स्वाहा। इदं मेधायै न मम। ओं सदसस्पतये स्वाहा। इदं सदसस्पतये न मम। ओं अनुमतये स्वाहा। इदं अनुमतये न मम। इति नवाहुतिर्होमं कृत्वा शेषं समापयेत्। यदि यजुर्वेदारम्भस्तदाऽऽज्यभागानन्तरम्—ओं

भा०—अथ वेदारम्भ संस्कार लिखित हैं। यज्ञोपवीत के ही दिन या उस से तीन दिन पश्चात् प्राचाय देश काल के स्मरणरूप संकल्प के साथ ऋग्वेद या यजुर्वेद के अध्ययनव्रत की आज्ञा में आज शिष्यको कहेंगा। ऐसा संकल्प कर के पञ्चभूसंस्कार (पूर्व यज्ञोपवीत में कहे अनुष्ठार) कर के लौकिक अग्नि को समुत्थापित करे। तब ब्रह्मचारी को बुलाके अग्नि से पश्चिम और अपनेसे उत्तर में पूर्वाभिमुख बैठके ६१-६५ पृष्ठमें लिखे अनुसार ब्रह्मवराणादि आज्यभागान्त कर्म करके यदि ऋग्वेद का आरम्भ करना हो तो पृथिवी और अग्नि के लिये दो आहुति देके ब्रह्मादि के नाम से नव आहुति देवे। यदि यजुर्वेद का आरम्भ करना हो

अन्तरिक्षाय स्वाहा । इदं मन्त्रं रिक्षाय नमः । ओं वायवे स्वाहा । इदं वायवे नमः । इत्याहुतिद्वयानन्तरं ब्रह्मणे स्वाहेत्यादिनवाहुतयः । यदि सामवेदारम्भस्तदाज्यभागान्ते—ओं दिवे स्वाहा । इदं दिवे नमः । ओं सूर्याय स्वाहा । इदं सूर्याय नमः । इति हुत्वा ब्रह्मण इत्यादिपूर्ववत् । यद्यथर्ववेदारम्भस्तदाऽऽज्यभागान्ते—ओं दिग्भ्यः स्वाहा । इदं दिग्भ्यो नमः । ओं चन्द्रमसे स्वाहा । इदं चन्द्रमसे नमः । इत्याहुतिद्वयानन्तरं ब्रह्मण इत्यादिपूर्ववत् । यद्येकदा सर्ववेदारम्भस्तदाज्यभागानन्तरं क्रमेण प्रतिवेदमुक्ताहुतिद्वयं हुत्वा ब्रह्मणे छन्दोभ्य इत्याहुतिद्वयं च हुत्वा प्रजापतय इत्यादिसप्तमन्त्रैर्जुहुयात् । घनन्तरं महाव्याहृत्यादिस्विष्टकृदन्ता दशाहुतीर्जुहुयात् । यथा—
 ओं भूः स्वाहा । इदमग्नये नमः । ओं भुवः स्वाहा । इदं वायवे नमः । ओं स्वः स्वाहा । इदं सूर्याय नमः । एता महाव्याहृतयः ।

तो अन्तरिक्ष और वायुके लिये दो आहुति देके ब्रह्मादि की नव आहुति देवे । यदि सामवेदका आरम्भ करना होतो आज्यभागों के अन्त में दिव और सूर्य के लिये दो आहुति दे के ब्रह्मादि की नव आहुति देवे । यदि अथर्ववेद का आरम्भ करना हो तो आज्यभागों के अन्तमें दिशा और चन्द्रमा के नाम से दो आहुति देकर सब ब्रह्मादि के नाम से नव आहुति देवे । यदि साथ ही सब वेदों के पढ़ने का आरम्भ करना अभीष्ट हो तो आज्यभागों के पश्चात् क्रम से प्रत्येक अग्नादि वेद की दो २ आहुति देकर और प्रत्येक वेदकी दो आहुतियों के अन्तमें ब्रह्म और छन्दोकी दो आहुति देकर प्रजापति आदि की सात आहुति देवे । इस के पश्चात् महाव्याहृतियों से लेकर स्विष्टकृत पर्यन्त दशोहुतियों का होम करे । फिर संस्-

ओं—त्वन्नो अग्ने वरुणास्य विद्वान् देवस्य
 हेडोऽअवयासिसीष्ठाः । यजिष्ठो वंह्नित-
 मः शोशुचानो विश्वा द्वेषाथंसि प्रमंसुग्ध्य-
 स्मत्स्वाहा ॥ १ ॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां न-
 मम । ओं स त्वन्नो अग्नेऽवसो भवोती ने-
 दिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टी । अवयस्व नो
 वरुणथंरराणो वीहि मृडोकथंसुहवो नरधि
 स्वाहा ॥ २ ॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम ।
 ओम्—अयाश्चाग्नेऽस्यनभिश्चस्तिपाश्च स-
 त्यमित्त्वमयाअसि । अया नो यज्ञं वहास्य-
 या नो धेहि भेषजथंस्वाहा ॥ ३ ॥ इदमग्नये
 नमम ॥ ओम्—ये ते शतं वरुण ये सहस्रं
 यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । तेभिर्नोअद्य
 सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः
 स्वाहा ॥ ४ ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे
 विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्कभ्यश्च न
 मम । ओम्—उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदबा-
 धमं विसध्यमथं प्रथाय । अथावयमादित्य

व्रते तवानाग्रसौ अदितये स्याम स्वाहा ॥५॥
 इदं वरुणाय नमः । एताः सर्वप्रायश्चित्ता-
 हुतयः । ओम्-प्रजापतये स्वाहा । इदं प्र-
 जापतये नमः । इति मनसा प्राजापत्यम् ।
 ओम्-अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदमग्नये
 स्विष्टकृते नमः ।

ततः संस्रवं प्राश्य पूर्णपात्रवरयोरन्यतरं ब्रह्मणे दद्यात् ।
 ओमद्य कृतैतद्देदारम्भहीमकर्मणि कृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मक-
 र्मप्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं प्रजापतिदेवतममुकगोत्रायामुक-
 शर्मणे ब्रह्मणे ब्राह्मणाय दक्षिणां तुभ्यमहं सम्प्रददे-इति
 सकल्प्य दद्यात् । ओं स्वस्तीति प्रतिवचनम् । ततः-ओम्
 सुमित्रिया न ध्राप ध्रोपध्वयः सन्तु-इति पवित्राभ्या प्रणी-
 ताजलमानीय तेन शिरः संमृज्य-ओम् दुर्मित्रियास्तरमै
 सन्तु योऽस्मान् द्विष्टि यं च वर्यं द्विष्मः । इति मन्त्रेणैशान्यां
 प्रणीतान्युजोकरणम् । ततः स्तरणक्रमेण बर्हिस्त्याप्यघृ-
 तेनाभिघार्य हस्तेनैव जुहुयात् । ओम्-देवा गातुविदो गातुं
 वित्त्वा गातुमित । मनसस्पत इमं देवयज्ञेऽस्व स्वाहा वाते धाः

वप्राशन करके पूर्णपात्र वा धन दक्षिणा में से एक सकल्प पूर्वक ब्रह्मा को देवे ।
 ब्रह्मा (ओम्-स्वस्ति) कहकर स्वीकार करे । तब (सुमित्रिया न०) मन्त्र से
 पवित्रों द्वारा प्रणीता के जल को अपने शिर में बिड़क के (दुर्मित्रिया०) मन्त्र
 से प्रणीता के श्रेय जल को ईशानकील में टरका देवे । तदनंतर वेदि के सब
 ओर जिस क्रम से कुछ बिड़ायेये वही क्रम से चढ़कर धीमे अभिघाण करके
 (ओम्-देवागातुं) मन्त्रद्वारा हाथ से ही त्यागान्त में होग करदेवे । तब आ-

स्वाहा ॥८॥ इदं वाताय नमम । इति वह्निर्हामः । तत आचार्यो वेदारम्भं कारयेत् । तत्र क्रमः—ओश्म्—भूर्भुवःस्वः—तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्—ओश्म् ॥ इति प्रणवान्तं पठित्वा यथेष्टमेकं द्वौ त्रीन् चतुरो वा वेदान् पाठयितुमारभेत । ततः सप्रणवं स्वस्तिवाचयित्वा त्वाय फलपुष्पसमन्वितब्रह्मचारिदक्षिणकरस्पृष्टेन घृतपूर्णं न सुवेण पूर्णाहुतिं दद्यात् । ओं मूर्धानं दिवो धरति पृथिव्या वैश्वानरमृतप्राजातमग्निम् । कविं समाजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः स्वाहा ॥ इदमग्नये वैश्वानराय नमम । तत उपविश्य सुवेण भस्मानीय दक्षिणानामिकाग्रगृहीतभस्मना ललाटादि स्पृशेत् । ओम्—त्र्यायुपं जमदग्नेः । इति ललाटे । ओम्—कश्यपस्य त्र्यायुपम् । इति ग्रीवायाम् । ओम्—यद्देवेषु त्र्यायुपमिति दक्षिणबाहुमूले । ओम्—तन्नो अस्तु त्र्यायुपमिति हृदि । अनेनैव क्रमेण ब्रह्मचारिललाटादावपि भस्म योजयेत् । तत्र तन्नो इत्यस्य स्थाने तत्ते इत्यूहः कार्यः ॥ इति वेदारम्भः समाप्तः ॥

चार्य शिष्य की वेदारम्भ करावे । प्रथम आदि में प्रणव तदनन्तर आहुति तथा अन्त में केवल प्रणव ऐसे गावत्री मात्र का उच्चारण करके पश्चात् एक दो तीन वा चारो वेदो को पढाने का आरम्भ करे । तत्र आचार्य कहे (ओ स्वस्ति—इति श्रूति) ब्रह्मचारी (ओ स्वस्ति) कहे । तदनन्तर आचार्य ठठ चढा होके घाँसे भरे फल फूलो सहित सुधा को ब्रह्मचारी के दहिने हाथ से पकड़वाके (मूर्धानं०) सत्र से पूर्णाहुति दिलावे । तदनन्तर घैठकर सुधा के मूलद्वारा भस्म टेके दहिने हाथ की अनामिका अङ्गुली के अग्रभाग से अपने ललाटादि प्रङ्गी में भस्म लगावे । (त्र्यायुपम्०) से ललाट में (कश्यपस्य०) से कण्ठ में (यद्देवेषु०) से दक्षिण बाहु मूल में और (तन्नो अस्तु०) से हृदय में भस्म लगावे । इसी क्रम से ब्रह्मचारी के ललाटादि में भी भस्म लगावे । ब्रह्मचारी के भस्म लगाते समय (तन्नो) के स्थान में (तत्ते) धोले ॥ इति वेदारम्भः समाप्तः ॥

अथ समावर्तनम् ॥

ब्रह्मचारी साङ्गमेकंद्वी सर्वान् वा वेदान् नियमेनाधीत्य समावर्तनं चिकीर्षुर्गुरुमाचार्यमर्थदानेन सम्पूज्याचार्येणानुज्ञातः शुभदिने समावर्तनं कुर्यात् । ब्रह्मचारी कृतनित्याक्रियः कृतप्रातरग्निकार्यश्चाचार्यसन्निधावासीत् । तदा कृतस्नानादिक्रियश्चाचार्यः प्राणानाद्यभ्य देशकालौ स्मृत्वाऽस्य ब्रह्मचारिणो गृहस्थाद्याश्रमान्तरप्राप्तिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं समावर्तनाख्यं कर्माहं करिष्येति संकल्पं कुर्यात् । ततो ब्रह्मचारी प्रह्वीभूयाहं स्नास्यामीत्याचार्यं वदेत् । स्नाहीत्याचार्येणोक्ते ब्रह्मचारी गुरोः पादौ स्पृशेत् । ततो ब्रह्मचारिणि, आचार्यसन्निहितदक्षिणादिश्युपविष्टे आचार्यः कुशैर्हस्तमात्रां भूमिं परिसमुह्य कुशानैशान्यां परित्यज्य गोमयोदकेनोपलिप्य स्त्रुवमूलेनीत्तरीत्तर-त्रमेण त्रिसुलिलरय-उलले-

भा०-अथ समावर्तन संस्कार का विधान दिताते हैं-ब्रह्मचारी अङ्गो सहित एक दो या सब वेदों को नियमों के साथ पठ के समावर्तन करना चाहता हुआ प्रथम धन वस्त्रादि पदार्थ दे के आचार्य का पूजन करके आचार्य की आज्ञा से के शुभ दिनमें समावर्तन करे । समावर्तन के दिन प्रातः काल ब्रह्मचारी शौच खान सन्निधाधानादि नित्यकर्म करके आचार्य के समीप आकर बैठे । तब स्नानादि जिस ने प्रथम ही कर लिये हो ऐसा आचार्य प्राणायाम कर देश काल के स्मरण पूर्वक समावर्तन का संकल्प करे । तदनन्तर ब्रह्मचारी आचार्य से झुक कर कहे कि (अहं स्नास्यामि) आचार्य कहे (ज्ञाहि) तब ब्रह्मचारी गुरु के चरणस्पर्श करे । तदनन्तर आचार्य से दक्षिण अग्नि से पश्चिम पूर्वोभिमुख ब्रह्मचारी बैठे और आचार्य कुशों से होमार्थ भूमि का परिसमूहन कर कुशों को स्थानदिशा में फेंक कर गोबर और जल से लीप कर स्त्रुव के मूल से प्रागायत

स्वनक्रमेणोद्भृत्य जलेनाभ्युक्ष्याग्निमानोयाभिमुखंस्थापये-
त् । ततः पुष्पचन्दनताम्बूलवासांस्यादाय-ओमद्यांमुकशर्मणः
कर्त्तव्यसमावर्त्तनहोमकर्मणि कृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्म क-
र्त्तुममुकगोत्रममुकशर्माणं ब्राह्मणमेभिः पुष्पचन्दनताम्बूल
वासोभिर्ब्रह्मत्वेन त्वामहं वृणो । इति ब्रह्माणं वृणुयात् ।
ओम्-वृतोस्मीति प्रतिवचनम् । ततोऽग्नेर्दक्षिणतः शुद्ध-
मासनं निधाय तदुपरि प्रागग्रान्कुशानास्तीर्य ब्रह्माणमग्नि
प्रदक्षिणं कारयित्वाऽस्मिन् कर्मणि त्वं मे ब्रह्मा भवेत्यभि-
धाय भवानीति तेनोक्ते तदुपरि ब्रह्माणमुदङ्मुखमुपवेश-
येत् । ततः प्रणीतापात्रं पुरतः कृत्वा वारिणा परिपूर्णं
कुशैराच्छाद्य ब्रह्मणो मुखमवलोक्याग्नेरुत्तरतः कुशोपरि
निदध्यात् । ततः परिरतरणम्-वर्हिषश्चतुर्थभागमादाया-
ग्नेयादीशानान्तं, ब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तम् । नैर्ऋत्याद्वायव्या-

उदङ्मुखं स्थित होकर, उत्तरेतानक्रम से मट्टी का उद्धारण कर जलसे अभ्युक्षण
करे ऐसे पंचभूतसंस्कार करके लौकिक अग्नि को लाकर स्थापित करे फिर पुष्प
चन्दन ताम्बूल घस्त्रादि हाथ में ले के (ओमद्यां) इत्यादि संकल्प घाषप पढ़ के
कि अमुक ब्रह्मचारी के समावर्त्तन होम कर्म में मैं तुम को ब्रह्मा करके वरण
करता हूँ । ऐसे संकल्प पूर्णक ब्रह्मा का वरण करे । और पुष्पादि ब्रह्मा के
हाथ में देवे । ब्रह्मा पुष्पादि को लेकर (वृतोऽस्मि) कहे । तब अग्नि से
दक्षिण में शुद्ध आसन चौकी आदि विद्याकर उस पर पूर्ण को लिन का अग्र-
भाग हो ऐसे कुछ विद्याकर ब्रह्मा को अग्नि की प्रदक्षिणा कराके (अस्मिन्
कर्मणि त्वं मे ब्रह्मा भव) इस कर्म में तुम मेरे ब्रह्मा हो ऐसा कह कर ब्रह्मा
के (भवानि) कहने पर उस आसन पर ब्रह्माको उत्तराभिमुख बैठकर प्रणीता-
पात्र को नामने रण के जल के भर के कुशों से आच्छादन कर ब्रह्मा का मुख
अग्रलोकन करके अग्नि से उत्तर में कुशों पर प्रणीतापात्र को प्रागग्र रखे । तद-
नन्तर चार मुट्टी कुछ लेकर अग्निके सय और परिरतरण करे-एक चौपाई कुछ

न्तमग्निः प्रणीतापर्यन्तम् । ततोऽग्नेरुत्तरतः पश्चिमदिशि
 पवित्रच्छेदनार्थं कुशत्रयं पवित्रकरणार्थं सायमनन्तर्गमं
 कुशपत्रद्वयम् । प्रोक्षणीपात्रमाज्यस्थाली संमार्जनकुशाः ।
 उपयमनकुशाः । समिधस्तिस्रः । सुव आज्यम् । समिन्धन-
 काष्ठानि, समिधः । पर्युक्षणार्थमुदकम् । हरितकुशाः । अष्टा-
 बुदकुम्भाः । औदुम्बरं द्वादशाङ्गुलं दन्तधावनकाष्ठं ब्राह्मण-
 स्य, दशाङ्गुलं क्षत्रियस्याष्टाङ्गुलं वैश्यस्य । दधि । नापितः ।
 रनानार्थमुदकम् । उद्वर्तनद्रव्यं चन्दनमहते वाससी । यज्ञो-
 पवीते । पुष्पाणि । उष्णीषं कर्णालङ्कारौ । अञ्जनमादर्शः,
 नूतनं क्षत्रमुपानहौ च नव्ये । वैश्वो दण्डः । पूर्णपात्रम्,
 पवित्रच्छेदनकुशानां पूर्वपूर्वदिशि त्रयेणासादनीयम् । इति
 पात्रासादनम् । ततः पवित्रच्छेदनकुशैः पवित्रे क्षिप्त्वा स-
 पवित्रकरेण प्रणीतोदकं त्रिः प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षिप्यानामि-

अग्निकोण से ईशान दिशा तक, द्वितीय भाग दक्षिण के आसन से अग्निपर्यन्त
 तृतीय भाग नैऋत्यकोण से वायुकोण पर्यन्त चौथा अग्नि से प्रणीतापर्यन्त बि-
 छाये । तदनन्तर अग्निसे उत्तर में प्रावहंस्य पात्रासादन करे । पवित्र छेदनार्थ
 तीन कुश तथा पवित्रकरणार्थ अग्रभाग सहित जिन के भीतर अन्य कुश न हो
 ऐसे दो कुश, प्रोक्षणीपात्र, आश्वस्थाली, संमार्जनकुश, उपयमनकुश टाक की तीन
 । समिधा, सुव, आज्य, अग्नि के परिसमूहनार्थं शुष्क गोमय वा समिधा । पर्युक्षणार्थ
 जल, हरे कुश, आठ जल भरे घडा वा सकोरा, १२ अङ्गुल गूलर की लकड़ी की
 दातोन ब्राह्मण को दश अङ्गुल की क्षत्रिय को और आठ अङ्गुल की वैश्य को
 रखें । दही, भाई, खानार्थ जल, उबटने का वस्तु, चन्दन, नये रुजे दो वस्त्र,
 दो यज्ञोपवीत, पुष्प, पगडी, कुण्डल, अञ्जन, दर्पण, नया छाता, नयेजूते, एक
 बांस की छड़ी, पूर्णपात्र, पवित्रच्छेदन कुशों से पूर्वपूर्व क्रम से नय का स्थापन
 उत्तर को अग्रभाग कर करे । तदनन्तर पवित्रच्छेदनार्थ तीन कुशों से प्रादेशमात्र
 दो कुशों का छेदन करके पवित्र सहित दहिने हाथ से प्रणीता के जलको तीन

काङ्गुष्ठाभ्यां गृहीतपवित्राभ्यां तज्जलं किञ्चित् त्रिरुत्क्षिप्य
 प्रणीतोदकेन प्रोक्षणीपात्रं त्रिरभिषिच्य प्रोक्षणीजलेनासा-
 दितवस्तुसेचनं कृत्वाऽग्निप्रणीतापात्रयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रं
 निदध्यात् । आज्यस्यात्यामाज्यनिर्वापोऽधिश्रयणं ततः कु-
 शान् प्रज्वालयाज्योपरि प्रदक्षिणं भ्रामयित्वा बह्वी तत्प्र-
 क्षिप्य सुवं त्रिः प्रतप्य सम्मार्जनकुशानामग्रैरन्तरती मू-
 लैर्वाह्यतः सुवं संमृज्य प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य पुनस्त्रिः प्रत-
 प्याग्नेर्दक्षिणतो निदध्यात् । ततः आज्यमग्नेरवतार्य त्रिः
 प्रोक्षणीवदुत्पूयावेक्ष्य सत्यपद्रव्ये'तन्निररय पुनः प्रोक्षयु-
 त्पवनम् । ततउत्थायोपयमनकुशान् वामहस्ते कृत्वा प्रजा-
 पतिं मनसा ध्यात्वा तूष्णीं घृताक्तास्तिस्रः समिधोऽग्नी

चार प्रोक्षणीपात्र में डालकर अनामिका और अङ्गुष्ठ से पकड़े हुये पवित्रो से उस
 प्रोक्षणीस्य जल का उत्पवन कर और प्रणीता के जल से प्रोक्षणीस्य जल का
 पवित्रो द्वारा तीन बार अभिषेचन करके प्रोक्षणीपात्र के जल से आसादन किये
 आज्यस्थाली आदि का सेचन करके अग्नि और प्रणीतापात्र के बीच में प्रोक्ष-
 णीपात्र को रख देवे । तब आज्यस्थाली में घृतपात्र से घृत गिराके अग्नि पर
 तपने को रक्ते तदनन्तर सूखे कुश जलाकर घी के ऊपर प्रदक्षिण क्रम से भ्रमण कराके
 अग्नि में जलते कुश फेंक कर सुवा को तीन बार अग्नि में तपा के सम्मार्जन
 कुशो के अग्रभाग से भीतर की ओर कुशो के मूल भाग से बाहर की ओर सुवा
 को काङ्गु पीछे शुरुकर तथा प्रणीता के जल से सेचन करके और फिर तीनबार
 तपा के अग्नि से दक्षिण की ओर सुवा को धरदेवे । तत्पश्चात् तपते हुए घी को
 अग्नि से उत्तर के तीनबार प्रोक्षणी के तुल्य पवित्रों से घी का उत्पवन करके
 देवे यदि घृत में कुछ निकल वस्तु हो तो निकाल कर फेंक देवे और फिर
 तीन बार प्रोक्षणीपात्र का उत्पवन करे । तदनन्तर ठठ कर उपयमनकुशो की
 वाम हाथ में लेके प्रजापति का मन से ध्यान करके घृत में डुबोई तीन समि-
 धाओं को तूष्णीं बिना मन्त्र पढ़े एक २ कर अग्नि में चढावे । फिर बैठ कर

प्रक्षिपेत् । पुनरुपविश्य सपवित्रप्रोक्षणयुदकेन प्रदक्षिणाक्रमेणाग्निमुदकसंस्थं पर्युक्ष्य प्रणीतापात्रे पवित्रे निधाय प्रोक्षणीपात्रं विसर्जयेत् । ततः पातितदक्षिणजानुर्ब्रह्मणान्वारव्यः समिद्धुतमेऽग्नौ सुवेणाज्याहुतीर्जुहुयात् । तत्र तत्तदाहुत्यानन्तरं सुवावस्थितघृतशेषस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः—

ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम । इति मनसा । ओम्—इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय न मम । इत्याघारी । ओमग्नये स्वाहा । इदमग्नये न मम । ओम्—सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय न मम ॥ इत्याज्यभागौ ।

तत आज्यभागानन्तरम् । यदि ऋग्वेदमधीत्य स्नायात् तदा—ओम्—पृथिव्यै स्वाहा । इदं पृथिव्यै नमम । ओमग्नये स्वाहा । इदमग्नये न मम । इत्याहुतिद्वयानन्तरम्—ओम्—

पवित्रघटित प्रोक्षणी के जल को प्रदक्षिणाक्रम से ईशान कोण से लेकर उत्तर दिशा तक अग्नि के सब ओर सेवन करे अर्थात् प्रोक्षणीपात्र का सब जल पर्येक्षण में मिरा देवे । प्रणीतापात्र में दोनो पवित्ररसके प्रोक्षणी पात्र का विसर्जन करे । तदनन्तर दक्षिने घोटू को भूमि में टेक कर ब्रह्मा से अन्वारव्य हुआ ब्रह्मचारी प्रवर्तित अग्नि में रुषा से आज्याहुतियो का होम करे । बदा २ उत्तर आहुति के देने पश्चात् रुषा में जो घृतविन्दु बचे उन को प्रोक्षणीपात्र में डालता जावे । प्रजापति का मन से भयाम कर पूर्वाघार की तृष्णी आहुति देवे । त्याग श्व का ब्रह्मचारी स्वय घोसता जाय । तदनन्तर आपार की दो और आज्यभाग की दो आहुति देवे ।

इस प्रकार आज्यभागो के पश्चात् यदि ऋग्वेद को पठ समाप्त करके स्नान करे तो पवित्री और अग्निके लिये दो आहुति देकर ब्रह्मादिकी नी आहुति करे ।

ब्रह्मणे स्वाहा । इदं ब्रह्मणे न मम । ओम्-ऋन्दीभ्यः स्वाहा । इदं ऋन्दीभ्यो न मम । ओम्-प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम । इति मनसा प्रजापत्यम् । ओम्-देवेभ्यः स्वाहा । इदं देवेभ्यो न मम । ओम्-ऋषिभ्यः स्वाहा । इदं ऋषिभ्यो न मम । ओम्-ऋद्धायै स्वाहा । इदं ऋद्धायै न मम । ओम्-मेधायै स्वाहा । इदं मेधायै न मम । ओम्-सदसस्पतये स्वाहा । इदं सदसस्पतये न मम । ओम्-मनुमतये स्वाहा । इदं मनुमतये न मम । यदि यजुर्वेदं समाप्य स्नायात्तर्हि-ओम्-मन्तरिक्षाय स्वाहा । इदं मन्तरिक्षाय न मम । ओम्-वायवे स्वाहा । इदं वायवे न मम । इत्याहुतिद्वयानन्तरं ब्रह्मण इत्यादिनवाहुतीर्जुहुयात् । यदि सामवेदं समाप्य स्नायात् तदा-ओम्-दिवे स्वाहा । इदं दिवे न मम । ओम्-सूर्याय स्वाहा । इदं सूर्याय न मम । इत्याहुतिद्वयं हुत्वा ब्रह्मण इत्यादिनवाहुतीर्जुहुयात् । यद्यथर्ववेदं समाप्य स्नायात् तदा-ओम्-दिग्भ्यः स्वाहा । इदं दिग्भ्यो न मम । ओम्-चन्द्रमसे स्वाहा । इदं चन्द्रमसे न मम । इत्याहुतिद्वयं हुत्वा ब्रह्मण इत्यादिनवाहुतीर्जुहुयात् । यदि सर्वान् वेदानधीत्य समाप्य स्नायात्तदाऽऽज्यभागानन्तरं प्रतिवेदं क्रमेण वेदाहुतिद्वयं

यदि यजुर्वेद को समाप्त करके स्नान करे तो अन्तरिक्ष और वायु के नाम से दो आहुति देकर ब्रह्मादि की नी आहुति देवे । यदि सामवेद को समाप्त करके स्नान करे तो दिग् ओम् सूर्य के लिये दो आहुति देकर ब्रह्मादि की नी आहुति करे । यदि अथर्ववेद को समाप्त करके स्नान करे तो दिग् और चन्द्रमसे के नाम से दो आहुति देकर ब्रह्मादि की नी आहुति देवे । यदि सथ वेदों को पठ समाप्त करके स्नान करे तो आज्यभागों के पश्चात् प्रत्येक वेद की क्रम से दो र

त्यमित्त्वमयात्रसि । अया नो यज्ञं वहस्य-
या नो धेहि भेषजं स्वाहा ॥३॥ इदं मग्नये
न मम ॥ ओम्-ये ते शतं वरुणं ये सहस्रं
यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । तेभिर्नो अद्य
सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः
स्वाहा ॥ ४ ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे
विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च न-
मम ॥ ओम्-उदुत्तमं वरुणपाशमस्मद्बा-
धमं विमध्यमथंप्रथाय । अथावयमादित्य
व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥५॥
इदं वरुणाय न मम । एताः सर्वप्रायश्चित्ता-
हुतयः । ओम्-प्रजापतये स्वाहा । इदं प्र-
जापतये न मम । इति मनसा प्राजापत्यम् ।
ओम्-अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदं मग्नये
स्विष्टकृते न मम । इति स्विष्टकृद्दोमः ॥

ततः संस्रवप्राशनम् । ततश्चाचम्य-ओमद्यकृतैतत्समा-
वर्त्तनहोमकर्मणि कृताकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थमिदं
पूर्णपात्रं प्रजापतिं दैवतममुकगोत्रायामुकशर्मणो ब्राह्मणाय
ब्रह्मणो दक्षिणां तुभ्यमहं सम्प्रददे । इति दक्षिणां दद्यात् ।

संस्रवप्राशन कर आचमन करके (ओमद्य०) इत्यादि संकल्प पुर्यंक ब्रह्मा को

ओं स्वस्तीति प्रतिवचनम् । ततः पवित्राभ्यां प्रणीताजलेन-
 ओंसुमित्रियां न आप ओषधयः सन्तु । इति मन्त्रेण स्वशिरः
 संमृज्य-ओंदुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं
 द्विष्मः । इति मन्त्रेणैशान्यां प्रणीतान्युव्जीकुर्यात् । ततः
 रतरणक्रमेण वह्निंरुत्थाप्य घृतेनाभिषार्य हस्तेनैव जुहुयात् ।
 : ओम्-देवा गातुविदो गातुं वित्वा गा-
 तुमित । मनसस्पत इमं देवयज्ञं स्वाहा वा
 तेधाः स्वाहा ॥

इदं वाताय नमः । इति वह्निंहीमः । ततो ब्रह्मचारी
 पादोपसंग्रहणपूर्वकं गुरुं नमस्कृत्य परिसमूहनादि त्र्यायु-
 पकरणान्तं समिदाधानमग्निमपरेणोपविष्टस्तस्मिन्नेवाग्नी
 ब्रह्मणान्वारब्धः कुर्यात् । तत्र घृताक्तशुष्कनिषिद्धेतरन्ध-
 नेन पञ्चाहुतीहस्तेनैव जुहुयात्-

ओमग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु स्वाहा ।
 ओं यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि स्वाहा

दक्षिणा देव (ओ स्वस्ति०) कह कर ब्रह्मा दक्षिणा का स्वीकार करे । तब पवित्रो
 द्वारा प्रणीता का जल लेके (सुमित्रिया०) मन्त्र से छपने शिर पर मर्जन
 करे और प्रणीता के शेष जल को (दुर्मित्रिया०) मात्र द्वारा ईशान कीश में
 गिरा देवे तदनन्तर जिस क्रम से विद्याये वे उसी क्रम से नय कुशों को उठा
 कर घृत से अभिषारण करके (देवा गातु०) मन्त्र द्वारा हाथ से ही अग्नि में
 होम कर देवे । तदनन्तर ब्रह्मचारी आचार्य को शरणार्थी पूर्वक नमस्कार कर
 के अग्नि से पश्चिम में बैठा हुआ उसी अग्नि में ब्रह्मा के अन्वारम्भ करने पर
 अग्नि परिसमूहनादित्र्यायुप करण धर्मन्त समिदाधान करे । वहा प्रथम यज्ञ में
 निषिद्ध ईधन से निम्न सूखे ईधन को घी में हुयो न कर (अग्नेसुश्रव ०) आदि

ओमेवं माथं सुश्रवः सोश्रवसं कुरु स्वा-
हा । ओं-यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्यं नि-
धिषा असि स्वाहा । ओमेवमहं मनुष्याणां
वेदस्य निधिषो भूयासथं स्वाहा ॥

यदि हस्तेन परिसमूहनं-संधुक्षणं कुर्यात्तदा स्वाहापदं
नोच्चारयेत् । ततः प्रदक्षिणमग्निमीशानकीणादारभ्योत्तर-
पर्यन्तं वारिणां पर्युक्ष्योत्थाय घृताक्तां प्रादेशमितां समि-
धमादायाग्नये समिधमिति जुहुयात्-

ओं-अग्नये समिधमाहार्षं बृहते जात-
वेदसे । यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यसृष्ट-
महमायुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्र-
ह्मवर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्या मे-
धाव्यहमसान्यनिराकरिष्णुर्यशस्वी तेजस्वी
ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भूयासम् ॥ एषा ते अग्ने स-
मित्तया वर्द्धस्व चाचप्यायस्व वर्द्धिषीमहि चं
वयमा च प्यासिषीमहि स्वाहा ॥

मन्त्रों से पाच आहुति हाथ से ही देवे । यदि हाथ से धोके तो उक्त पाँचों
मन्त्रों में स्वाहा पद नहीं बोलना चाहिये । तदनन्तर अग्नि के प्रदक्षिणक्रम
से (ईशान कीण से आरम्भ कर उत्तर पर्यन्त) सब ओर जलसेचन करके वट
कर घृत में जुझे दशमहुन की एक समिधा को हाथ में लेकर (अग्नये स-
मिधम्) मन्त्र से होम करे । तदनन्तर अग्न्य भी दो समिधाओं का इषी

ओं स्वस्तीति प्रतिवचनम् । ततः पवित्राभ्यां प्रणीताजलेन-
 ओंसुमित्रियां न आप ओषधयः सन्तु । इति मन्त्रेण स्वशिरः
 संमृज्य-ओंदुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं
 द्विष्मः । इति मन्त्रेणैशान्यां प्रणीतान्युव्जोकुर्यात् । ततः
 स्तरंशक्रमेण बर्हिस्तथाप्य घृतेनाभिघार्य हस्तेनैव जुहुयात् ।

ः ओम्-देवां गातुविदो गातुं वित्त्वा गा-
 तुमित । मनसस्पत इमं देवयज्ञथं स्वाहा वा
 तेधाः स्वाहा ॥

इदं वाताय न मम । इति बर्हिर्होमः । ततो ब्रह्मचारी
 पादोपसंग्रहणपूर्वकं गुरुं नमस्कृत्य परिसमूहनादि त्र्यायु-
 पकरणांतं समिदाधानमग्निमपरेणोपविष्टस्तस्मिन्नेवाग्नी
 ब्रह्मणान्वारधयः कुर्यात् । तत्र घृताक्तशुष्कनिषिद्धेतरन्ध-
 नेन पञ्चाहुतीर्हस्तेनैव जुहुयात्-

ओमग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु स्वाहा ।

ओं यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि स्वाहा

दक्षिणा देव (ओं स्वस्ति०) कहं कर प्रह्ला दक्षिणा का स्वीकार करे । तथ पवित्रों
 द्वारा प्रणीता का जल लेके (सुमित्रिया०) मन्त्र से अपने शिर पर मार्जन
 करे और प्रणीता के शेष जल को (दुर्मित्रिया०) मन्त्र द्वारा ईशान कोण में
 गिरा देवे तदनन्तर जिस ऋम से विद्याये से उंची ऋम से सब कुशों को उठा
 कर पत से अभिषारण करके (देवा गातु०) मन्त्र द्वारा हाथ से ही अग्नि में
 होम कर देवे । तदनन्तर ब्रह्मचारी आचार्य को चरणोपर्यं पूर्वक नमस्कार कर
 के अग्नि से पश्चिम में बैठे हुआ उसी अग्नि में प्रह्ला के अन्वारम्भ करने पर
 अग्नि परिसमूहनादित्र्यायुप करण पर्यन्त समिदाधान करे । वहा प्रथम यज्ञ में
 निषिद्ध ईंधन से भिन्न सूखे ईंधन को घी में हुयी २ कर (अग्नेसुश्रवः०) आदि

ओमेवं माथं सुप्रवः सौप्रवसं कुरु स्वा-
हा । ओं-यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य नि-
धिपा असि स्वाहा । ओमेवमहं मनुष्याणां
वेदस्य निधिपो भूयासथं स्वाहा ॥

यदि हस्तेन परिसमूहनं-संधुक्षणं कुर्यात्तदा स्वाहापदं
नोच्चारयेत् । ततः प्रदक्षिणमग्निमीशानकीणादारभ्योत्तर-
पर्यन्तं वारिणा पर्युक्ष्योत्थाय घृताक्तां प्रादेशमितां समि-
धमादायाग्नये समिधमिति जुहुयात्-

ओं-अग्नये समिधमाहार्षं बृहते जाल-
वेदसे । यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस्रव-
महमायुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्र-
ह्मवर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो अ-
धाव्यहमसान्यनिराकरिष्णुर्यशस्वी तेजस्वी
ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भूयासम् ॥ एषा ते अग्ने स-
मित्तया वर्द्धस्व चाचप्यायस्व वर्द्धिषीमहि च
वयमा च प्यासिषीमहि स्वाहा ॥

मन्त्रों से पाच ज्वाहुति हाथ से ही देवे । यदि हाथ से धोके तो उक्त पांचों
मन्त्रों में स्वाहा पद नहीं बोलना चाहिये । तदनन्तर अग्नि के प्रदक्षिणक्रम
से (ईशान कीण से आरम्भ कर उत्तर पर्यन्त) सध और जलसेवन करके ठठ
कर घृत में डुगोई दशप्रद्वल की एक समिधा को हाथ में लेकर (अग्नये स-
मिधम्०) मन्त्र से होम करे । तदनन्तर अन्य भी दो समिधाओं का इही

ततः समिदन्तरद्वयमनेनैव मन्त्रेणैकैकां हुस्वा-
विश्य-अग्नेसुश्रवहृति पञ्चमन्त्रैः पूर्ववदग्निपरिसमूहनं कुर्यात् । ततोऽग्निं प्रदक्षिणां वारिणा पर्युक्ष्य तूष्णीं पाणी प्रतप्य तनूपाइति प्रतिमन्त्रान्ते मुखमवमृशेत् ॥

ओं-तनूपाअग्नेऽसि तन्वं मे पाहि । ओं-
आयुर्दा अग्नेऽस्यायुर्म देहि । ओ-वर्चादा
अग्नेऽसि वर्चा मे देहि । ओं-अग्ने यन्मे
तन्वा ऊनं तन्म आपण । ओं-मेधां मे देवः
सविता आदधात् । ओं-मेधां मे देवी सर-
स्वती आदधात् । ओं-मेधां मे अश्विनो
देवावाधतां पृक्करसृजो ॥

ततोऽङ्गानि च म इति दक्षिणापाणिना सर्वगात्राणि स्पृशेत् ।

ओं-अङ्गानि च मन्त्राध्यायन्ताम् ॥

ततः प्रतिमन्त्रान्ते तन्ते नमो स्पृशेत् ।

ओ-वाक्चमन्त्राध्यायताम् । इति मुखम् ।

ओं-प्राणश्चमन्त्राध्यायताम् । इति नासिकाच्छिद्रे

प्रकार इसी मन्त्रको दो बार पढ़ने के अग्यदोसमिधाका होम करने के लिए बैठ के (अग्ने सुश्रव) इत्यादि पाच मन्त्रों से पूर्ववत् अग्नि का परिमूर्द्धन करे अथवा धीके । फिर पूर्ववत् अग्नि का पर्युक्षण कर अर्थात् सश और जलसेवन करके बिना मन्त्र पढ़े हाथ तथा २ कर (तनूपा०) इत्यादि प्रत्येक मन्त्र के अन्त में मुख का स्पर्श करता जाये । तदनन्तर (अङ्गानि च म०) इत्यादि मन्त्रसे दक्षिण हाथ से सब मन्त्रों का स्पर्श करे । तिस पीछे प्रत्येक मन्त्र के अन्त में ठम २ अङ्ग का स्पर्श करे । (वाक्च०) से मुखका (प्राणश्च०) से नासिका के दोनों छिद्रों का (चतुश्च०)

ओं-चक्षुश्चमत्राप्यायताम् । इति सहैव चक्षुर्द्वयम्
ओम्-श्रोत्रं च म आप्यायताम् ।

इति दक्षिणकरेणैव श्रोत्रद्वयमादौ दक्षिणं ततो वामम् ।
भेदे मन्त्रावृत्तिः सान्निपात्यात् ।

ओं यशोबलंचमत्राप्यायताम् ।

इति मन्त्रपाठमात्रं कार्यम् ।

ततो दक्षिणकरानामिकाग्रगृहीतमस्मना ललाटादिकं स्पृशेत् ।

ओं ज्यायुपं जमद्गनेः । इति ललाटे ।

ओंकश्यपस्य ज्यायुपम् । इति कण्ठे ।

ओम्-यद्वेवेषु ज्यायुपम् । इति दक्षिणबाहुमूले ।

ओम्-तन्नोअस्तुज्यायुपम् ।

इतिहृदि । ततो निमीलितचक्षुर्मनसा पूर्वं सर्वत्र व्या-
पिनं वैश्वानरमेवं वरुणं चाभिधाद्याचार्यमभिधादयेत् । तत-

सो एक माघ दोनों आरों का और (श्रोत्रं च म०) से दहिने ही हाथ से दोनों
कानो पर प्रथम दहिने तदनन्तर धामे का स्पर्श करे और दोनों कान के पृ-
थक् २ स्पर्श में दो बार मात्र पठना चाहिये । तदनन्तर (यशो०) मन्त्र का
पाठ मात्र करे । तिस्र पीछे दहिने हाथ की अनामिका अङ्गुलि के अग्रभाग से
प्रदण किये भस्म से ललाटादि अङ्गों का स्पर्श करे (ज्यायुपं०) से मस्तक में
(कश्यपस्य०) से कण्ठ में (यद्वेवेषु०) से दहिने बाहु के मूल में और (तन्नो०)
से हृदय में भस्म लगावे । तब तल्लु बन्द करके प्रथम सर्वत्र व्यापक वैश्वानर
और वरुण नामक परमात्मा को हाथ जोड़ अभिधादन करके आचार्य को अभि-
धादन करे । अभिधादन में (अमुकगोत्रोऽमुकप्रवरोऽमुकशर्मणं भोरत्पानभिधा-

आयुमान् भव सौम्यइत्याचार्यो ब्रूयात् । ततोऽग्नेरुत्तरतः
प्राग्ग्रान् कुंशानारतीर्थं तदुपरि दक्षिणोत्तरकुमेणासादिता-
मलवारिपूर्णाकलशाष्टतये कलशानां पुरस्तात्प्राग्ग्रेषु कुशेषु
स्थित्वा एकस्मादास्रपल्लवेन-

ओं येऽपस्वन्तरग्नयः प्रविष्टा गोह्यउप-
गोह्यो मयूषो मनोहास्खलो विरुजस्तनूदूषु-
रिन्द्रियहा तान्विजहामि यो रोचनस्तमिह
गृह्णामि ॥ इति मन्त्रेणापो गृहीत्वा-

ओं तेन मामभिषिञ्चामि श्रियै यशसे
ब्रह्मवर्चसाय ॥

इत्यात्मानमभिषिञ्चेत् । ततो द्वितीयघटस्यमुदकं ये
अपस्वन्तरग्नयइति मन्त्रेणास्रपल्लवेन गृहीत्वा-

ओं येन श्रियमकृणुतां येनाक्षमृशताथंसुराम् ।
येनाद्यावभ्यषिञ्चतां यद्वां तदश्रिना यशः ।

इति मन्त्रेणाभिषिञ्चेत् । ततस्तेनैव क्रमेण ये अपस्व-
न्तरग्नयः इत्यनेन तृतीयकलशस्थं जलमादाय-

दये) ऐसा षाष्य धोले और षाष्य एकके उत्तर में (आयुमान् भव सौम्य) ऐसा
षाष्य कहे । तदनन्तर अग्नि से उत्तर में प्राग्ग्रान् कुशों पर दक्षिण
से उदकस्थ निर्मल जल से भरे छाठ घडे वा सकोरे परे और घडो से पूर्व में प्राग्ग्र
विद्याये कुशों पर दक्षिणचारी उदकमुख खड़ा होके प्रथम कलशमें आम के पत्ते
द्वारा (ये अपस्वन्तरः) मन्त्र से जन ग्रहण करके (तेन माः) मन्त्र से अपने ऊपर
अभिषेक करे । तदनन्तर द्वितीय कलशस्थ जल को (ये अपस्वन्तरः) इसी मन्त्र से
आम के पत्ते द्वारा लेके (येन श्रियः) मन्त्र से अपने शरीर पर अभिषेक करे ।

ओमापो हिष्ठा मयोभुवस्तानऊर्जे दधा-
तन । महे रणाय चक्षसे ॥

इति मन्त्रेणाभिपिञ्चेत् । पुनस्तेनैव क्रमेण ये अश्व-
न्त० इति मन्त्रेण चतुर्थकलशस्थं जलमादाय-

ओं-यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजय-
तेह नः । उशतीरिव मातरः-॥

इति मन्त्रेणाभिपिञ्चेत् । पुनः पञ्चमकलशस्थं जलं
येअश्वन्तरग्नयइति मन्त्रेण तथैवादाय-

ओं-तस्मा अरंगमाम वो यस्य क्षयाय
जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥

इति मन्त्रेणाभिपिच्यावशिष्टकलशत्रितयजलं तथैव येअ-
श्वन्तरग्नयइति मन्त्रेण प्रत्येकमादायादाय तूर्णानि प्रत्येक-
मभिपिञ्चेत् । तत उदुत्तममिति शिरोभागेन मेरुलां मोचयेत्-

ओमुदुत्तमं वरुणापाशमस्मदवाधमं वि-
मध्यमथं अथाय । अथावयमादित्य वृते त
वानागसो अदितये स्याम ॥

फिर उसी प्रकार उसी मन्त्र से तृतीय कलश में से जल लेके (आपोहिष्ठा०)
मन्त्र से अपने ऊपर सेचन करे । फिर उसी प्रकार उसी मन्त्र से चौथे चहे में
से जल लेके (यो व शिव०) मन्त्रसे अपने ऊपर सेचन करे । फिर पाचवें कलश
से भी उसी प्रकार उसी मन्त्र से जल लेकर (तस्माअरग०) मन्त्र से अपने ऊपर
सेचन करे । तदनन्तर शेष रहे तीन कलशोंमें से प्रत्येक के जलको (येअश्वन्तर०)
मन्त्र से ही तीन बार ले कर प्रत्येक से तूर्णानि चिना मन्त्र पढ़े अपने ऊपर
सेचन करे । अब (उदुत्तमं०) मन्त्र पढ़ के शिर के द्वारा मेरुला को निकाल के

ततो ब्रह्मचारी दृग्दृक्कृष्णाजिने तूष्णीं भूमौ निधा-
यान्यद्वस्त्रं परिधायोत्तरीयं च कृत्वाऽऽदित्यमुपतिष्ठेत-

ओं-उद्यन्भ्राजभृङ्गुरिन्द्रो मरुद्भिरस्था-
त् प्रातर्यावभिरस्थाद्दशसनिरसि दशसनिं मा
कुर्वाविदन्मागमय । उद्यन्भ्राजभृङ्गुरिन्द्रो म-
रुद्भिरस्थाद् दिवायावभिरस्थाच्छतसनिर-
सि शतसनिं मा कुर्वाविदन्मागमय । उद्य-
न्भ्राजभृङ्गुरिन्द्रो मरुद्भिरस्थात्सायंयावभि-
रस्थात्सहस्रसनिरसि सहस्रसनिं मा कुर्वा-
विदन्मागमय ॥

ततो दधि तिलान्वा प्राश्याचम्य जटा लीमनखादीं-
श्छेदयित्वा स्नात्वाचम्य प्रादेशमितोदुम्बरकाष्ठेनान्नाद्या-
येति मन्त्रेण दन्तधावनं कुर्यात् ।

ओंमन्नाद्याय व्यहृध्वथं सोमो राजाऽयमाग-
मत् । स मे मुखं प्रमाहृष्यते यशसा च भगेन च ॥

अलग धरे । तदनन्तर ब्रह्मचारी दृग्दृक् और कृष्णाजिन को बिना मन्त्र भूमिपर
५२के अ.म दस्त पहन के और एक अंगीछा बन्धापर डालकर (ओमुद्यन्भ्राज०)
मन्त्र पठ के सूर्य का उपस्थान करे । तदनन्तर धोटे दही वा तिलो को खाकर
जटा लीम और नखोंका नाई से छेदन कराके [ब्रह्मचर्याश्रम में सब बाल और
नख न बटाने का नियम रहता] स्नान कर आचमन करके प्रादेशमात्र १२ अङ्गुल
ममाण गुजर की दातीन (अजाद्याय०) मन्त्र पठ के करे । क्षत्रिय स्नातक

इति दन्तधावनमन्त्रः ॥ ततो दन्तकाष्ठं परित्यज्या-
चम्य सुगन्धिद्रव्येषुद्वर्त्तनं कृत्वा स्नात्वा च द्विषाचम्य
चन्दनकुङ्कुमादिना नासिकाया मुखस्य चालम्बनं कार्यम् ।

ओं प्राणापानी मे तर्पय । ओं चक्षुर्मे त-
र्पय । ओं श्रोत्रं मे तर्पय ॥

इति मन्त्रेणात्रिष्वनुलिम्पेत् । ततो हस्तौ प्रक्षाल्य पाति-
तधामजानुः कृतापसव्यो दक्षिणामुखो द्विगुणभुग्नकुशत्रय-
तिलजलान्यादाय-आसृत्तकुशत्रयोपरि पितृस्तर्पयेत् ।

ओम् पितरः शुन्धध्वम् ॥

ततः सव्यं कृत्वाऽपउपरंपृश्याचम्यसुगन्धिमनुलिप्य जपेत् ।

ओं सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासथं सुवर्चा
मुखेन सुश्रुत्कर्णाभ्यां भूयासम् ॥

ततोऽहृतं वासोऽमौत्रधौतं वा परिधास्याइति परिदधीत ।

ओम्-परिधास्यै यशो धास्यै दीर्घायुत्वाय

ही तो दश अङ्गुल की और वैश्य ही तो आठ अङ्गुल की दातीन करे । तब दातीन को खोद कुल्ला तथा आचमन करके सुगन्धित द्रव्य से सवटन करे । फिर स्नान कर दो बार आचमन करके मिना कर पिसे चन्दन और केशर में (प्राणापानी०) आदि तीन मन्त्रों से नासिका चक्षु और कानों में लगावे । तब हाथ धो बाये घोटू को पृथिवी में टेक कर अपसव्य ही दक्षिण को मुख कर के तीन कुशों को ले द्विगुण कर पृथिवी पर बिछादे फिर तिल और जल लेकर उन कुशों पर पितरों का तर्पण (ओ पितरः०) मन्त्र से करे । फिर सव्य ही, दहिने हाथ में जल स्पर्श करके आचमन कर आठ मुख और कानों में पिसे हुए चन्दन केशर को लगाके (ओं सुचक्षा०) इत्यादि तीन मन्त्रों का जप करे । तदनन्तर,

जरदृष्टिरस्मि शतं च जीवामि शरदः पुरू-
चीरायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये ॥

ततो यज्ञोपवीतमिति द्वितीयं यज्ञसूत्रद्वयं धारयेत्-
ओम्-यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते-
र्यत्सहजं पुरस्तात् । आयुष्यमश्रयं प्रतिमुञ्च
शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥

यज्ञोपवीतमिति प्रजापतिर्ऋषिर्यजुरुपवीतदेवता । यज्ञो-
पवीतपरिधाने विनियोगः ।

ओम् । यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोप-
वीतेनोपनह्यामि ॥

तत आचम्योत्तरीयं वासः परिदधीत-

ओम्-यशसा मा द्यावापृथिवी यशसे-
न्द्रावृहस्पती । यशो भगश्च मा विदद्यशो मा
प्रतिपद्यतान् ॥

एकमेव वासश्चेत्पूर्वस्यैवोत्तरभागेनोत्तरीयधारणम् । ततः-

ओम्-या आहरज्जमदग्निः श्रद्धार्यै मे-

कोरे वस्त्र को वा जो धीधी का धीया ग्हे ऐसे शुद्ध श्चेत वस्त्र को (परिधा-
श्यैः) मन्त्र से धारण करे । तदनन्तर (यज्ञोपवीतं परमं) इत्यादि दो मन्त्रों
से अन्य दो यज्ञोपवीत धारण करे । फिर आचमन करके द्वितीय वस्त्र शंगोद्या वा
हुपट्टा को (यशसा मा०) मन्त्र से ओढ़े । यदि एक ही वस्त्र हो तो वही एक
धीधीका आधा भाग ऊपरी शरीर भाग में ओढ़ लेवे । तदनन्तर (या आहर०)

धायै कामायेन्द्रियाय । ता अहं प्रतिगृह्णामि
यशसा च भगेन च ॥

इति मन्त्रेण पुष्पमालां गृहीत्वा यद्यश इति तां कण्ठे धारयेत् ।

ओम्-यद्यशोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथु ।
तेन संग्रथिताः सुमनस आब्रधनामि यशो मयि ॥

अथ युवासुवासा इत्युष्णीषेण शिरो वेष्टयेत् ।

ओम्-युवा सुवासाः परिवीत आगा-
त्स उ श्रेयान्भवति जायमानः । तं धीरासः
कवय उन्नयन्ति स्वाधयो मनसा देवयन्तः ॥

ततोऽलङ्करणमिति मन्त्रावृत्त्या दक्षिणे वामे च कर्णौ
कुण्डले परिदधीत ।

ओमलङ्करणमसि भूयोऽलङ्करणं भूयात् ॥

ततो वृत्रस्यासीति मन्त्रावृत्त्या प्रथमं वामं ततो दक्षिणं
चक्षुरञ्ज्यात् ।

ओम्-वृत्रस्यासि कनीनकश्चक्षुर्दाश्रसि
चक्षुर्मं देहि । ततः-ओं रोचिष्णुरसि ।

इति मन्त्रेणादर्शं आत्मानं पश्येत् । ततो बृहस्पत इति छत्रग्रहणम्

मन्त्र से पुष्पों की माला को हाथ में लेकर (यद्यशोऽप्सरस) मन्त्र से कण्ठ में धारण करे । फिर (युवा सुवासा) मन्त्र से पगड़ी बांधे तब (अलङ्करणं) मन्त्र को दो बार पढ़के प्रथम दहिने तदनन्तर बांये कान में सुवर्ण के कुण्डल पहिने । तदनन्तर (वृत्रस्यासि) मन्त्र को दो बार पढ़के अक्षुन वा सुरमा दोनों आंशों में लगाये प्रथम वाम चक्षु में तदनन्तर दहिने में लगावे । तदनन्तर

१३२३६
 ॐ वहस्पतेश्छदिरसि घाप्मनो मामन्त-
 घहि । ततः पदभ्यामुपानहै प्रतिगृहणीयात्-

ॐ प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम् ।

ततो वैश्वदग्दधारणम्-

ॐ विश्वाभ्यो मानाष्ट्राभ्यस्परिपाहि सर्वतः॥

दन्धधावनादिकर्माण्यग्रेऽपि नित्यं मन्त्रैः स्नातकेना-
 नुष्ठेयानि । वासश्छत्रोपानहं दग्दश्च यदाऽपूर्वं नूतनं धारये-
 तदा मन्त्रेण । अथ स्नातकस्य नियमाः कामादितरस्यापि
 गानवादित्रनृत्यत्यागः । न तत्र गमनम् । क्षेमे सति न
 रात्रौ ग्रामान्तरं गच्छेत् । न धावेत् । न कपेऽवेक्षेत । वृ-
 क्षारोहणं फलत्रोटनं च न कुर्यात् । अमार्गिणं न गच्छेत् ।
 नग्नो न स्नायात् । न सन्धिवेलायां शयीत् । न विषमभूमिं
 लङ्घयेत् । अश्लीलं वाक्यं नोपवदेत् । उदितास्तमयकाले
 सूर्यं न पश्येत् । जलमध्ये सूर्यच्छायां न पश्येत् । देवे वर्षति

(रोचिष्णु०) मन्त्र पढके दर्दण में अपनी आकृति देखे । फिर (दृहरपतेश्छदिरसि)
 मन्त्र पढके तथे छाता को हाथ में लेंगे । फिर (प्रतिष्ठे स्थो) मन्त्र को दो
 बार पढ करके दोनों पगों में जुते पहिने प्रथम दहिने में फिर धार्यें में । तदनन्तर
 (विश्वाभ्यो०) मन्त्र से वास की ढकी धारण करे । स्नातक पुरुष दन्धधाव-
 नादि कामों के आगे भी नित्य २ मन्त्र से किया करे । परन्तु दृश्य द्यता लूता
 और छड़ी इन को लघ २ नए २ धारण करे तभी मन्त्र पढे । अथ कल्पे से स्ना-
 तक के नियम दिखाते हैं-स्वयं कभी न गाये न यजाये न नाचे और न अन्य
 के गाने यजाने को देखने जाये । कोई हानि न होती हो तो रात्रि में कभी
 ग्रामान्तर को न जाये । न कभी दौड़े । न बुझा में जाके न घुल पर घटे न फल
 मोटे । बिना मार्गके न चले । नङ्गा हाँके खान न करे । प्रायः प्रातः सन्धि काल
 में न सोवे । विषय भूमिका लङ्घन न करे । निर्गुणना के यथन कभी न घीले ।
 उदयास्त समय सूर्य को न देखे । मेघ वर्षते में न गिबले जल में अपनी छाया

न गच्छेत् । उदके नात्मानं पश्येत् । अजातलोम्नीं प्रमत्तां
पुरुपाकृतिं पश्यां च स्त्रियं न गच्छेत् । इत्यादि । तत आ-
चार्याय वरां दक्षिणां दद्यात् । तत उत्थायाचार्यो मूर्धानमिति
मन्त्रेण फलपुष्पसमन्वितघृतपूर्णास्तुवेण स्नातकदक्षिणकर
स्पृष्टेन पूर्णाहुतिं कुर्यात् ।

ओं मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वान-
रमृतआजातमग्निम् । कविथं सस्त्राजमतिथिं
जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः स्वाहा ॥

तत उपविश्य स्तुत्रेण भस्मानीय दक्षिणं करानामिकाग्रगृहीत
भरमना ललाटादि स्पृशेत्-

ओम्-त्र्यायुषं जमदग्नेः । इति ललाटे ।

ओं कश्यपस्य त्र्यायुषम् । इति कशठे ।

ओम्-यद्वेवेषु त्र्यायुषम् । इति दक्षिणवाहुमूले ।

ओं तन्नी अस्तु त्र्यायुषम् ॥

न देसे । जिस के शीम चरपन्न न हुए हों जो पागल हो जिस की घनावट
पुरुष के तुल्य हो जो हिजड़ी हो ऐसी स्त्री से गमन न करे इत्यादि । तदनन्तर
आचार्य को घनरूप अधिक दक्षिणा देवे । फिर आचार्य उड़ा होके फल पुष्पों
सहित घृत भर स्नातक के दहिने हाथ से स्पर्शकराये खुवा से (मूर्धानं)
मग्न पदके पूर्णाहुति देवे । फिर बैठ कर खुवासे भस्म लाकर दहिने हाथ की
अनामिका अङ्गुलि के अग्रभाग से ग्रहण की भस्म से ललाटादि का स्पर्श करे ।
(त्र्यायुषं) से ललाट में (कश्यपस्य) से कशठ में (यद्वेवेषु) से दक्षिण
वाहुकेंमूल में (तन्नी) से हृदय में भस्म लगावे । इसी क्रम से आचार्य स्नातक

इति हृदि। अनेनैव क्रमेण स्नातकललाटादावपि त्र्या-
युपं कुर्यात् । तत्र तन्नो इत्यस्य स्थाने तत्ते इत्यूहः कार्यः ॥

इति समावर्तनं कर्म समाप्तम् ॥

अथ यस्य गर्भाधानादयः संस्काराः पित्रादिना प्रमा-
दादिना न कृतास्तदर्थं विशेषउच्यते—

शौनकः—घ्राग्भ्याधानमाचौलात्कालेऽतीतेतुकर्मणाम् ।

व्याहृत्याज्यंसुसंस्कृत्य हुत्वाकर्मयथाक्रमम् ॥

एतेष्वेकैकलोपेतु पादकृच्छ्रं समाचरेत् ।

चूडायाग्रद्वृकृच्छ्रं स्या—दापदीत्येवमीरितम् ॥

अनापदितुसर्वत्र द्विगुणं द्विगुणंचरेत् ।

कात्यायनः—लुप्तैकर्मणि सर्वत्र प्रायश्चित्तं विधीयते ।

के ललाटादि में भी मसम लगावे । स्नातक के भस्म लगाने में मन्त्रस्य (तन्मो०) के स्थान में (तत्ते) ऊह करे । इति समावर्तनविधिः समाप्तः ॥

भा०—जिस के गर्भाधानादि संस्कार पितादि ने प्रमादादि से नहीं किये उस के लिये विशेषता दी जाती हैं। शौनक ने कहा है कि गर्भाधान से लेकर चूडा-कर्म संस्कार से पूर्व २ जिस का कोई संस्कार न हुआ हो तो पादकृच्छ्रादि व्रत करके अष्टके संस्कार किये पीसे व्याहृतियों द्वारा प्रायश्चित्त की श्राद्धति बालक का पिता देकर उस २ संस्कार को करे। और एक ही एक संस्कार कोई छूटा हो तो बालक का पिता पादकृच्छ्रव्रत करे अर्थात् एक दिन प्रातःकाल एक दि-न सायंकाल और विनमांगे गिमे ती तीसरे दिन एक बार घोड़ा दृविषय भो-जन करे तथा एक दिन निराहार उपवास करे इस प्रकार चार दिन का व्रत कर के उस २ छूटे संस्कार को करे। यदि चूडाकर्म संस्कार छूटा हो तो दो दिन प्रातः काल दो दिन सायंकाल दो दिन विनमांगे और दो दिन उपवास करे इस का नाम अर्द्वृकृच्छ्रव्रत है। इतना प्रायश्चित्त श्रापकाल में संस्कार छूटने पर है यदि श्रापकाल न हो तो इस से दूना २ प्रायश्चित्त करे। कात्यायन

प्रायश्चित्तेकृतेपश्चा-दलुप्तंकर्मसमाचरेत् ॥

मण्डनः-कालातीतेपुसर्वेषु-प्राप्तवत्स्वपरेषुच ।

कालातीतानिकृत्वैव विदध्यादुत्तराखितु ॥

चौलातिरिक्तरय यस्यरय गर्भाधानादिसंस्कारस्य का-
लोऽतीयात्तस्यतस्य लोपे पादकृच्छ्रं प्रायश्चित्तं कृत्वाऽकाले-
ऽपि स स संस्कारः कार्यः । अनेकेषु लुप्तेषु प्रत्येकमेकैकं पा-
दकृच्छ्रं विधाय यथाविधि लुप्तसंस्काराः कार्याः । चौल-
लोपे त्वर्द्धकृच्छ्रं कृत्वा चूडाकर्म कार्यम् । यद्युपनयनात्प्राक्
सर्वे संस्कारा लुप्तास्तदा प्रत्येकं पादकृच्छ्रं चूडाकर्माथम-
र्द्धकृच्छ्रं कार्यम् ॥

अथ पुनरुपनयनम् ।

अज्ञानात्प्रारयविगमूत्रं सुरासंसृष्टमेव च ।

पुनःसंस्कारमर्हन्ति त्रयोवर्णाद्विजातयः ॥ मनुः

ने कहा है कि कर्म का लोप होने पर सर्वत्र प्रायश्चित्त का विधान है और प्रा-
यश्चित्त की समाप्ति में छूटे हुए कर्म को फिर से करे । मण्डन ने कहा है कि
जिन संस्कारों का समय निकल गया और अगले का समय आगया हो तो प्रा-
यश्चित्त पूर्वक पिछले संस्कारों को कर के ही अगले करे । चूडाकर्म से भिन्न जिस
संस्कार का समय निकल जावे उस २ संस्कार को पूर्वोक्त पादकृच्छ्रग्रत करके
अन्य काल में भी करे । कई संस्कार लुप्त हुए हो तो प्रत्येक के लिये एक २
पादकृच्छ्रग्रत करके विधिपूर्वक छूटे हुए संस्कारों को करे । यदि चूडाकर्म छूटा
होतो ऋद्धकृच्छ्रग्रत करके चूडाकर्म फिर से करे । यदि उपनयन से पहिले सब
संस्कार छूट गये हों तो प्रत्येक छूटे संस्कार के लिये पादकृच्छ्र और चूडाकर्म के
लिये ऋद्धकृच्छ्रग्रत पूर्वोक्त प्रकार करे ।

अब यह दिखती है कि जिस २ दशमें पुनरुपनयन करना चाहिये । अ-
र्थात् पहिले हुए उपनयन संस्कार को नष्ट हुआ मान कर फिर से उपनयन

अनाशकनिवृत्तश्च गार्हस्थ्यं चेच्छिकीर्षति ।
 सचरेत्त्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि च ।
 जातकर्मादिभिः सर्वैः संस्कृतः शुद्धिमाप्नुयात् ॥ पराशरः
 इति पुनरुपनयनम् ॥

संस्कार करना चाहिये ? । मनु जी ने कहा है कि—ज्ञान से विद्या मूत्र को खा लेवे या मद्य जिकमें मिला हो ऐसे किसी पदार्थ को खा लेवे तो द्विजाति होने वाले प्रायश्चित्त कर फिर से उपनयन संस्कार करें । पराशरस्मृति में बड़ा है कि—घर से निकल कर संन्यासी हुआ ब्राह्मण संन्यासाश्रम से लौट आवे और अश्रम से निकल रहा हो तथा फिर गृहस्थ होना चाहता हो तो वह तीन मासापत्य १८ दिन के व्रत या तीन चान्द्रायण व्रत करे तदनन्तर फिर से जातकर्मादि सब संस्कार करके शुद्ध हुआ गृहस्थकर्मादि अधिकारी हो सकता है । यह पुनरुपनयन का विधायक समाप्त हुआ ॥

अथ वाग्दानम् ।

तावत्पूगीफलोपवीतदानं तत्र कन्याभाता पुरोधाम्न-
न्यो ब्राह्मणो वा कश्चिद्दुदह्मुखः प्रत्यह्मुखो वा उपविश्य प्रा-
ह्मुखस्य वरस्य गन्धाक्षतैरर्चितस्य मुखदत्तखार्जूरदिफ-
लस्य स्वयंपूगीफलपवीतमादाय—तस्मिन्कालेऽग्निसां-
निध्ये स्नातः स्नाते ह्यरोगिणि । अव्यङ्गेऽपतितेऽक्लीबे पि-
तातुभ्यं प्रदास्यति । इति पठित्वा हस्ते दद्यात् ।

यजु० अध्याय १७ मंत्र ३

ओं ऋतवस्थऽऋतावृध ऋतुष्ठास्थ ऋ-
तावृधः । घृतश्च्युतो मधुश्च्युतो विराजो
नाम कामदुघाऽअक्षीयमाणाः ॥

अथ विवाहपद्धति । बारह वर्ष की कन्या और १८ वर्ष का घर हो वा दोनो इस से अधिक २ आयु के हो । १६ वर्ष की कन्या हो तो २४ वर्ष का पु-
रुष होवे । किन्तु १२ वर्ष से कम कन्या न हो और १८ वर्ष से कम घर न हो
तत्र सम्बन्ध करें । उस में प्रथम वाग्दान करे—उस का विधानक्रम यह है कि—
प्रथम सुपारी और यज्ञोपवीत का घर को दान करे । कन्या का भाई, पुरोहित
या अन्य कोई ब्राह्मण घर के घर पर जाकर उत्तर वा पश्चिम को मुख कर बैठ
कर घर की पूर्वाभिमुख आसन पर बैठेवे घर के मुख में झुहारादि फल याने
की देवे और केशर तथा सुगन्ध द्वारा और अक्षतो द्वारा घर का पूजन करके अपने
हाथ में सुपारी और यज्ञोपवीत लेकर (तस्मिन् काले) इत्यादि श्लोक पठ के घर
के हाथ में देवे । श्लोकार्थ—विवाह के समय अग्नि के समीप, नीरोग, ठीक २
पूर्ण अङ्गो वाले निष्पाप, शुद्ध, क्लीबतादि दोष रहित खानकर शुद्ध हुए आप को
खान कर शुद्ध हुए मेरे पिता जी कन्या दान देंगे । यदि पुरोहित जावे तो
कहे कि कन्या का पिता कन्या को देगा । पश्चात् (ऋतवस्थः) मन्त्र पठ के अपना

इति पठित्वा शिरस्यक्षतादिकं दद्याद्द्वरः । भ्रातृव्यति-
रिक्तपक्षे पितेत्यत्र दातेत्युच्चारयेत् ॥ इति वाग्दानम् ॥

अथ विवाहः ॥

उदगयनघ्रापूर्यमाणपक्षे पुरयाहे कुमार्याः पाणिं गृह्णीयात् ।
पारस्करसू० । सार्वकालमेके विवाहम् ॥२॥ आश्व० । त्रिपुत्रि-
पूत्तरादिषु ॥३॥ स्वातौ मृगशिरसि रोहिण्यां वा ॥४॥ पार० ।
तत्र कन्याहस्तेन श्रोत्रहस्तपरिमितं मण्डपं विधाय तद्-
क्षिणस्यां दिशि पश्चिमां दिशमाश्रित्य मण्डपसंलग्नमुत्तरा-
भिमुखं कौतुकागारं च मण्डपाद्वहिरैशान्यां जामातृच-
तुर्हस्तपरिमितां सिकतादिपरिकृतां वेदीञ्च कारयेत् ।

पूजन करने वाले के शिर में वर चन्दन जलतादि लगावे । मन्त्र का अर्थ-वर
कृता है कि हे कन्या के देने वाले लोगो ! आप लोग कन्यादान की सत्य
प्रतिष्ठा में रहने वाले हो सत्ययज्ञादि कर्म के प्रचार तथा क्रतुयाग करने वाले घृत
मिष्टादि भक्ष्य भोज्य सामान रखने वाले विशेष कर शोभित वासनाश्री के पूर्ण
करने वाले प्रसिद्ध हो और धनादि पदार्थ जिन के विद्यमान है ऐसे आप हैं
ऐसा वर कहे । इति वाग्दानम् ॥ अथ विवाहविधिः ॥

उत्तरायण शुक्लपक्ष चं० यु० यु० शु० पुरय दिन में कुमारी कन्या का पा-
णिग्रहण करे । उत्तरा फल्गुनी, हस्त, चित्रा, उत्तराषाढा अश्लेष, धनिष्ठा, उत्तरा
भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, स्वाति, मृगशिरा, रोहिणी । इन में से किसी न-
क्षत्र में विवाह बर्ण करे । यह पारस्कर गृह्य सूत्र कार का कथन है । तथा
आश्वलायन गृह्य में लिखा है कि कोई २ प्राचार्य सय काल में विवाह का होना
मानते हैं । विवाह के लिये प्रथम कन्या के हाथ से नीलए हाथ लम्बा चौड़ा
चारोदिशा में चार २ हाथ मण्डपद्वारासे दस से दशान कोस में कौतुकागार बनावे
और मण्डप के ईशान कोण में जामाता के हाथ से चार हाथ चारो ओर से

विवाह मण्डप चित्र ॥

घेदी

मण्डप

ईशान

पूर्व

आग्नेय

उत्तर

कन्या हस्त पोरश १६

दक्षिण

वायव्य

पश्चिम

कौतुकागार

निर्गत

विवाहदिने कृतनित्यक्रियेण जामातृपित्रा मातृपूजापूर्वकं
 आभ्युदयिकं कर्तव्यम् ॥ कन्यापिता रनातः शुचिः शुक्ला-
 म्बरधरः कृतनित्यक्रियो मातृपूजाभ्युदयिके कृत्वा मण्डपे
 प्रत्यङ्मुखः प्राङ्मुखं वरमूर्ध्वजानुमासीनंसंबोध-

अथ स्वस्तिवाचनम् ॥

यजु० अध्याय २५ कं० १८ ॥

ओम्-स्वस्तिनऽइन्द्रोवृद्धश्श्रवाःस्वस्तिनः
 पूषा त्विष्टश्चवेदाः । स्वस्तिनस्तावर्ष्याऽरि-
 ष्टनेमिःस्वस्तिनोबृहस्पतिर्हृधातु ॥१॥

यजु० अध्याय १८ कं० ३६ ॥

ओम्-पयःपृथिव्यास्पयऽओषधीषु प-
 यो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः । पयस्वतीः प्रदि-
 शः सन्तु मह्यम् ॥२॥

यजु० अध्याय ५ कं० २१ ॥

ओम्-द्विषणोरराटमसि द्विषणोः
 इनपत्रे स्तथो द्विषणोःस्यूरसि द्विषणोर्धु-

अर्थात् एक २ हाथ सब दिशाओ में हो ऐसी वेदी बनावे उस वेदि में कङ्कड़
 मूनी या बाल न पड़े हो । विवाह के दिन वर का पिता शौच स्नान नित्य कर्म
 करने पश्चात् मातृपूजा पूर्वक आभ्युदयिक कर्म करे । इधर कन्या का पिता
 भी विवाह के दिन स्नान कर शुद्ध हुआ शुद्ध वस्त्र पहन नित्य कर्म करके मातृ
 पूजापूर्वक आभ्युदयिक कर्म करके वर पूजन के समय मण्डप में पश्चिमकी मुस
 कर बैठे ऊपर को घोटू कर पूर्वाभिमुख बैठे वर को सम्बोधित कर के स्वस्ति-

वोऽसि । वैष्णवमसि विषण्णवे त्वा ॥३॥

• यजु० अध्याय १४ कं० २० ॥

ओम्—अग्निर्द्वैवतात्वातो देवतासूर्यो दे-
वताचन्द्रमा देवतावसवो देवतारुद्रा देवतादि-
त्या देवतामरुतो देवताविश्वे देवा देवताबृह-
स्पतिर्द्वैवतेन्द्रो देवताव्वरुणो देवता ॥४॥

यजु० अध्याय ३६ कं० १७ ॥

ओ३म्—द्यौःशान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्व्वनस्पत-
यः शान्तिर्व्विश्वे देवाः शान्तिर्व्वर्ह्म शान्तिः सर्व्व-
शं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ५

यजु० अध्याय ३० अनु० १ मं० ३ ॥

ओम्—द्विश्ववान देवसवितर्दुरितानि परा
सुव । यद्भद्रन्तन्नऽआसुव ॥६॥

यजु० अध्याय १६ अनु० ७ मं० ४८ ॥

ओम्—इमारुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय
प्रभरामहेमतीः । यथाशमसद्द्विपदे चतुष्प-
दे विश्वस्पुष्टङ्ग्रामेऽअस्मिन्ननातुरम् ॥

यजु० अध्याय २ मंत्र १२ ॥

ओं—एतन्ते देवसवितर्यज्ञम्प्राहुर्व्वृहस्पतये

ब्रह्मणी । तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिन्तेन मामव ८
सुप्रतिष्ठितावरदाभवन्तु देवाः ॥१०॥ इति स्वतिवाचनम् ॥

अथ प्रतिज्ञासंकल्पः ॥

ओं तत्सद्य ब्रह्मणी द्वितीयपराह्वे श्रीश्वेतवाराहकल्पे
जम्बूद्वीपे भरतखण्डे, आर्यावर्ते वर्तमानकलियुगप्रथमचरणे
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे युगेऽमुकऋतौ अमुकमासे
ऽमुकपक्षेऽमुकतिथौ अमुकवासंरान्वितायां अमुककरणक्ष-
त्रयोगयुक्तायां श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलावाप्तिकामः घमार्थ-
काममोक्षार्थं मनोभिलपितप्राप्तये अमुकगोत्रोऽमुकशर्माऽह-
ममुककर्मनिमित्तककात्यायनीशान्तिमहं करिष्ये । तन्निर्वि-
घ्नपरिसमाप्तये गणपतिपूजनं च करिष्ये इति ॥

अथ-गणपतिपूजनम् ॥ ओं गणानां त्वागणपतिं ह-
वामहे इति मन्त्रेण । ओं भूर्भुवःस्वः भगवन्गणपतिदेवत इ-
हागच्छ इति षष्ठसुप्रतिष्ठवरदीभवममपूजांगृहाण ॥ पाद्या-
दिभिरर्चयेत् । भगवन्गणपतिदेव एतत्पाद्यादिभिर्गन्धाक्षता-
दिभिश्च पूजितः प्रसन्नो भव ॥ पुनः । वक्रतुण्डमहाकायकोटि-
सूर्यसमप्रभ । अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा । इति । अथ
पञ्चोपकारपूजनम् । आवाहयाम्यहं देवमोकारं परमेश्वरम् ।
त्रिमात्रं त्र्यक्षरं दिव्यं त्रिपदं च त्रिदैवकम् ॥ त्र्यक्षरं त्रिगुणाकारं
सर्वाक्षरमयं शुभम् । त्र्यणवंप्रणवहंसं स्रष्टारं परमेश्वरम् ॥ अ-
नादिनिधनं देवमप्रमेयं सनातनम् । परंपरतरं बीजं निर्मलं नि-
ष्कलं शुभम् ॥

वाचन का पाठ करे । तत्पश्चात् प्रतिज्ञा संकल्प करके गणेशजी, नवग्रह पौड़ग

यजुर्वेद० अध्याय २३ ॥ मन्त्र १६ ॥

ॐम्-गणानान्त्वा गणपतिशंहवामहे
 प्रियाणान्त्वा प्रियपतिशंहवामहे निधीना-
 न्त्वा निधिपतिशंहवामहे व्वसो मम । आह-
 मजानि गर्भमधमात्वमजासि गर्भमधम् ॥

शुक्लयजु० अध्याय १६ मन्त्र २५ ॥

ॐम्-नमो गणेश्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो
 नमो व्वातेभ्यो व्वातपतिभ्यश्च वो नमो
 नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो
 विरूपेभ्यो विरूपेभ्यश्च वो नमः ॥

अथ-मातृकापूजनम् ॥

गौरी १ पद्मा २ शची ३ मेधा ४ सावित्री ५ विजया ६
 जया ७ । देवसेना ८ स्वधा ९ स्वाहा १० मातरो ११ लोक-
 मातरः १२ ॥ हृष्टिः १३ पुष्टि १४ स्तथा तुष्टि १५ स्तथात्म-
 कुलदेवता १६ । श्रीकुलदेव्यन्तर्गतगौर्यादिषोडशमातृभ्यो
 नमः ॥ अथ ऋत्विजां वरणम् ॥ यथा चतुर्मुखी ब्रह्मा स-
 र्ववेदधरः प्रभुः । तथा त्वं भव यज्ञोऽस्मिन् ब्रह्मा भवद्विजोत्तम ॥
 गृहीत्वा तु कराद्गुण्ठं यजमानः पठेदिदम् । अस्य कर्मणः
 प्रतिष्ठापनार्थं त्वं मे ब्रह्मा भव (अहं भवामि इति ब्रह्मा ब्रूयात्)

मातृका शीत कलश का पूजन करे । गणेशादि का पूजन सूत्र में नहीं है । त-

अथ कलशपूजनम् ॥

शुक्रयजु० अध्याय ४ मन्त्र० ३६

ओम्-व्वरुणस्योत्तम्भनमसि व्वरुणस्य
स्वकम्भसज्जनीस्तथो व्वरुणस्यऽऽहृतसदन्य-
सि व्वरुणस्यऽऽहृतसदनमसि व्वरुणस्यऽऽहृत-
सदनमासीद ॥

अथ नवग्रहपूजा ॥

शु० यजु० अध्याय ३१ मं० ३१

ओं-आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशय-
न्नमृतम्मर्त्यञ्च । हिरण्ययेन सविता रथेनां
देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥ ओं सूर्याय नमः ।
इति सूर्यं पूजयेत् ॥ शुक्र यजु० अध्याय १० मन्त्र १८

ओं-इमं देवाऽऽसपत्नथं सुवद्धुम्महतेक्ष-
त्राय सहतेज्यैष्ठ्याय सहतेजानराज्यायेन्द्रस्ये-
न्द्रियाय । इमममुष्यपुत्रममुष्यैपुत्रमस्यैविवि-
शऽएपवोमीराजासोमोऽस्माकम्ब्राह्मणानाथं-
राजा ॥ ओं सोमाय नमः । इति पूजयेत् ॥

शुक्रयजु० अध्याय ३ मन्त्र १२

ओं-अग्निर्मूर्धादिवःककुत्-पतिः पृ-

शिव्याऽन्नयम् । अपाथंरेताथंसि जिन्वति ॥
 ओं अङ्गारकाय नमः । इति पूजयेत् ॥

यजु० अध्याय १५ मन्त्र ३

ओम्—उद्धृद्यस्वाग्नेऽप्रतिजागृहि, त्वमि-
 ष्टापूर्त्तसथंसृजैथामयञ्च । अस्मिन्त्सधस्थेऽ-
 ध्युत्तरस्मि, न्विश्वेदेवायजमानश्चसीदत ॥

ओं बुधाय नमः । इति पूजयेत् । यजु० अध्याय २६ मन्त्र ३

ओम्—बृहस्पतेऽअतियदर्यीऽअर्हाद्द्युमद्वि-
 भातिक्रतुमज्जनेषु । यद्दीदयच्छवसऽऋतप्रजात
 तदस्मासुद्रविणन्धेहिचित्रम् ॥

ओं बृहस्पतये नमः । इति पूजयेत् । यजु० अध्याय १९ मन्त्र ७५

ओं—अन्नात्परिस्वुतोरसम्ब्रह्मणाव्यपिवत्स-
 त्रस्पयः सोमप्रजापतिः । ऋतेन सत्यमिन्द्रि-
 यं त्विपानथं शुक्रमन्धसइन्द्रस्येन्द्रियमिद-
 स्पयोऽमृतम्मधु ॥ ६ ॥ ओं शुक्राय नमः ।

इति पूजयेत् । यजु० अध्याय ३६ मन्त्र १२

ओम्—शन्नो देवीरभिष्टयऽआपो भव-
 न्तु पीतये । शंयोरभिस्ववन्तु नः ॥ ओं श-
 नैश्चराय नमः ॥ इति पूजयेत् ॥

यजु० अध्याय २७ मंत्र ३६ ॥

ओम्-कया नश्चित्र ऽआभुवदूती स-
दावृधः सखा । कयां शचिष्ठया वृता ॥ ओं
राहवे नमः ॥ इति पूजयेत् ॥

यजु० अध्याय १५ मंत्र ३ ॥

ओम्-केतुङ्करावन्नकेतवे, पेशो मर्याऽ
अपेशसे। समुषद्भिरजायथाः ॥ ओं केतवे नमः॥
इति पूजयेत् ॥

ततः साधुभवानास्तामिति प्रजापतिऋषिर्ब्रह्मा देवता
यजुश्छन्दो वरार्चने विनियोगः । ओं साधुभवानास्तामर्चयि-
ष्यामी भवन्तम् । इति ब्रूयात् । ओं अर्चयेति वरेशोक्ते वरो-
पवेशनार्थं शुद्धमासनं दत्त्वा कन्यादाता विष्टरमादाय ओं
विष्टरोविष्टरोविष्टरइत्यन्येनोक्ते ओं विष्टरः प्रतिगृह्यता-
मिति दाता वदेत् । ओं विष्टरं प्रतिगृह्णामीत्यभिधाय वरो
विष्टरं गृहीत्वा-वर्षाऽस्मीत्याथर्वणऋषिर्विष्टरो देवता-
ऽनुष्टुप्छन्दः । उपवेशने विनियोगः ॥

ओं वर्षाऽस्मि समानानामुद्यतामिवसूर्यः ।
इमं तमभिसिष्ठामि यो सा कश्चाभिदासति॥

दनन्तर कन्या दाता (साधुभवानास्ता०) इत्यादि वाक्य पढे । वर कहे- (अर्चय)
तय वर को बैठने के लिये शुद्ध आसन देवे । यजमान हाथ में विष्टर लेवे तथा
अन्य कोई पुरुष (विष्टरो विष्टरो विष्टरः) कहे तय कन्या दाता कहे (ओं विष्टरः
प्रतिगृह्यताम्) तय (ओं विष्टरं गृह्णामि) वाक्य कह कर वर विष्टर को
सेता हूं ऐसा कह विष्टर को लेकर (वर्षाऽस्मि०) मन्त्र से आसन के ऊपर

गोरुणे इत्यनेन आसने उत्तराग्रविष्टरोपरिवर उपशति । ओं
 पाद्यं पाद्यं पाद्यमित्यन्घेनोक्ते ओं पाद्यं प्रतिगृह्यतामिति
 दाता वदेत् । ओं पाद्यं प्रतिगृह्णामीत्यभिधाय वरः-

ओं विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय
 मयि पाद्यार्थे विराजो दोहः ॥

इति दक्षिणं चरणं प्रक्षाल्यानेवैव क्रमेण मन्त्रेण च
 वामचरणप्रक्षालनम् । ततः पूर्ववद्विष्टरान्तरं गृहीत्वा चरण-
 योरधस्तात् उत्तराग्रं वरः कुर्यात् । ततो दूर्वाक्षतफलपुष्पचु-
 न्दनयुतार्घपात्रं गृहीत्वा यजमानः-ओं अर्घइत्यादिविष्णुः
 ऋषिस्त्रिष्टपञ्चन्दी विष्णुर्देवता अर्घदाने विनियोगः । ओं
 अर्घोऽर्घोऽर्घइत्युक्तेऽन्घेन, ओमर्घः प्रतिगृह्यतामिति-दाता
 वदेत् । ओं अर्घं प्रतिगृह्णामीत्यभिधाय वरो यजमानहस्ताद-
 र्घपात्रं गृहीत्वा । आपःस्थइत्यादिमन्त्रस्य सिन्धुद्वीपऋषिरनु-

उत्तराग्र विष्टर को पर के उर पर वर बैठे । तदनन्तर अन्य कोई यजमान का
 पुरुष (पाद्यं ३) ऐसा तीन बार कहे तब कन्या दाता कहे (पाद्यं प्रतिगृह्य-
 ताम्) तब वर (पाद्यं प्रतिगृह्णामि) वाक्य को कह कर (ओम्-विराजोः)
 मन्त्र पत्र के पाद्यजल से [ब्राह्मण हो तो] प्रथम दहिने पग का प्रक्षालन कर
 के पश्चात् द्वितीय बार इसी उक्त मन्त्र को पट्ट के वाम पाद का प्रक्षालन करे ।
 यदि सत्रिय वा वैश्यदि हो तो प्रथम वामपाद को धीकर पश्चात् दहिना पग
 धोये । तदनन्तर पूर्व के तुल्य द्वितीय विष्टर को लेकर वर दोनों पगो के नीचे
 विष्टर को उत्तराग्र दशा लीये । तदनन्तर दृश्य, अन्नत-खड़ेजो, फल, पुष्प और
 चुन्दन सहित अर्घपात्र को कन्यादाता स्वयं हाथ में लेकर (ओम्-अर्घोऽर्घोऽर्घः)
 ऐसा अन्य किसी के कहने पर (अर्घं प्रतिगृह्यताम्) ऐसा कहे ओर वर (ओम्
 अर्घं प्रतिगृह्णामि) ऐसा कह कर यजमान के हाथ से अर्घपात्र को दहिने हाथ

ष्टुप्छन्दोऽर्घक्षतादिधारणे विनियोगः। ओं आपः स्थ युष्मा-
भिः सर्वान्कामानवाप्नवामि। इति शिरसि किञ्चिदक्षतादिकं
धृत्वा समुद्रं वदित्यादिमंत्रस्याथर्वणऋषिर्वृहतीछन्दो वरुणो
देवताऽर्घजलप्रवाहे विनियोगः। ओं समुद्रं वः प्रहिणोमि
स्वां योनिमभिगच्छत। अरिष्टाऽस्माकं वीरा मापरासेचि-
मत्पयः ॥४॥ इत्यर्घपात्रस्थजलमैशान्यां त्यजन् पठेत्। ततो
यजमानश्चाचमनीयमादाय आचमनीयमात्रमनीयमाचमनी-
यमित्यन्येनोक्ते—ओम्—आचमनीयं प्रतिगृह्णतामिति दाता
वदेत्। ओम्—आचमनीयं प्रतिगृह्णाामीत्यभिधाय वरो यजमा-
नहस्तादाचमनीयं गृहीत्वा—आमागन्धि परमेष्ठीऋषिर्वृ-
हतीछन्द आपो देवता अपामंस्पर्शने विनियोगः ॥ ओम्—
आमागन्धिसा सञ्ज वच्चसा। तस्मा कुरु प्रियं प्रजा-
नामधिपतिं पशूनामरिष्टिं तनूनाम् ॥ इत्यनेन सकृदाचा-
मेत्। द्वितीयमाचामेत्। ततो यजमानः कांस्यपात्रस्थ-
दधिमधुघृतानि समादायान्येन कांस्यपात्रेणापिधाय करा-
भ्यामादाय। मधुपर्कंति मधुच्छन्दऋषिर्वृहतीछन्दो मधुभग्

से लेकर (ओम्—आपस्थः) मन्त्र से अर्घपात्र में से अपने शिर में थोड़ा अक्षत पुष्पादि धर के अर्घपात्रस्थ जल को ईशान दिशा में छोड़ता हुआ (ओं समुद्रं वः) मन्त्र पढ़े। तदनन्तर यजमान अपने हाथ में आचमनीय जल लेकर (आचमनीयं ३) ऐसा तीन बार अन्य के कहने पर (आचमनीयं प्रतिगृह्णताम्) ऐसा कहे। और वर (आचमनीयं प्रतिगृह्णामि) ऐसा कह कर यजमान के हाथ से आचमनीय पात्र लेके (ओमामागन्धिः) मन्त्र पढ़ के एक बार आचमन कर दो बार विना मन्त्र पढ़े आचमन करे। तदनन्तर कन्या दाता यजमान कांसे के कटोरा में दही शहत और घृत को लेकर अन्य द्वितीय कटोरा

देवता मधुपर्कदाने विनियोगः ॥ ओम्-मधुपर्कं मधुपर्कं
मधुपर्कं इत्यन्येनोक्ते-ओम्-मधुपर्कः प्रतिगृह्यतामिति दा-
 तावदेव । ओम्-मधुपर्कं प्रतिगृह्णामीत्यभिधायैव वरः । ओ-
 म्-मित्रस्येति प्रजापतिर्ऋषिः पङ्क्तिरुद्धन्दी मित्रो देवता
 मधुपर्कदर्शने विनियोगः । ओम्-मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रती-
 क्षे । इति दातृकररथमेव मधुपर्कं निरीक्ष्य देवस्यत्वेति ब्रह्मा-
 ऋषिर्गायत्रीरुद्धन्दः सविता देवता मधुपर्कग्रहणे विनियोगः ॥

यजुर्वे० अ० ६ मं १

ओम्-देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनो
र्वाहुभ्याम्पणो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि ॥

इत्यभिधाय वरो मधुपर्कं गृहीत्वा वामहस्ते कृत्वा-
 ओम्-नमः श्यावेति प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्री रुद्धन्दः स-
 विता देवता मधुपर्कालोढने विनियोगः ॥ ओम्-नमः श्या-
 वास्यायान्नशने यत्त आश्विद्वं तत्ते निष्कृन्तामि । इत्यना-
मिकया त्रिःप्रदक्षिणमालोडय अनामिकाङ्गुष्ठाम्यां भूमौ
 किञ्चिन्निक्षिप्य पुनस्तथैव द्विःप्रत्येकं निक्षिपेत् ॥ तत आ

से हाथ के दोनों हाथ में लेकर (ओंमधुपर्कंमधुपर्कंमधुपर्कः) ऐसा अन्य के कहने पर (ओंमधुपर्कः प्रतिगृह्यताम्) कहे । और वर (ओंमधुपर्कं प्रतिगृह्णामि) ऐसा कह कर (ओंमित्रस्येव) मन्त्र पढ़ के यजमान के हाथ में ही मधुपर्क को देत कर (ओं देवस्यस्या०) मन्त्र पढ़ के यजमान के हाथ से मधुपर्कवाश्र को लेकर वाम हाथ में पकड़ के (ओं नमः श्यावा०) मात्र पढ़ के दहिने हाथ की अनामिका अङ्गुलि से तीन बार प्रदक्षिण क्रम से मधुपर्क को मिलावे । तदनन्तर मधुपर्क में से अनामिका और अङ्गुष्ठ द्वारा चौड़ा अंश लेकर भूमि में बिटक कर फिर भी दो बार वही प्रकार चौड़ा २ बिटकावे । तदनन्तर व्यवहारानुसार चौड़ा

धारान्मधुपर्कं किञ्चित्कन्यायै द्रष्टुं दद्यात् ॥ ओम्-यन्म-
धुनइत्यस्य कौत्स ऋषिर्जगती हृन्दो मधुपर्का देवता मधु-
पर्कप्राशने विनियोगः । ओम्-यन्मधुनो मधव्यं परमथ् रूप-
मन्नाद्यम् ॥ तेनाऽहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन
परमो मधव्योऽन्नादोऽसानि ॥ २ ॥ इत्यनेन चारत्रय मधु-
पर्कप्राशनं प्रतिप्राशनान्ते चैतन्मन्त्रपाठः । ततो मधुपर्कशे-
पमसंचरे देशे धारयेत् ॥

ततस्त्रिराचामेद्वरः । बाह्मघ्रास्ये अस्तु । नसोर्मै प्राणोऽस्तु ।
अक्षोर्मै चक्षुरस्तु । कर्णयोर्मै श्रोत्रमस्तु । बाहोर्मै बलम-
स्तु । ऊर्वोर्मै ओजोऽस्तु । अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूरतन्वा
मे सह सन्तु । इति प्रत्येकं सर्वगान्नाशि संस्पृशेत् ।
ततो वेदिकायां तुपकेशशर्कराभस्मादिरहितां चतुरस्रभूमिं
कुशैः परिसमुह्य तानैशान्यां परित्यज्य गोमयोदकेनोपलि-
प्य स्फयेन स्तुवेण वा प्रागग्रप्रदेशमितमुत्तरोत्तरक्रमेण

मधुपर्क कन्या को दस्तने के लिये देवे । तदनन्तर (ओ यन्मधुनो) मन्त्र को तीन
बार पठ २ कर तीन बार थोडा २ मधुपर्क खावे । और शेष सब मधुपर्क को
लहा किमी की निकल पैठ न हो ऐसे स्थान में छोड देवे । तदनन्तर वर तीन
बार आचमन करके (बाह्म०) से मुख का (नसोर्मै०) से दोनो नासिका के
खिट्टो का (अक्षोर्मै०) से दोनो आखो का (कर्णयोर्मै०) से दोनो कानो का
प्रथम दहिने तदनन्तर वाम का (बाहोर्मै०) से दोनो मुजा का (ऊर्वोर्मै०)
से दोनो जापो का और (अरिष्टानि मे०) से सब अङ्गो का शिर से पग तक
स्पर्श करे । तदनन्तर भूसी केड धकंड और भस्मादि रहित घेदी में चतुरकोण
भूमि का कुशो से परिभसूदन कर कुशो को ईशानकोण में देड कर गोवर और
जल से वेदि भूमि का लेपन कर स्फ्य वा स्तुवा से प्रागग्र प्रदेशपरिमिति द-
त्तर २ क्रम से तीन देखा करकेरेखाओ के क्रम से अनामिका और अङ्गुष्ठ द्वारा

त्रिरुद्विख्योलेखनक्रमेणाऽनामिकङ्गुष्ठाभ्यां मृदमुद्गत्य ज-
लेनाभ्युक्ष्य तत्र तूष्णीं कांस्यपात्रस्थं मृत्तिकापात्रस्थं वा
विहितं वन्हं प्राङ्मुखः प्रत्यङ्मुखमुपसमाधाय तद्रक्षार्थं
कञ्चिन्नियुज्य कौतुकागाराद्वरः कन्यामानीय मण्डपपरिवेश्य
अथैनां वासः परिधापयति ॥

श्रीजरांगच्छेति-मंत्रस्य प्रजापतिर्ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दस्त-
न्तवो देवता वस्त्रपरिधाने विनियोगः ॥ श्रीं जरां गच्छ परि-
धत्स्व वासो भवा कृष्टीनामभिशस्तिपावा । शतं च जीव
शरदः सुवर्चा रश्मिञ्च पुत्राननुसंव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व
वासः ॥ इतिमंत्रेण परिधानवस्त्रं परिधापयेद्वरः ॥ अथोत्तरीयं
वासः समादाय वरोऽग्निममंत्रेण परिधापयेत् । याऽअकृन्त-
न्नित्यादि मन्त्रस्य प्रजापतिर्ऋषिर्जगती छन्दो विधाऽयो दे-
वता वस्त्रधारणे विनियोगः ॥ श्रीं या अकृन्तन्नवयं या-
अतन्वत याश्च देवीस्तन्तूनभितरततन्थ । तात्वादेवीर्जरसे
संव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः ॥ इति मन्त्रेण अह-
तवासो धीतं वा सौत्रेणाच्छादयतीति श्रुत्यनुसारेण वरो-
प्येतादृशवाससी अत्र परिधत्ते परिधास्यैइत्यादिमन्त्राभ्याम् ॥

मट्टी को रेतलाओ में ठेठा कर फेंक दे पश्चात् जन से घेदि का अभ्युक्षण कर वि-
धान किये अग्नि को कामे वा मट्टी के पात्र में लाके पूर्वाभिमुख हो कर अग्नि को
सामने रस कर उसके न्युनने के लिये घोड़ी समिधा अग्नि पर धर के कौतुका-
गार से घर कन्या को लाकर मण्डप में धेठाकर कन्या को वस्त्र पहनाये (श्री
लरा गण्ड०) मन्त्र को पढ़कर अथोवस्त्र पहरने के लिये कन्या को देवे तदनन्तर
ऊपर ओढ़ने का वस्त्र ओढ़नी वा चद्वर कर हाथ में लेकर (छो या अकृन्तन०)
मन्त्र पढ़ कर कन्या को ओढ़ने के लिये देवे । ये वस्त्र नये स्वयं धीये हो वि-

परिधास्यै इत्यादिमन्त्रस्याथर्वणऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः ।
तन्तवो देवता वासःपरिधाने विनियोगः । ओम्-परिधास्यै
यशो धास्यै दीर्घायुष्टाय जरदष्टिरस्मि । शतञ्च जीवामि
शरदः पुरुचीरायस्पोपमभिसंव्ययिष्ये ॥ इति पठित्वा वरः
परिधत्ते (अथोत्तरीयमाच्छादयतीति सूत्रम्) ओम्-यशसे-
त्यादिमन्त्रस्य प्रजापतिर्ऋषिर्जगतीछन्दो विधात्र्यो देवता
वासोधारणे विनियोगः ॥ ओम्-यशसा मा द्यावापृथिवी
यशसेन्द्रावृहस्पती । यशो भगश्च मां विदद्यशो मा प्रति-
पद्यताम् । इति पठित्वा उत्तरीयं परिधत्ते ॥ ततः कन्याया वरस्य
च द्विराचमनम् । ततः कन्याप्रदेन परस्परं समञ्जेषामिति
प्रेषितयोः परस्परं सम्मुखीकरणम् ॥ समञ्जन्त्विति मन्त्रस्य
आथर्वणऋषिरनुष्टुप्छन्दो विश्वेदेवा देवता मैत्रीकरणे वि-
नियोगः ॥ ओम्-समञ्जन्तु विश्वेदेवाः समापो हृदयानि नौ ॥
सम्मातरिश्वा संधाता समुदेष्टी दधातु नौ ॥ इति वरः प-
ठेत् ॥ ततः कन्याप्रदकर्तृकग्रन्थिवन्धनम् ॥ हरतलेपनं शा-
खोच्चारणम् ॥ अथ कन्यादानम् ।

कन्यादाता शंखस्थट्टुर्वाक्षतफलपुष्पचन्दनजलान्यादाय ।

नु धीर्षो के धीर्ये न हौर्वे । तदनन्तर (परिधास्यै) मन्त्र पढ़ के नयाँ खर्च
धोपी शुद्ध धोती वर पहिने और (ओम्-यशसा) मन्त्र पढ़के शुद्ध डुपट्टा वर
ऊपरके भाग में ओढ़े वा अंगरखा पहिने तदनन्तर कन्या वर दोनों दो २ आ-
चमन करें । तदनन्तर कन्या दाता कहे कि (परस्परं समञ्जेषाम्) ऐसा कहकर
कन्या वर को सम्मुख करे और उस समय (ओं समञ्जन्तु) मन्त्र की वर पढ़े ।
इसी समय कन्यादाता दोनों का ग्रन्थिवन्धन कर कन्या के हाथों में हल्दी
लगावे और इसी समय शाखोच्चारण करे । अथ कन्या दान-कन्या दान करने

अथ कन्याप्रदः—जामातृदक्षिणकरोपरि कन्यादक्षिणकरं नि-
धाय । दाताऽहं वरुणो राजाद्रव्यमादित्यदैवतम् । विप्रोऽसौ
विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णात्वयं विधिः । इति दाता पठेत् । ततो
गोत्रोच्चारणं च कुर्यात् ।

श्रीं श्रीमत्पंकजविष्टरो हरिहरी वायुर्महेन्द्रो नलश्र-
न्द्रोभास्करवित्तपालवरुणाः प्रेताधिपाद्याग्रहाः । प्रद्युम्नो
नलकूवरौ सुरगजश्रितामणिः कौस्तुभः स्वामीशक्तिधर-
श्च लाङ्गलधरःकुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥१॥

अमुकगोत्रस्य अमुकप्रवरस्य अमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमु-
कसूत्रिणोऽमुकशर्मणः प्रपौत्राय । अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्र-
वरस्याऽमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः
पौत्राय २ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरारयाऽमुकवेदिनोऽमु-
कशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः पुत्राय ॥ ३ ॥ अमुक-
गोत्रस्य यथोक्तप्रवरन्याऽमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसू-
त्रिणोऽमुकशर्मणः प्रपौत्रो १ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य
अमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः पौत्रो २
अमुकगोत्रस्यामुकप्रवरस्याऽमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसू-
त्रिणोऽमुकशर्मणः पौत्रो ३ गौरीश्रीकलदेवता च सुभगाभू-
मिः प्रपूर्णाशुभा सावित्री च सरस्वती च सुरभिः सत्यव्रतारु-
न्धती । स्वाहा जाम्बुवती च रुक्मभगिनी दुःस्वप्रविध्वं-
सिनी वेलाचांद्रनिधेःसमीनमकराः कुर्वन्तुवोमङ्गलम् ॥ २॥

बाला पुरुष शंख में दूब अतत फल पुष्प चन्दन और जल को लेकर वर के द-
दिने हाथ पर कन्या का दहिना हाथ चरके (दाताऽहं) श्लोक पढे । ऊपर
लिखे अनुसार यहा गोत्रोच्चारण करे । यदि वर ब्राह्मण नही किन्तु क्षत्रियादि

अमुकगोत्रस्यामुकप्रवरस्यामुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसू-
 त्रिणोऽमुकशर्मणः प्रपौत्राय । अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवर-
 स्याऽमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः पौ-
 त्राय २ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्याऽमुकवेदिनोऽमुकशा-
 खिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः पुत्राय ॥३॥ अमुकगोत्रस्य
 यथोक्तप्रवरस्याऽमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमु-
 कशर्मणः प्रपौत्रीम् १ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य अमुक-
 वेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः पौत्रीम् २ अ-
 मुकगोत्रस्यामुकप्रवरस्याऽमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रि-
 णोऽमुकशर्मणः पुत्रीम् ॥३॥ गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना
गोदावरी नर्मदा, कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चर्मणवती वेदि-
का ॥ क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गंडिकी, पु-
श्याःपुशयजलैःसमुद्रसहिताःकुर्वन्तुवोमङ्गलम् ॥ ३ ॥ अमु-
 कगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्यामुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसू-
 त्रिणोऽमुकशर्मणः प्रपौत्राय । अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवर-
 स्याऽमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः पौ-
 त्राय २ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्याऽमुकवेदिनोऽमुकशाखि-
 नोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः पुत्राय ॥ ३ ॥ अमुकगोत्रस्य य-
 थोक्तप्रवरस्याऽमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकश-
 र्मणः प्रपौत्रीम् १ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य अमुकवे-
 दिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः पौत्रीम् ॥ २ ॥
 अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्याऽमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमु-
 कसूत्रिणोऽमुकशर्मणः पुत्रीम् ॥ ३ ॥ लक्ष्मीः कौस्तुभपारि-

जातकसुराधन्वन्तरिशचन्द्रमा, धेनुःकामदुचा सुरेश्वरगजी रंमा
 च देवाद्गुणा ॥ अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शङ्खोविषं चा-
 म्बुधेरत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥४॥
ब्रह्मा वेदपतिः शिवः पशुपतिः सूर्योग्रहाणांपतिः शक्रोदेवप-
तिर्हविर्हुतपतिःस्कन्दश्चसेनापतिः । विष्णुर्यज्ञपतिर्धलीरधःप-
तिःशक्तिःपतीनांपतिः सर्वेतेपतयः सुमेरुसहिताः कुर्वन्तु वो
मङ्गलम् ॥ ५ ॥ इति सर्वौपयोगिगोत्रोच्चारणम् ॥

अथ कन्यासंकल्पविधिः ॥ हरिः—श्रीम् ॥ विष्णुर्वि-
 ष्णुर्विष्णुःपुनातु अद्यतत्सद्ब्रह्मअथानन्तवीर्यस्य श्रीमदादि-
 नारायणस्याऽचिन्त्यापरिमिताऽनन्तशक्तिसमन्वितस्य स्व-
 कीयमलप्रकृतिपरमशक्त्या क्रीडमानस्य सन्निदानन्दसन्दो-
 हस्वरूपे स्वात्मनि सर्वाधिष्ठाने स्वाज्ञानकल्पितानां महाज-
 लौघमध्ये परिभ्रम्यमाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकत-
 मेऽस्मिन्ब्रह्माण्डेऽव्यक्तमहदहङ्कारपृथिव्यग्नेजोवाय्वाकाशा-
 दिभिर्दशगुणोत्तरैरावरणैरावृते आधारशक्तिश्रीकूर्मवराह-
 धर्मानन्ताष्टदिग्गजादिप्रतिष्ठिते ऐरावतपुण्डरीकयामन-
 कुमुदाऽञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौमसुप्रतीकाख्याष्टदिग्दन्तिशुण्डा-
 दण्डोत्तखिडतैतद्ब्रह्माण्डस्वरुडयोरन्तर्गतभूर्लोकभुवर्लोक-
 स्वर्लोकमहर्लोकजनलोकतपोलोकसत्यलोकाख्याना सर्वज्ञ
 सर्वशक्तिसमन्वितसर्वोत्तमसर्वाधिपश्रीचतुर्मुखप्रभृतिस्त्र-
 रवलोकाधिष्ठितानामधोभागे फणिराजस्य शेषस्य सह-
 स्रफणामण्डलैकफणोपरि सर्पपैककणायमानमहीमण्डला-
 न्तर्गतातलवितलसुतल तलातलरसातलमहातलपातालानां

स्वस्वाधिष्ठात्रधिष्ठितानामुपरितने सुमेरुमन्दिरमन्दराच-
लनिपधहिमगिरिशृङ्गवद्धेमकूटदुर्दुरपारिधात्रशैलमहाशैलम-
हेन्द्रसह्याद्रिमलयाचलविन्ध्यर्ष्यमूकचित्रकूटमैनाकमानसो-
त्तरत्रिकूटीदयाचलास्ताचलपर्यन्तानेकाभिधानाद्रिगणप्र-
तिष्ठितायां जम्बूप्लक्षशालमलोकुशक्रौञ्चशाकपुष्कराख्यस-
प्तद्वीपवत्यां लवणेशुसुरासर्पिर्दधिक्षीरशुद्धोदकाख्यसप्तसा-
गरसमन्वितायां समस्तभूरेखायां कमलकदम्बगोलकाकारा-
यां वर्तमाने कुवलयकोशान्तर्गतदलवद्विराजमाने उत्तरकुरु-
हिरण्यपरम्यकभद्राश्वकेतुमालेलावृतहरिवर्षकिम्पुरुपभार-
ताख्यनवखण्डवति जम्बुद्वीपे सर्वेभ्योऽप्यतिरिक्तसारवति
देवादिभिरप्यभीष्टसुकृतक्षेत्रभूतहेतुनाभिलपिततमे अङ्गव-
ङ्गकलिङ्गकालिङ्गकाम्बोजसौवीरसौराष्ट्रमहाराष्ट्रवङ्गालोत्क-
लमगधमालवनेपालकेरलचोरलगौडमलपाञ्चालसिंहलम-
त्स्यद्रविडद्राविडकर्णाटराटवशूरसेनकौङ्कणशैलकणपारव्य-
पुलिन्ध्रयान्ध्रौणशशाङ्गविदेहविदर्भमैथिलकेकयकोशलकु-
न्तलमैन्ध्रुवजावलसार्वसिन्धुशालभद्रमध्यदेशपर्वतकाशमी-
रपुष्ठाहारसिन्धुपारसीकगान्धारवाह्लीक (हूण) प्रभृतिबहु-
विधदेशविशेषसंपन्ने दण्डकारण्यमहारण्यद्वैतारण्यप्रभृत्य-
नेकारण्यवति श्रीगङ्गायमुनासरस्वतीगोदावरीनन्दाक-
नन्दामन्दाकिनीकौशिकीनर्मदासरयूकर्मनाशाचर्मणवतीक्षि-
प्रावेत्रवतीकावेरीफल्गुमार्कण्डेयरामगङ्गाशतद्रुविपाशैराव-
तीचन्द्रभागावितस्तासिन्धुपद्मतीप्रभृत्यनेकनदनदीवति कु-

स्यां दिशि वारिपूर्णदृढकलशमादाय ऊर्ध्वं तिष्ठतो मौनिनः
पुरुषस्य स्कन्धे अभिपेकपर्यन्तं धारयेत् । "ततः परस्परं
समीक्षेयाम्" । इति कन्याप्रदप्रैपानन्तरम्—

ओम्—अधोरचक्षुरपतिघ्न्येधि शिवा यशु-
भ्यः सुमनाः सुवर्चाः । वीरसूर्देवकामा स्योना
शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविदुत्त-
रः । तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनु-
ष्यजाः । सोमो ददद्गन्धर्वाय गन्धर्वो दद-
द्गनये । रयिं च पुत्रांश्चादादग्निर्नह्यमथो
इमाम् ॥ सा नः पूषा शिवतमासेरय सा न
ऊरू उशती विहर । यस्यासुशन्तः प्रहराम
शोपं यस्यासु कामा वहवो निविष्ट्यै ॥

इति वरपठितमन्त्रान्ते परस्परं निरीक्षणम् ।

क्षेपक

ऋग्वेद मण्डल १० सू० ८५ मं० २५ ॥

इमांस्त्वमिन्द्रमीद्वुःसुपुत्रां सुभगां कृणु । द-
शास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि ॥

पुरुष कापे पर पर के आगे होने वाले कन्या के अभिपेक पर्यन्त मौन रहना रहे ।
या रहना करे । [दृढ पुरुष कहने का कुम्भ की रत्ता में तारपर्यं है] तदनन्तर कन्या
दाता कहे कि (परस्पर समीक्षेयाम्) तब (ओम्—अधोरच०) इत्यादि मन्त्रो
को वर पढ़े मन्त्रो के अन्त में कन्या वर एक वृद्धे को देखे । तब अग्नि की

ततोऽग्निं प्रदक्षिणीकृत्य पश्चाद्गनेरहतवस्त्रवेष्टितं
 तृणपूलकं कटं वा निवेश्य तदुपरि दक्षिणचरणं दत्त्वा वधूं
 दक्षिणतः कृत्वा तामुपवेश्य पुष्पचन्दनताम्बूलवस्त्राद्यादाय-
 श्रौं तत्सदद्यकर्त्तव्यविवाहहोमकर्मणि कृताऽकृतावेक्षणरूप
 ब्रह्मकर्म कर्तुममुकगोत्रममुकशर्माणं ब्राह्मणमेभिः पुष्पच-
 न्दनताम्बूलवासोभिर्ब्रह्मत्वेन त्वामहं वृणो इति ब्रह्मणं
 वृणुयात् ॥ वृतोऽस्मीति प्रतिवचनम् ॥ यथाविहितं कर्म
 कुर्विति वरेणोद्यते कर्वाणीति ब्रह्मा ब्रूयात् । ततो वरोऽग्ने
 र्दक्षिणातो ब्रह्मणामग्निप्रदक्षिणाक्रमेणानीय अत्र त्वं मे
 ब्रह्मा भवेत्यभिधाय कल्पितासने समुपवेशयेत् ॥

ततः प्रणीतापात्रं पुरतः कृत्वा वारिणा परिपूर्य कुशै-
 राच्छाद्य ब्रह्मणो मुखमवलोक्य अग्नेरुत्तरतः कुशोपरि नि-
 दध्यात् । ततः परिस्तरणं बर्हिपश्चतुर्थभागमादाय आग्नेया-

प्रदक्षिणा करके अग्नि से पश्चिम ओर रुजे नये वस्त्र से लपेटे तृणोंके पूना या
 चटाई को रखके उसके ऊपर दहिना पग धरके कन्या को अपने से दहिनी
 ओर करके बैठा देवे और वर स्वयं बैठ जावे । तब ब्रह्मवशादि काम करे ।
 पुष्प चन्दन ताम्बूल और वस्त्रों को लेकर (ओमद्य०) इत्यादि वाक्य पठके य-
 जमान वर ब्रह्मा का वरण करे और पुष्पादि ब्रह्मा के हाथ में देवे । ब्रह्मा पुष्पादि
 को लेकर (वृतोऽस्मि) कहे । तब (यथाधि०) यजमान कहे और ब्रह्मा (कर्वाणि०)
 कहे । तब अग्नि से दक्षिण में शुद्ध आसन चौकी आदि बिछाकर उस पर पूर्व
 को जिन का अग्रभाग हो ऐसे कुश बिछाकर ब्रह्माको अग्नि की प्रदक्षिणा क-
 राके (अस्मिन् कर्मणि त्वं मे ब्रह्मा भव) इस कर्म में तुम मेरे ब्रह्मा ही ऐसा
 कहकर ब्रह्मा के (भवानि) कहने पर उस आसन पर ब्रह्मा को उत्तराभिमुख
 बैठाकर प्रणीतापात्र को सामने रखके जलसे भरके कुशों से आच्छादन कर ब्रह्मा
 का मुख अवलोकन करके अग्निसे उत्तर कुशोपर प्रणीतापात्र को प्रागग्र रखे ।

दीशानान्तं ब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तं नैर्ऋत्याद्वायव्यान्तमग्निः
 प्रणीतापर्यन्तं ततोऽग्नेरुत्तरतः पश्चिमदिशि पवित्रच्छेदनार्थं
 कुशत्रयं पवित्रकरणार्थं साग्रमनन्तर्गभं कुशपत्रद्वयं प्रोक्षणी
 पात्रं प्राज्यस्याली संमार्ज्जनाथं कुशत्रयं समिधस्त्रिः सुव
 प्राज्यं पूर्णपात्रं पूर्वपूर्वदिशि क्रमेणासादनीयम् ॥

अथ तस्यामेव दिशि असाधारणवस्तून्पुपकल्पनी-
 यानि तत्र शमीपलाशमिश्रा लाजाः, हृषदुपलं कुमारीभा-
 ता हृषदुपुरुषः, अन्यदपि तदुपयुक्तमालेपनादि द्रव्यम् ॥ ततः
 पवित्रच्छेदनकुशैः पवित्रे छित्वा ततः सपवित्रकरणेण प्रणी-
 तोदकं त्रिःप्रोक्षणीपात्रे निधाय अनामिकाङ्गुष्ठाभ्यामुत्तरा-
 ग्रे पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुदिङ्गनं प्रणीतोदकेन प्रोक्षणीज-

तदनन्तर चार मुठ्ठी कुश लेकर अग्नि के सब आर परिस्तरण करे—एक चौथाई
 कुश अग्निकोण से ईशानदिशा तक, द्वितीयभाग ब्रह्माके आसन से अग्निपर्यन्त,
 तृतीयभाग नैर्ऋतकोण से वायुकोण पर्यन्त और चौथाभाग अग्नि से प्रणीता पर्यन्त
 बिछावे । तदनन्तर अग्नि से उत्तर में प्रायमंस्य पात्रासादन करे । पवित्र छेदनार्थ
 तीन कुश तथा पवित्रकरणार्थ अग्रभाग सहित जिन के भीतर अन्य कुश न हों
 ऐसे दो कुश, प्रोक्षणीपात्र, प्राज्यस्याली, संमार्जनकुश, उपयमनकुश, टांक की
 तीन समिधा, सुव, प्राज्य, चावलों से भरा एक पूर्णपात्र, पवित्र छेदन कुशों से
 पूर्व पूर्व क्रम से उत्तर को अग्रभाग कर २ इन सब का स्थापन करे । तदनन्तर
 उसी पूर्व दिशा में त्रिवाह सप्तन्वी विशेष पदार्थों का स्थापन करे । शमी-
 द्युर्गकर के पत्तोंसेमिश्रितपान की सीले, शिल, कन्या का भाई, एक पड़ा स-
 हित दृढ पुरुष तथा अन्य भी आलेपनादि उपयोगी पदार्थ घरे । पवित्रछे-
 दनार्थ तीन कुशों से प्रादेशमात्र दो कुशों का छेदन करके पवित्र सहित दहि-
 ने हाथ से प्रणीता के जल को तीन बार प्रोक्षणीपात्र में हाल कर अनामिका
 और अङ्गुष्ठ से पकड़े हुये पवित्रों से उस प्रोक्षणीस्य जन का उत्पवन करे और
 प्रणीता के जल से प्रोक्षणीस्य जल का पवित्रों द्वारा तीन बार अभिषेचन कर

लेन यथासादितवस्तुसेचनम् ॥ ततोऽग्निप्रणीतयोर्मध्ये प्रो-
क्षणीपात्रनिधानम् ॥ आज्यस्थालयामाज्यनिर्वापः । ततो-
ऽधिप्रचणम् । ततो ज्वलत्तृणादिना हविर्वैष्टयित्वा-प्रद-
क्षिणक्रमेण वह्नौ तत्प्रक्षेपः पर्यग्निकरणम् । ततः सुवप्रतपनं
कृत्वा सम्मार्जनकुशानामग्रैरन्तरतो मूलैर्वाहृतः सुवं संम-
ज्य प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य पुनः प्रतप्य सुवं दक्षिणतो निद-
ध्यात् । तत-आज्यस्थानेरवतारणं तत आज्ये प्रोक्षणी-
वदुत्पवनम् ॥ अवेक्ष्य सत्यपद्रव्ये तन्निरतनम् ॥ पुनः
प्रोक्षणयुत्पवनम् ॥

ततः उपयमनकुशानादाय उत्तिष्ठन्प्रजापतिं मनसा
ध्यात्वा तूष्णीमग्नौ घृताक्तास्तिस्रः समिधः क्षिपेत् ॥ त-
तउपविश्य सपवित्रप्रोक्षणीजलेन प्रदक्षिणक्रमेणाग्निप-

के प्रोक्षणीपात्र के जन से आशादन किये आज्यस्थाली आदि का सेचन करके
अग्नि और प्रणीतापात्र के बीच में प्रोक्षणीपात्र को रग देवे । तब आज्यस्था-
ली में घृतपात्र से घृत गिरावे घृत को अग्नि पर धरके सूखे कुछ जलाकर घी
के ऊपर प्रदक्षिण क्रमण कराके अग्नि में जलते कुछ फेंक कर सुवा को तीन
बार अग्नि में तपा के सम्मार्जन कुशों के अग्रभाग से भीतर को ओर कुशों के
मूलभाग से बाहर की ओर सुवा को झाड पोछ शृङ्गुकर तथा प्रणीता के जल
से सेचन करके और फिर तीन बार तपा के अग्नि से दक्षिण की ओर सुवा
को धर देवे । तत्पश्चात् तपते हुए घी की अग्नि से उत्तर के उत्तर में धरे । तब
तीन बार प्रोक्षणी के मुख्य पवित्रों से घी का उत्पवन करके देखे यदि घृत में
कुछ गिकट वस्तु ही तो निकाल कर फेंक देवे और फिर तीन बार प्रोक्षणीपात्र
का उत्पवन करे । तदनन्तर बैठ कर उपयमनयुशों को वाम हाथ में लीके प्रजा-
पति का मन से ध्यान करके घृत में हुयोई तीन समिधाओं की तूष्णीं विना
मन्त्र पढ़े एक २ कर अग्नि में चढावे । फिर बैठ कर पवित्र सहित प्रोक्षणी के
जल को प्रदक्षिणक्रम से ईशानकोण से लेकर उत्तर दिशा तक अग्नि के सब ओर

र्युक्षणं कृत्वा प्रणीतापात्रे पवित्रे निधाय पातितदक्षिण-
जानुः कुशेन ब्रह्मणान्वारिद्यः समिद्धुतमेऽग्नीं सुवेणाज्या-
हुतीर्जुहोति ॥ तत्राधारादारभ्य चतुर्दशाहुतिषु तत्तदाहुत्य-
नन्तरं सुवावस्थितहुतशेषघृतरय प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः ॥ ओं
प्रजापतये स्वाहा । इति मनसा-इदं प्रजापतये नमम ॥ ओमि-
न्द्राय स्वाहा-इदमिन्द्राय नमम ॥ इत्याधारी-ओं अग्नये स्वा-
हा-इदमग्नये नमम । ओं सोमाय स्वाहा-इदं सोमाय नमम ।
इत्याज्यभागौ ॥ ओं भूः स्वाहा । इदमग्नये नमम । ओं भुवः
स्वाहा । इदं वायवे नमम ॥ ओं स्वः स्वाहा । इदं सूर्याय नमम ।
एता महाव्याहृतयः ॥ शुक्रयजु० अध्याय० २१ मन्त्र ३ ॥

ओं-त्वन्नोऽअग्ने वरुणांस्य विद्वान् देव-
स्य हेडो अवयासि सीष्ठाः ॥ यजिष्ठो वह्नि-
तमः शोशुचानो विश्वा द्वेषाथंसि प्रमुसुग्ध्य-
स्मत्स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां नमम ॥

शुक्रयजु० अध्याय २१ । मन्त्र ॥ ४ ॥

ओं स त्वन्नोऽअग्नेऽवन्नोभवोतीनेदिष्ठो
ऽअस्यासंषसोव्युष्टौ । अवयद्वन्नोत्वरुणाथं

सेचन करे अर्थात् प्रोक्षणीपात्र का सब जल पर्युक्षण में गिरा देवे । प्रणीतापात्र
में दोनों पवित्र रखके प्रोक्षणीपात्र का विसर्जन करे । तदनन्तर दहिने घोंटू की
भूमि में टेक कर दृष्टा से जन्मरक्षक हुआ वर, यज्ञमान यथस्थित, अग्नि, में सुवा
से आज्याहुतियों का होम करे । यहां २ उस २ आहुति देने पश्चात् सुवा में
जो घृतविन्दु यथे वन की प्रोक्षणीपात्र में डालता जावे । प्रजापति का ध्यान
कर पूर्वाधार की तूष्णीं आहुति देवे । त्याग सब यज्ञमान स्वयं डोलता जाय ।
आधार की दो आज्य भाग की दो और महाव्याहृतियों की तीन सर्वप्रामाण्य

रराणो व्वीहि मृडीकथं सुह्रवो नग्धि स्वा-
हा । इदमग्नीवरुणाभ्यां नमम ॥

श्रीं-अथाश्राग्नेऽस्यनमिशस्तिपाश्रसत्यमित्त्वमयाश्रसि ।
अयानीयज्ञं वहास्ययानीधेहिभेपजथं स्वाहा ॥ इदमग्ने
नमम ॥ श्रीं येतेशतं वरुणयेसहस्रं यज्ञियाः पाशाविततामहा-
न्तः । तेभिर्नोऽग्नयसवितोतविष्णुर्विश्वेमुञ्जन्तु मरुतः स्व-
र्काः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो
मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यो नमम ॥

शुक्लयजु० अ० १२ (मूल) मन्त्र १२ ॥

उदुत्तमं व्वरुणा पाशमस्मदवाधमं वि
मध्यमथं श्रायाय । अथाव्वयमादित्यव्वृते-
तवानागसोऽन्द्रदितये स्यामस्वाहा । इदं व-
रुणाय नमम ।

एताः सर्वप्रायश्चित्तसंज्ञकाः ॥ ५ ॥

ततोऽन्वारब्धं विना-श्रीं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्र-
जापतये नमम ॥ श्रीं अग्नेये स्विष्टकृते स्वाहा । इदमग्ने-
स्विष्टकृते नमम ॥ उदकोपस्पर्शनम् ॥ अथ राष्ट्रभृतः ।

तत्र द्वादश मन्त्रा यथा

शुक्लयजु० अध्याय १८ मन्त्र ३८

श्रीं-अताषाडृतधामाग्निर्गन्धर्वः सन

की पाच तथा प्रजापत्ये श्रीं स्विष्टकृत दे सय वीदह आहुति त्यागो सहित दिके
स्विष्टकृत पर्यन्त होम करने पश्चात् (श्रीम्-अताषा०) इत्यादि चारह मन्त्रों

इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ॥ इ-
 दं मृतासाहे ऋतधास्नेऽनये गन्धर्वाय नमः ॥
 ओं—ऋताषाडृतवामारिनरगन्धर्वस्तस्योष-
 थयोऽप्सरसो मुदो नामताभ्यः स्वाहा । इदं-
 सोपधिभ्योऽप्सरोभ्यो मुद्भ्यो नमः ॥

(यजु० अध्याय १८ मंत्र ३६ ॥)

ओं—सथंहितो विष्वसामासूर्यो गन्धर्वः स न-
 इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ॥ इदं स-
 थंहिताय विष्वसास्नेसूर्याय गन्धर्वाय नमः ॥

(यजु० अध्याय १८ मंत्र ३६)

सथंहितो विष्वसामासूर्यो गन्धर्वस्तस्य म-
 रीचयोऽप्सरसः आयुवो नामताभ्यः स्वाहा ॥
 इदं मरीचिभ्योऽप्सरोभ्यः आयुभ्यो नमः ॥

यजु० अध्याय १८ मंत्र ४०

ओं—सुपुष्णाः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्ध-
 र्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ॥
 इदं सुपुष्णाय सूर्यरश्मये चन्द्रमसे गन्धर्वा-
 य नमः ॥

यजु० अध्याय १८ मंत्र ४०

ओं—सुपुष्णाः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा ग-

न्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसोभेकुरयो नाम-
ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्योभे-
कुरिभ्यो नमसः ॥

यजु० अध्याय १८ मन्त्र ४१

ओं-इषिरोविश्वव्यचाव्वातोगन्धर्वः
सनऽइदम्ब्रह्मक्षत्रम्पातुतस्मै स्वाहा वाट् ॥ इ-
दमिषिराय विश्वव्यचसे वाताय नमसः ॥

यजु० अध्याय १८ मन्त्र ४१

ओं-इषिरोविश्वव्यचाव्वातोगन्धर्व-
स्तस्यापोऽप्सरसज्जर्जानामताभ्यः स्वाहा ॥
इदमद्भ्योऽप्सरोभ्यर्जग्भ्यो नमसः ॥

यजु० अध्याय १८ मन्त्र ४१

ओं-भुज्युःसुपर्णीयज्ञोगन्धर्वःसनइद-
म्ब्रह्मक्षत्रम्पातुतस्मै स्वाहा वाट् ॥ इदंभुज्यवे
सुपर्णीययज्ञायगन्धर्वाय नमसः ॥

यजु० अध्याय १८ मन्त्र ४१

ओं-भुज्युःसुपर्णीयज्ञोगन्धर्वस्तस्यद-
क्षिणाअप्सरसस्तावानामताभ्यः स्वाहा ॥ इ-
दं दक्षिणाभ्योऽप्सरोभ्यस्तावाभ्यो नमसः ॥

यजु० अध्याय १८ मन्त्र ४२

ओं-प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनोगन्धर्वः
 सनइदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् । इदं प्र-
 जापतये विश्वकर्माणो मनसे गन्धर्वाय नमम ॥
 ओं-प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनोगन्धर्वस्त-
 स्य ऽऋक्सामान्यत्सरोऽण्टयो नामताभ्यः-
 स्वाहा ॥ इदमृक्सामभ्यो ऽत्सरोभ्यण्टिभ्यो
 नमम । इतिराण्ट्रभूतः ॥

अथ जयाहोमः-ओं चित्तं च स्वाहा ॥ इदं चित्ताय नमम
 ॥१॥ ओं चित्तिश्च स्वाहा । इदं चित्त्यै नमम ॥२॥ ओं आकूतं
 च स्वाहा । इदमाकूताय नमम ॥३॥ ओं आकूतिश्च स्वाहा ।
 इदमाकूत्यै नमम ॥४॥ ओं विज्ञातञ्च स्वाहा । इदं विज्ञाताय
 नमम ॥५॥ ओं विज्ञातिश्च स्वाहा । इदं विज्ञात्यै नमम ॥६॥
 ओं मनश्च स्वाहा । इदं मनसे नमम ॥७॥ ओं शक्कर्यश्च स्वाहा ।
 इदं शक्करीभ्यो नमम ॥ ८ ॥ ओं दर्शश्च स्वाहा । इदं दर्शाय
 नमम ॥९॥ ओं पौर्णमासश्च स्वाहा । इदं पौर्णमासाय नमम
 ॥१०॥ ओं बृहच्च स्वाहा । इदं बृहते नमम ॥११॥ ओं रथ-
 न्तरं च स्वाहा । इदं रथन्तराय नमम ॥१२॥ ओं प्रजापतिर्ज-
 यानिन्द्राय वृष्णिमाय च्छुग्रः पृतनाजयेषु । तस्मै विशः समनम-
 न्तसर्वाः स उग्रः सह इह वयो बभूव स्वाहा ॥१३॥ इति जयाहोमः ॥

ये राष्ट्रभूतसंज्ञक १२ काष्ठुति देकर (ओं चित्तं च) इत्यादि तेरह मन्त्रो वे

अथाभ्याताननामहोमः ॥ ओं अग्निर्भूतानामधिपतिः

समावत्वस्मिन्ब्रह्मण्यरिमन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायाम-

स्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्याथ स्वाहा ॥ १ ॥ इदमग्नये भूतानाम-

धिपतये नमम ॥ १ ॥ ओं इन्द्रोज्येष्ठानामधिपतिः समावत्व-

रिमन्ब्रह्मण्यरिमन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामरिमन्क-

र्मण्यस्यां देवहृत्याथ स्वाहा । इदमिन्द्रायज्येष्ठानामधिप-

तये नमम ॥ २ ॥ ओं यमः पृथिव्याऽअधिपतिः समावत्वस्मिन्ब्र-

ह्मण्यस्मिन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां

देवहृत्याथ स्वाहा । इदं यमाय पृथिव्याऽअधिपतये नमम ॥ ३ ॥

अत्र प्रणीतोदकरपर्शः ॥ ओं वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः समाव-

त्वरिमन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्क-

र्मण्यस्यां देवहृत्याथ स्वाहा । इदं वायवेऽन्तरिक्षस्याधिपतये

नमम ॥ ४ ॥ ओं सूर्योऽदिवोऽधिपतिः समावत्वस्मिन्ब्रह्मण्यरिम-

न्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्याथ

स्वाहा । इदं सूर्याय दिवोऽधिपतये नमम ॥ ५ ॥ ओं चन्द्रमा-

नक्षत्राणामधिपतिः समावत्वरिमन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेऽस्यामा-

शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्याथ स्वाहा ।

इदं चन्द्रमसेनक्षत्राणामधिपतये नमम ॥ ६ ॥ ओं बृहस्पतिर्ब्र-

ह्मण्योऽधिपतिः समावत्वस्मिन्ब्रह्मण्यरिमन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्य-

स्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्याथ स्वाहा । इदं बृह-

स्पतये ब्रह्मण्योऽधिपतये नमम ॥ ७ ॥ ओं मित्रः सत्यानाम-

धिपतिः समावत्वस्मिन्ब्रह्मण्यरिमन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां

रोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहूत्याथ् स्वहा । इदं मित्राय स-
 त्यानामधिपतये नमम ॥८॥ अथ वरुणाऽपामधिपतिः समा-
 वत्वरिमन्त्रह्रण्यस्मिन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्-
 कर्मण्यस्यां देवहूत्याथ् स्वहा । इदं वरुणायापामधिपत-
 ये नमम ॥९॥ अथ समुद्रः स्रोत्यानामधिपतिः समावत्वरिमन्त्र-
 ह्रण्यस्मिन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां-
 देवहूत्याथ् स्वहा । इदं समुद्रायस्रोत्यानामधिपतये नमम
 ॥१०॥ अथ अन्नथ्साम्राज्यानामधिपतिः समावत्वरिमन्त्रह्र-
 ण्यस्मिन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां दे-
 वहूत्याथ् स्वहा । इदं मन्त्रायसाम्राज्यानामधिपतये नमम
 ॥११॥ अथ सोमश्रोपधीनामधिपतिः समावत्वरिमन्त्रह्रण्य-
 स्मिन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देव-
 हूत्याथ् स्वहा । इदं सोमायश्रोपधीनामधिपतये नमम ॥१२॥
 अथ सविताप्रसवानामधिपतिः समावत्वरिमन्त्रह्रण्यस्मिन्-
 क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहूत्याथ्
 स्वहा । इदं सवित्रेप्रसवानामधिपतये नमम १३ अथ रुद्रः पशूना-
 मधिपतिः समावत्वरिमन्त्रह्रण्यस्मिन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां
 पुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहूत्याथ् स्वहा । इदं रुद्राय
 पशूनामधिपतये नमम ॥१४॥ अथ अग्नीतोदकरपर्शः ॥ अथ त्व-
 ष्टारूपाणामधिपतिः समावत्वरिमन्त्रह्रण्यस्मिन्क्षत्रेऽस्यामा
 शिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहूत्याथ् स्वहा ।
 इदं त्वष्ट्ररूपाणामधिपतये नमम ॥१५॥ अथ विष्णुः पर्वतानाम-
 धिपतिः समावत्वरिमन्त्रह्रण्यस्मिन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांपु-

रोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यादेवहूत्याथ स्वाहा । इदंविष्णवे
 प्रजानामधिपतये नमम ॥१६॥ ओं मरुतो गणानामधिपत-
 यस्तेमावन्त्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांपुरोधा-
 यामस्मिन्कर्मण्यस्यादेवहूत्याथ स्वाहा । इदंमरुद्भ्योगणाना-
 मधिपतिभ्यो नमम ॥१७॥ ओं पितरःपितामहाःपरेवरेतता-
 स्ततामहा इहमावन्त्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां
 पुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यादेवहूत्याथ स्वाहा । इदंपितृभ्यः
 पितामहेभ्यःपरेभ्योऽवरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यो नमम ॥१८॥
 अत्र प्रणीतोदकस्पर्शः ॥ इत्यभ्याताननामहोमः ॥

अथाज्यहोमः—ओंअग्निरैतुप्रथमोदेवतानाथसौर्यैप्र-
 जामुच्चतुमृत्युपाशात् । तदयथराजावरुणोऽनुमन्यतां यथेय-
 थस्त्रीपौत्रमघन्नरोदात्स्वाहा । इदमग्नयेनमम ॥१॥ ओंइमा
 मग्निस्त्रायतांगार्हपत्यःप्रजामस्यैनयतुदीर्घमायुः ॥ अशून्यो-
 पस्थाजीवतामरतमातापौत्रमानन्दमभिविबुध्यतामियथस्वा-
 हा ॥इदमग्नयेनमम ॥२॥ ओं—स्वस्तिनोऽग्नेदिवापृथिव्यावि-
 श्वानिधेह्यऽयथायजत्र ॥ यदस्यामहिदिविजातंप्रशस्तंतद-
 स्मासुद्रविणंधेहिचित्रथस्वाहा । इदमग्नयेनमम ॥३॥ ओं सुगन्तु-
 पन्थांप्रदिशन्नएहिज्योतिष्मद्देह्यजरन्नभ्यायुः । अपैतुमृत्युरमृ-
 तंनभ्यागाद्वैवरवतीनोऽभ्रभयंष्टुणीतुस्वाहा ॥ इदमग्नयेनमम ४
 ओम्—परंमृत्योऽनुपरिहिपन्थांयरतेऽन्यइतरदेवयानात् । च-

न होम करे । तीसरी चौदहवीं और अठारहवीं आहुति के उक्त में दहिने हाथ
 से प्रणीता के जल का स्पर्श करते थे । तदनन्तर (ओम्—अग्निरितु०) इत्यादि
 पाँच मन्त्रों से पाँच आहुति घृत की देवे । चौथी और पाँचवीं आहुति के उक्त में

क्षुप्मते शृग्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजात्थं रीरिपो मोतवीरान् स्वाहा
 इदं वैवस्वताय नमम ॥५॥ अत्र प्रणीतोदकरुपर्शः ॥ ततो वधू-
 मग्रतः कृत्वा वधूवरौ प्राङ्मुखौ स्थितौ भवतः ॥ ततो बरा-
 ङ्जलिपुटोपरिसंलग्नवध्वञ्जलिपुटोपरिघृताभिघारितवधू-
 भ्रातृदत्तशमीपलाशमिश्रैर्लाजैर्वधूकर्तृकोहोमः ॥

५१ ध्यो—अर्थमणं नु देवं कन्या अग्निमयक्षत । सनो अर्थमादे-
 वः प्रेतो मुञ्चतु मापतेः स्वाहा ॥१॥ इयं नार्थ्युपद्रूते लाजानाव-
 पन्तिका । आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम रवाहा ॥२॥
 इमं लाजानावंपाभ्यग्नी समृद्धिकरणं तव । मम तुभ्यच्च संवन-
 नंतदग्निरनुमन्यतामियत्थं स्वाहा ॥३॥ अथारथैदक्षिणं हस्तं
 गृह्णाति वरः साङ्गुष्ठम् । ध्यो गृभ्यामिते सौ भगत्वाय हरतं
 मया पत्याजरदष्टिर्यथासः । भगोऽर्थमासयिता पुरन्धिर्मह्यत्वा-
 दुर्गार्हपत्याय देवाः ॥४॥ ध्योम्—अमोहमस्मि सात्वत्थं सात्वम-
 स्यमोऽहम् ॥ सामाहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथिवीत्वम् ॥५॥ तावे-
 व विवहावहै सहरेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान्विन्द्याव-
 हैयहून् ॥६॥ ते सन्तु जरदष्टयः संप्रियौ रोचिष्णु सुमनस्यमानी ॥
 पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतम् ॥७॥

प्रणीता के जल का स्पर्श करे । तदनन्तर कन्या को आगे करके कन्या घर दो-
 नो पूर्वाभिमुख रहें होंगे । तदनन्तर घर की अङ्गलि पर सम्मिलित कन्या की
 अङ्गलि धरे सह कन्या की अङ्गुली में पी मिलाये शमी [धर्मकर] के पत्तों
 कटित लाजा [धान की खीरे] कन्या का हाथ अग्रतः अङ्गुली से भरे । उन
 अङ्गुली भर लाजाओं से कन्या तीन आहुति (ध्योम्—अर्थमणं) इत्यादि तीन
 मन्त्रों से देवे । तदनन्तर (गृभ्यामिते०) इत्यादि मन्त्र पठता हुआ वर कन्या
 के दहिने हाथ की अंगूठे सहित पकड़े । तत्पश्चात् पूर्वाभिमुख रहता हुआ वर
 पहिले से अग्नि के तत्पर में रखी हुई पत्थर की शिला पर कन्या के दहिने

श्रीं शारोहेममश्मानमश्मेव त्वत्थं स्थिरा भव ॥ अभितिष्ठ-
 पृतन्यतोऽववाधस्व पृतनायतः ॥ अथ गार्थां गायति ॥ स-
 रस्वतीप्रदमवसुभगे वाजिनीवति ॥ यांत्वाविश्वस्यभूतरय
 प्रजायामस्याग्रतः । यस्यांभूतं समभवद्यस्यांविश्वमिदंजग-
 त् । तामद्यगाथांगास्यामियास्त्रीणामुत्तमंयशइति ॥ अथ-
 वधूवरौ अग्निंपरिक्रामतरस्तुभ्यमग्नेइतिमन्त्रेण ॥

ऋ० मं० १० अ० ७ सू० ८५ मंत्र ३८ ।

तुभ्यमग्नेपर्यावहनसूर्यावहतुनासह । पुनः
 पतिभ्योजायांदाअग्नेप्रजयासह । इतिपठन्
 परिक्रामेत् ॥ १० ॥

एवं पश्चादग्नेः स्थित्वा-लाजाहोमसाङ्गुष्ठहस्तग्रह-
 णाशमारोहणगाथागानाग्निप्रदक्षिणानि पुनरपि द्विस्तथैव
 कर्तव्यानीति ॥ एतेन नवलाजाहृतयः साङ्गुष्ठहस्तग्रहण-
 त्रयं च संपद्यते तथाऽत्रासनविपर्ययः । ततोऽवशिष्टलाजैः

पग की (शारोहे०) मन्त्र को पढ़ता हुआ धरवावे । कन्या पत्थर पर पग धरें ही इमी धीच में वर (श्रीं सरस्वती०) इत्यादि गाया गावे । तदनन्तर आगे कन्या चले और पीछे वर चले प्रणीता और ब्रह्मा सहित अग्निकी दीनों परिक्रमा करें । परिक्रमा करते समय (श्रीं तुभ्यमग्ने०) मन्त्र को वर पढ़ता चले । तत्पश्चात् अग्नि से पश्चिम में पूर्वाभिमुख दीनों वधू वर खड़े हों और पूर्ववत् तीन मन्त्रों से लाजा होम अङ्गुष्ठ सहित पाणिग्रहण, अश्मारोहण गाथागान और अग्नि की प्रदक्षिणा सब पूर्ववत् करके इसी प्रकार लाजा होमादि परिक्रमा पर्यन्त सब काम मन्त्रों सहित तीसरीवार भी करें । इस प्रकार नव लाजाहुति और तीन वार अङ्गुष्ठ सहित पाणिग्रहण हो जाता है । इसी समय कन्या का आसन वर से उत्तर में कर देना चाहिये । तदनन्तर शमी के पत्तों सहित शेष

कन्याभातृदत्तैरञ्जलिस्थशूपकोणेन वधूर्जुहोति ॥ ओं भ-
 गायस्वाहा-इदं भगाय नमम । अथाग्ने वरः पश्चात्कन्या तू-
 ष्णीमेव चतुर्थपरिक्रमणं कुरुतः ॥ ततोवरउपविश्य ब्रह्म-
 णान्वारदधघ्राज्येन प्राजापत्यं जुहुयात् । ओं प्रजापतये
 स्वाहा । इदं प्रजापतये नमम । इति मनसा ॥ अत्र प्रोक्षणी-
 पात्रे आहुतिशेषाज्यस्य प्रक्षेपः ॥ ततश्चालेपनेनोत्तरोत्तरकृ-
 तसप्तमण्डलेषु वधूं सप्तपदाक्रमणं वरः कारयेद् वक्ष्यमा-
 णमन्त्रैः ॥ ओं एकमिषे विष्णुस्त्वा नयतु ॥ कन्या-धनंधान्यं-
 चमिष्टान्नं व्यञ्जनाद्यंचयद्गृहे । मदधीनंच कर्त्तव्यं वधूराद्ये-
 पदेवदेत् ॥१॥ वरः-द्विजज्जविष्णुस्त्वानयतु ॥ क०-कुटुम्बंप्र-
 थयिष्यामि सदातेमञ्जुभाषिणी । दुःखेधीरासुखेहृष्टा द्विती-

यचे लाजा कन्या का भाई सूप सहित कन्या को देदेवे और कन्या (भगाय०)
 मन्त्र से सूप के कोणे से होम कर देवे । इस के पश्चात् आगे वर और पीछे वधू
 चले तूष्णी चौथी परिक्रमा करें । तत्पश्चात् अग्नि से पश्चिम दहिनी ओर वर
 तथा बाई ओर कन्या बैठे तब ब्रह्मा के अन्वार्गम्भ करने पर वर मन्त्र का मन
 से उच्चारण करके घृत से प्राजापत्याहुति करे । यहा सुवा के शेष घृत को प्रो-
 क्षणीपात्र में डाले । तदनन्तर अग्नि से उत्तर में मात गोलाकार लेपन किये
 मण्डलो में कन्याको वर घात वार अगने (ओमेकमिषे०) इत्यादि मन्त्रो से
 पग धरावे । अर्थात् पहिली पग धराने में वर कहता है कि (एकमिषे०) अन्नादि
 प्राप्ति के लिये विष्णु तुम को एक पद चलावे अर्थात् अन्नादि की रत्ता पुष्टि
 बनाना दिलाना आदि तुम्हारा काम होगा । इस पर कन्या वर से कहे कि
 (धन धान्यं च०) हे माभ्यवर धन, धान्य-अन्न मिठाई, दूध दही आदि जो
 कुछ घर में रहने वाले वस्तु हो वे सब मेरे आधीन आप को करने चाहिये ।
 यह पहिला पग धरने में वधू कहे । तदनन्तर वर (द्विकर्त्त०) बल वा रस के
 लिये विष्णु तुम को द्वितीय पद चलावे ॥ वधू (कुटुम्बं०) मैं आप के कुटुम्ब
 को घटाऊंगी और सदा कोमल भाषण करूंगी । दुःख वा विपत्ति में धीरज
 रक्षूंगी और सुख सम्पत्ति के समय प्रसन्न रहूंगी यह प्रतिज्ञा वधू द्वितीय पग

पतिजी पुष्टि

घेसाऽत्रवीद्वरम् ॥ २ ॥ वरः-त्रीणिरायस्पोषाय विष्णुस्त्वानयतु । क०-ऋतौकालेशुचिःस्नाता क्रीडयामित्वयासह ।

नाहंपरपतिं यायां तृतीयेसाऽत्रवीद्वरम् ॥ ३ ॥ वरः-चत्वारिमायाभवायविष्णुस्त्वानयतु । क०-लालयामिचकेशान्तं

गन्धमालयानुलेपनैः । काञ्चनैर्भूपणैरतुभ्यं तुरीयेसाऽत्रवीद्वरम् ॥४॥ वरः-पञ्चपशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु । क०-सखीपरिवृतानित्यं गृह्येकर्मणितत्परा । त्ययिभक्ताभुविष्यामिपञ्चमेसाऽत्रवीद्वरम् ॥५॥ वरः-पङ्कजतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ॥

क०-यज्ञेहीमेचदानादौ भवेयंतववामतः । यत्रत्वंतत्रतिष्ठामि पदेपष्टेऽत्रवीद्वरम् ॥६॥ वरः-सखेसप्तपदाभवसामामनुव्रता-

घरने में करे । वर-(रायस्पोषाय०) धनकी पुष्टि के लिये अर्थात् लक्ष्मीशोभा शूद्धार बढ़ाने के लिये विष्णु तुम को तीसरा पग चलावे । वधू-(ऋतौकाले०) ऋतुकाल में स्नान कर शुद्ध हुई शुद्ध वस्त्र पहिन कर आप के साथ क्रीडा करूंगी मैं कभी परपति का ध्यान भी न करूंगी यह प्रतिज्ञा तीसरा पग धरने में वधू करे । वर-(चत्वारिमायो०) सुख होने के लिये चौथा पग विष्णु तुम को चलावे । वधू-(लालयामि च०) सुगन्ध इतर फुल्ल आदि वेशों पर्यंत सब शरीर में लगाने, केशर चन्दनादि सुगन्ध का स्नान के पश्चात् अनुलेपन करने और सुवर्ण के आभूषण पहन कर आप को प्रसन्न करूंगी यह चौथा पग धरने में कन्या प्रतिज्ञा करे । वर-(पञ्च०) गौ भैंसे आदि के दूध आदि से सुख होने के लिये घोंडा आदि से होने वाले सुख के लिये तुम को विष्णु पांचवां पग चलावे । कन्या-(सखीपरि०) मैं सदा अपनी सखी सहेलियों सहित गृहस्थी के काम में तत्पर रहती हुई आप की भक्ति करूंगी यह प्रतिज्ञा पांचवां पग धरने में कन्या करे । वर-(पङ्कज०) छः ऋतुओं स्वस्थी सुख प्राप्त कराने के लिये विष्णु तुम को छठा पग चलावे । कन्या-(यज्ञे होमे च०) यज्ञ होम और दानादि पुण्य कर्म करने में मैं आप से जांयी और बैठूंगी और जहां आप रहेगे वहाँ रहूंगी साथ नहीं छोड़ूंगी यह प्रतिज्ञा छठा पग धरने में कन्या करे । वर (सप्तपदा०) मेरे साथ मित्रता और सदा दृढ़ प्रीति रखने के लिये

भवविष्णुस्त्वानयतु ॥ कन्या-सर्वदेवार्चनंहित्वाभजेयं त्वांह-
द्व्रता । भवानेवगुरुर्मंडस्त्रिसप्तमेसाऽत्रवीद्वरम् ॥ १॥ ततोऽग्नेः
पत्रचातुपविश्य पुरुषस्कन्धे रिथतात्कुम्भादास्यपल्लवेन ज-
लमानीय तेन वरो वधूमभिषिञ्चति ॥ ओं आपः शिवाः
शिवतमाः शान्ताःशान्ततमास्तास्तेकृशवन्तुभेषजमिति ।
धनेन मन्त्रेण, पुनस्तथैव तस्मादेव कुम्भात्तथैवानीतजलेन-

य० छ० ११ मन्त्र ५

ओम्-आपोहिष्ठास्योभुवस्तानऊर्ज-
दधातन ॥ महेरणायचक्षसे ॥ ओम्-योवः
शिवतमोरसस्तस्यभाजयतेहनः । उशतीरिव-
मातरः ॥ ओम्-तस्माऽअरङ्गमानवोयस्य-
क्षयायजिन्वथ ॥ आपोजनयथाचनः ॥ इति
तिसुभिर्वधूमात्मानं चाभिषिञ्चति ॥ इति ॥
ततःसूर्यमुदीक्षस्वति वधूं, सम्बोधयति वरः ॥ तच्चक्षुरित्यूचं
पठित्वा वधूः सूर्यं पश्येत् ॥

पतिव्रता धर्म का टीका २ पालन करने वाली मातो धामो में तुम प्रख्यात हो
जाओ और इसके लिये विष्णु तुम को सातवा पग चलावे । कन्या-(सर्वदेवा-
र्चनं) में दूध नियम के साथ सब देवताओं का पूजन छोड़ के केवल एक आप
का ही भजन पूजन सेवा शुभ्रूपा करूंगी आपही एक मेरे गुरु हैं मैं खासी वै-
रागी सदासी सड़ मुसंडे किसी के दर्शनको भी कभी न जाऊंगी और किसी अन्य
पुरुष का कभी मन से ध्यान भी नहीं करूंगी । तदनंतर अग्नि से पश्चिम में
बैठकर किसी पुरुष के कन्धेपर धरे हुए वा रसित पडे से आस के पत्तेद्वारा जन
लेकर वर वधू के गिर पर (ओं-आप शिव) से अभियेक करे तथा (आपोहिष्ठाः)
इत्यादि तीन मन्त्रों से वधू के और अपने दोनों के ऊपर अभियेक करे । तब

यजु० श्र० ३६ मंत्र २४

तच्चक्षुर्द्वैवहितम्पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् ।
 पश्येम शरदः शतञ्जीवेम शरदः शतथं शृणु-
 याम शरदः शतम्प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः-
 स्याम शरदः शतस्मयश्च शरदः शतात् ॥

इति पठित्वा सूर्यं पश्यति ॥ अस्तंगते सूर्ये ध्रुवमुदीक्षस्व
 इति प्रैपानन्तरं कन्या ध्रुवं पश्येत् । यदि ध्रुवतारा न दृश्येत
 तथापि कन्या पश्यामीति ब्रूयात् । तत्र वरपठनीयो मन्त्रः ॥

ओं-ध्रुवमसिध्रुवंत्वापश्यामि ध्रुवैधि-
 षोष्ये मयि । मह्यंत्वादाद्बृहस्पतिर्मघाप-
 त्याप्रजावतीसञ्जीवशरदःशतम् ॥

अथ वरो वधूदक्षिणांसस्योपरि हस्तं नीत्वा तस्या
 हृदयमालभेत । मन्त्रो यथा-

ममव्रतेतेहृदयंदधानिममचित्तमनुचित्त-
 तेऽग्रस्तु ॥ ममवाचमेकमनाजुषस्वप्रजाप-
 तिष्टानियुनक्तुमह्यम् ॥

वर पढ़े (सूर्यमुदीक्षस्व०) कि तुम सूर्य को देखो और वधू (तच्चक्षुर्द्वैव०) मन्त्र
 पढ़ के सूर्य का दर्शन करे । यदि सूर्य के अस्त होजाने पर रात्रि में विवाह हो
 तो वर कहे (ध्रुवमुदीक्षस्व) कि तुम ध्रुव को देखो और (ध्रुवमसि०) इत्यादि
 मन्त्र को वर पढ़े । यदि कन्या को ध्रुव न दीखता हो तो भी कहदे कि (प-
 श्यामि) देखती हूं । तत्पश्चात् वर वधू के दहिने कंधे के ऊपर से दहिना हाथ
 लाकर वधू के हृदय का स्पर्श (ममव्रते०) मन्त्र पढ़के करे । तदनन्तर वर वधू की

इति मन्त्रेण । अथ वधूमभिमन्त्रयति वरः ।

सुमङ्गलीरियंवधूरिमाथंसमेत पश्यत ।
सौभाग्यसस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतन ॥

अथ स्विष्टकृद्गोमः ॥ ओं अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा ।
इदमग्नये स्विष्टकृते नमम ॥ अत्र सुवावशिष्टाज्यरय प्रो-
क्षणीपात्रे प्रक्षेपः । अथञ्च होमो ब्रह्मणान्वारब्धकर्तृकः ॥
अथ संस्रवप्राशनम् । ततश्चाचम्य पूर्णपात्रं दक्षिणां ब्रह्मणे
दद्यात् ॥ ओं अद्यकृतैतद्विवाहहोमकर्मणि ब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थं
मिदं पूर्णपात्रं प्रजापतिदेवतममुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्रह्मणे
ब्राह्मणाय दक्षिणा तुभ्यमहं सम्प्रददे । ओं स्वस्तीत्युक्त्वा ब्र-
ह्मा प्रतिगृह्णीयात् । तत-ओमद्य कृतैतद्विवाहहोमकर्मण्या-
चार्यकर्मप्रतिष्ठार्थमिदं हिरण्यमग्निदैवतं द्रव्यं यथानाम
गोत्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय दक्षिणां तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥
अत्र ग्रामवचनं च कुर्युः ॥ ओं सुमित्रिया न आपओपधयः
सन्तु । इति पवित्रद्वारा प्रणीताजलं गृहीत्वा शिरः समुज्य ।

और देवता हुआ (सुमङ्गलीरियं), मन्त्र पढ़े । पश्चात् दक्षिण के अ.चारम
करने पर (अग्नयेस्विष्टे) मन्त्र से स्विष्टकृत् आहुति करे और सुवा में दक्षे
शेष पृतविन्दुओं को प्रोक्षणी पात्र में गिरावे । तत्र संस्रव प्राशन कर आपमन
करके (ओमद्य कृतैः) इत्यादि स्वरूप याग्य पद के प्रथम ब्रह्मा को पूर्ण
पात्र दक्षिणा देवे ब्रह्मा स्वस्ति कहकर स्वीकार करे । तदनन्तर आचार्य को
भी वक्त प्रकार दक्षिणा देवे । इसी समय षट् स्वी पुक्तियों के कथनानुसार
कुलाचार देशाचार की रीति करे तदनन्तर (ओसुमित्रियात्) मन्त्र पढ़के प्र-
णीता के जल से पवित्र द्वारा शिरपर मारजंन करे और (ओदुमित्रिः) मन्त्र से

ओं-दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः ॥
इत्यैशानयां सपवित्रां सजलां प्रणीतां न्युञ्जीकुर्यात् ॥ ततः
स्तरणक्रमेण बर्हिस्तथाप्य ग्राज्येनाभिचार्य वक्ष्यमाणम-
न्त्रेण हस्तेनैव जुहुयात् ॥

य० अ० ८ मं० २१ ।

ओम्-देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गा-
तुमित । मनसस्पतऽइमं देवयज्ञथं स्वाहा
व्वातेधाः स्वाहा ॥ इति बर्हिर्होमः ॥

ततउत्थाय बध्वा दक्षिणहरतेन स्पृष्टैः सुवस्थघृतपु-
ष्पफलैः पूर्णाहुतिं कुर्यात् ॥ मूर्द्धानमिति मन्त्रस्य भरद्वाज
ऋषिर्वैश्वानरो देवता त्रिष्टुब्धन्दः पूर्णाहुतिहोमे विनियोगः ।

यजु अ० ७ मं० २४

ओम्-मूर्द्धानं दिवोऽन्नरतिस्पृथिव्यावैश्वान-
रमृतऽआजातमग्निम् । कविथंसम्राजमतिथिं
जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः स्वाहा ॥

इदमग्नये नमम ॥ ततउपविश्य सुवेण भस्मानीय
दक्षिणानामिकाग्रगृहीतभस्मना ॥

प्रणीता के शेष जलको ईशान दिशा में लौटा देवे । तब स्तरण क्रम से कुशों
को ठठाकर घृत से अभिचारण करके (ओ देवागातु०) मन्त्र पढ़ के हाथ से ही
कुशों का होम कर देवे । तदनन्तर घर खड़ा होके बधू के दहिने हाथ से स्पर्श
कराये घृत पुष्प और फलों से भरे सुवाद्वारा (ओमूर्द्धानं०) मन्त्र पढ़के पूर्णाहुति
देवे । तब सुवाद्वारा भस्म लेकर दहिने हाथ की अनामिका से (ज्यामुप०) से

य० अ० ३ मं० ६२

ओं-त्र्यायुषंजमदग्नेः । इतिललाटे ।

ओं-कश्यपस्य त्र्यायुषम् । इति ग्रीवायाम् ।

ओं-यद्वेवेषुत्र्यायुषम् । इति दक्षिणबाहुमूले ॥

ओं-तन्नोऽअस्तु त्र्यायुषम् । इति हृदये ॥

अनेनैव क्रमेण वध्वाअपि त्र्यायुषं कुर्यात् । तत्र तन्नोइत्यत्र तत्ते इति विशेषः ॥ ततश्चाचारात्शशाशस्वशमीपुष्पाद्राक्षतारोपणसिन्दूरकरणं वरः कुर्यात् ॥ अथ वेदितो मण्डपमागत्य दूर्वाक्षतादिग्रहणम् ॥ ततस्त्रिरात्रमक्षारालवणाशिनौ अधःशायिनौ निवृत्तमैथुनौ भवतः । प्राट्मुखी वधूवरौ स्थितौ भवतः ॥ इति विवाहप्रवृत्तिः समाप्ता ॥

अथ चतुर्थीकर्म प्रारभ्यते ॥ तत्र चतुर्थीगपररात्रे चतुर्थीकर्म तच्च गृहाभ्यन्तरएव कार्यम् । ततउद्धर्तनादि कृत्वा युगकाष्ठउपविश्य वधूवरौ प्राट्मुखी भवतः ॥ ततः

ललाटे में (कश्यपस्य०) से षष्ठ में (यद्वेवेषु०) से दक्षिण बाहु के मूल में और (तन्नो०) से अपने हृदय में मसम लगावे । इसी प्रकार वधू के भी ललाटे में मसम लगावे वधू के मसम लगाते समय (तन्नो०) के स्थान में (तत्ते०) ऐसा पाठ मन्त्र में कहे । तदनन्तर आचार के अनुसार शय, शंङ्ख शमीपत्र पुष्प और गीले अक्षतो से वर कन्या के निन्दूर परे । तत्र वेदि में मण्डप में आकर दूर्वाक्षतादि ग्रहण करें । आगे तीन दिन शर्मांना भोजन करें पृथिवी पर सोवें अन्नचर्च से रहें ॥ इति विवाहप्रवृत्ति समाप्ता ॥

अथ-चतुर्थी कर्म

विवाह से चौथे दिन रात्रि के १२ बजे पश्चात् यह विवाह का शेष कर्म घर के भीतर करना चाहिये । उबटना और रनागादि काके वर वधू दोनों का

कुशकण्डिकाप्रारम्भक्रमः—जामातृहस्तपरिमितां वेदीं कुशैः
परिसमुह्य तान्कुशानैशान्यां दिशि निक्षिप्य गोमयीदकेनोप-
लिप्य स्फ्येन सूत्रेण वा प्रागग्रप्रदेशमात्रत्रिरुत्तरीत्तरक्रमे-
णोल्लिख्यउल्लेखनक्रमेणानामिकाङ्गुष्ठाभ्यामृदमुद्धृत्य जले-
नाभ्युक्ष्य तत्र तूष्णीं कांस्यपात्रेणाग्निमानीय स्वांभिमुखं
निदध्यात् ॥ ततः पुष्पचन्दनताम्बूलवस्त्राद्यादाय । ओं
अस्यां रात्रौ कर्तव्यचतुर्थीकर्महोमकर्मणि कृताऽकृतावेक्षण-
रूपब्रह्मकर्मकर्तुममुकगोत्रममुकशर्माणां ब्राह्मणमेभिः पुष्पच-
न्दनताम्बूलवासोभिर्ब्रह्मत्वेन त्वामहं वृणो । इति ब्रह्मणां
वृणुयात् । ओं वृत्तोऽस्मीति प्रतिवचनम् । यथाविहितं कं-
र्म कुर्विति वरेणीक्ते । करवाणीति ब्राह्मणो वदेत् ॥ ततो-
ऽग्नेर्दक्षिणतः शुद्धमासनं दत्त्वा तदुपरि प्रागग्रान्कुशाना-
स्तीर्थ्य ब्रह्मणामग्निप्रदक्षिणक्रमेणानीय, ओं अत्र त्वं मे

की चौकियों पर पूर्वाभिमुख बैठें और वेदिपरिममूहनादि होमयथा विधि करें ।
प्रथम वेदि में पञ्चभूसंस्कार करे—तीन कुशों से वेदि को ढाँड़ कर कुशों को
ईशान कीर्ण में फेंक कर गोबर और जल से लीप कर सूत्रा के मूल वा स्फ्य
से वेदि में उत्तर २ प्रागायत तीन रेखा करे अनामिका और अङ्गुष्ठ से रेखाओं
में से मट्टी को उठा कर फेंक के वेदि में जलसेचन करे । फिर कांसि वा मट्टी
के पात्र में अग्नि लाकर पश्चिमाभिमुख स्थापन करे । तदपश्चात्—पुष्प चन्दन
ताम्बूल और वस्त्रों को लेकर (ओमदा०) इत्यादि वाक्य पढ़के यजमान वर
ब्रह्मा का वरण करे और पुष्पादि ब्रह्मा के हाथ में देवे । ब्रह्मा पुष्पादि को
लेकर (वृत्तोऽस्मि) कहे । तत्र (यथावि०) यजमान कहे और ब्रह्मा (करवाणि०)
कहे । तत्र अग्नि से दक्षिण में शुद्ध आसन चौकी आदि बिछाकर उस पर पूर्व
को जिन का अग्रभाग हो ऐसे कुछ बिछाकर ब्रह्माको अग्नि की प्रदक्षिणा कः-
राके (अस्मिन् कर्मणि त्वं मे ब्रह्मा भव) इस कर्म में तुम मेरे ब्रह्मा हो ऐसे

ब्रह्माभवइत्यभिधाय । श्रीं भवानीति ब्राह्मणोक्तं । कल्पि-
तासने उर्द्वमुखं ब्रह्माणमुपवेशयेत् ॥ ततः पृथुदकपात्रम-
ग्नेरुत्तरतः प्रतिष्ठाप्य प्रणीतापात्रं पुरतः कृत्वा वारिणा
परिपूर्य्य कुशैराच्छाद्य ब्रह्मणो मुखमयत्नोक्त्याग्नेरुत्तरतः
कुशोपरि निदध्यात् ॥ ततः परिस्तरणम् । बर्हिषश्चतुर्थ-
भागमादायग्नेयादीशानान्तं ब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तम् नैर्ऋ-
त्याद्वायव्यान्तं अग्नितः प्रणीतापर्यन्तम् । ततोऽग्नेरुत्तर-
तः पश्चिमदिशि पवित्रच्छेदनार्थं कुशत्रयं पवित्रकरणार्थं
साग्नेमन्तर्गमं कुशपत्रद्वयं प्रोक्षणीपात्रमाञ्ज्यस्थाली सम्मा-
र्जनार्थं, कुशत्रयं उपयमनार्थं वेणीरूपं कुशत्रयं समिधस्तिस्रः
स्रुवः आञ्ज्यं । तत्राहुलपूर्णपात्रम् । एतानि पवित्रच्छेदन-
कुशानां पूर्वपूर्वदिशि क्रमेणासादनीयानि ॥ ततः पवित्रच्छे-
दनकुशैः पवित्रे खित्वा प्रादेशमित्तपवित्रकरणम् ॥ ततः

कहकर ब्रह्मा के (भवानी) कहने पर उस आसन पर ब्रह्मा को उत्तराभिमुख
बैठा कर किमी घड़े लकड़ा के अग्नि से उत्तर में स्थापित कर प्रणीतापात्र
को सामने रखके जल से भरके कुशों से आच्छादन कर ब्रह्मा का मुख अयत्नोक्त
करके अग्निसे उत्तर में कुशोंपर प्रणीतापात्र को प्रागय रखे । तदनन्तर चार
मुट्टी कुश लेकर अग्नि के सघ ओर परिस्तरण करे—एक चौपाई कुश अग्नि-
कोण से ईशानदिशा तक, द्वितीयभाग ब्रह्मा के आसन से अग्निपर्यन्त, तृतीय-
भाग नैर्ऋतकोण से वायुकोण पर्यन्त और चौथाभाग अग्नि से प्रणीता पर्यन्त
बिछावे । तदनन्तर अग्नि से उत्तर में प्रावसंख्य पात्रासादन करे । पवित्र छेदनार्थ
तीन कुश तथा पवित्रकरणार्थ अग्रभाग सहित जिन के भीतर अन्य कुश न हों
उसे दो कुश, प्रोक्षणीपात्र, आञ्ज्यस्थाली, संमार्जनकुश, उपयमनकुश, टाक की
तीन समिधा, स्रुव, आञ्ज्य, चावलों से भरा एक पूर्णपात्र, पवित्र छेदन कुशों से
पूर्व पूर्व दिशा में क्रम से उत्तर को अग्रभाग कर २ इंच सघ का स्थापन करे । प-
वित्रच्छेदनार्थ तीन कुशों से प्रादेशमात्र दो कुशों का छेदन करके पवित्र सहित

सपवित्रकरेण प्रणीतोदकं त्रिःप्रोक्षणीपात्रे निधाय अनामिकाद्गुप्ठाभ्यामुत्तराग्रे पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुत्पवनं ततः प्रोक्षणीपात्रस्य सव्यहस्तकरणम् । पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुदिङ्गनम् । प्रणीतोदकेन प्रोक्षणीप्रोक्षणम् । ततः प्रोक्षणीजलेन यथासादित्तवस्तुसेचनम् ॥ ततोऽग्निप्रणीतयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रं निधाय, आज्यस्थाल्यामाज्यनिर्वापः । ततोऽधिश्रवणं ततो ज्वलत्सृणादिना हविर्वैष्टयित्वा प्रदक्षिणक्रमेण पर्यग्निकरणम् । ततः सुव्रं प्रतप्य सम्मार्जनकुशानामग्रैरन्तरतो मूलैर्त्राहृतः सुव्रसंमार्जनम् ॥ प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य पुनः प्रतप्य सुव्रं दक्षिणतो निदध्यात् ॥ ततः प्राज्यस्याग्नेरवतारणम् । ततः प्राज्ये प्रोक्षणीवदुत्पवनम् । प्राज्यमवेक्ष्य सत्यपद्रव्ये तन्निरसनं पुनः पूर्ववत्प्रोक्षणयुत्पवनम् । उप-

दहिने हाथ से प्रणीता के जल को तीन बार प्रोक्षणीपात्र में डाल कर अनामिका और अङ्गुष्ठ से पकड़े हुए पवित्रों से उस प्रोक्षणीस्थ जल का उत्पवन करे और प्रणीता के जल से प्रोक्षणीस्थ जल का पवित्रों द्वारा तीन बार अभिसेचन करके प्रोक्षणीपात्र के जल से आसादन किये आउपस्थाली आदि का सेचन करके अग्नि और प्रणीतापात्र के बीच में प्रोक्षणीपात्र को रख देवे । तब आउपस्थाली में घृतपात्र से घृत गिरावे और घृत को अग्नि पर धरके सूखे कुछ जलाकर घी के ऊपर प्रदक्षिण अमण कराके अग्नि में जलते कुछ फेंक कर सुवा को तीन बार अग्नि में तपा के संमार्जन कुशों के अग्रभाग से भीतर की ओर कुशों के मूलभाग से बाहर की ओर सुवा को झाड़ पोंक शुकुकर तपा प्रणीता के जल से सेचन करके और फिर तीन बार तपा के अग्नि से दक्षिण की ओर सुवा को धर देवे । तत्पश्चात् तपते हुए घी को अग्निसे उतार के उत्तर में धरे । तब तीन बार प्रोक्षणी के तुल्य पवित्रों से घी का उत्पवन करके देखे यदि घृत में कुछ निरुपद्रव्य हैं तो निकालकर फेंक देवे और फिर तीनबार प्रोक्षणीपात्र

यमनकुशान्यामहस्तेनादाय उत्तिष्ठन् प्रजापतिं मनसा ध्या-
त्वा तूष्णीमग्नौ घृताक्ताः समिधस्तिस्रः क्षिपेत् ॥ तत उप-
विश्य प्रोक्षणीजलेनाग्निं प्रदक्षिणं पर्युक्ष्य पवित्रे प्रणीता-
पात्रे धृत्वा ब्रह्मणान्वारब्धः पातितदक्षिणजानुर्जुहुयात् ।
तत्राघारादारभ्याहुतिचतुष्टये तत्तदाहुत्यनन्तरं सुवावस्थि-
ताज्यं प्रोक्षण्यां क्षिपेत् । ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्र-
जापतये नमम । इति मनसा । ओं इन्द्राय स्वाहा । इदं
मिन्द्राय नमम । इत्याधारौ । ओम्-अग्नये स्वाहा । इदम-
ग्नये नमम । ओं सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय नमम ॥ इ-
त्याज्यभागौ ॥ ततघ्राज्याहुतिपञ्चतये स्थालीपाकाहुती
श्च प्रत्याहुत्यनन्तरं सुवावस्थितहुतशेषघृतरय चरोरच प्रो-
क्षणीपात्रे प्रक्षेपः । ब्रह्मणान्वारब्धं विना जुहुयात् ।

ओं-अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रा-

का उपवसन करे । तदनन्तर उठकर उपयमनकुशों को घास हाथ में लेके प्रजा-
पति का मन से ध्यान करके घृत में डुयोई तीन समिधाओं को तूष्णीं विना
भस्त्र पटे एक २ कर अग्नि में चढावे । फिर बैठ कर पवित्र सदित प्रोक्षणी के
जल को प्रदक्षिणवृत्त से ईशानकीर्ण से लेकर उत्तर दिशा तक अग्निके सव ओर
सेशन करे अर्थात् प्रोक्षणीपात्र का सब जल पर्युक्ष्य में गिरा देवे । प्रणीतापात्र
में दोनों पवित्र रखके प्रोक्षणीपात्र का विभर्जन करे । तदनन्तर दहिने घोटू के
भूमि में टेककर ब्रह्मा से अन्वारब्ध हुआ घर यजमान प्रज्वलित अग्निमें सुवा
से आज्याहुतियों का होम करे । षट् २ उष २ आहुति के देने पश्चात् सुवा में
जो घृतविन्दु बचे उन को प्रोक्षणीपात्र में डालता जावे । प्रजापति का मन से
ध्यान कर पूर्वाघार की तूष्णीं आहुति देवे और यजमान स्वयं सब त्याग बो-
लता जाय । आघार की दो आज्यभाग की दो इन चार आहुतियों को देकर
पात्र आज्याहुतियो और स्थालीपाकाहुति में प्रत्येक आहुति के पश्चात् सुवा
में बचे शेष घृत और चरु को प्रोक्षणीपात्र में डालता जावे (अग्ने प्रायश्चि०)

यश्चिच्चित्तिरसि । ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उप-
धावामि याऽस्यै पतिघ्नी तनूस्तामस्यै ना-
शय स्वाहा । इदमग्नये नमम ॥ ॐ वायो
प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्रा-
ह्मणस्त्वा नाथकामऽउपधावामि याऽस्यै
प्रजाघ्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा ॥२॥
इदं वायवे नमम । ॐ सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं
देवानां प्रायश्चित्तरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ-
कामऽउपधावामि यास्यै प्रशुघ्नी तनूस्ता-
मस्यै नाशय स्वाहा ॥३॥ इदं सूर्याय नमम ।
ॐ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चि-
त्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकामऽउपधावामि
याऽस्यै गृहघ्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा
॥४॥ इदं चन्द्रमसे नमम । ॐ गन्धर्व प्राय-
श्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण-
स्त्वा नाथकामऽउपधावामि याऽस्यै यशो-
घ्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा ॥५॥ इदं
गन्धर्वाय नमम ।

ततश्चरुमभिघार्य स्थालीपाकेन जुहुयात् । ओं प्रजा-
पतये स्वाहा । इदं प्रजापतये नमम । इति मनसा ॥ तत
आज्याहुतिनवके हुतशेषघृतस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः । अयं
च होमो ब्रह्मणान्वारदधकर्तृकः । तत आज्यस्थालीपाकाभ्यां
स्विष्टकृद्दोमः ॥ ओं अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदमग्नये
स्विष्टकृते नमम । ततऽऽज्येन । ओं भूः स्वाहा । इदम-
ग्नये नमम । ओं भुवः स्वाहा । इदं वायवे नमम । ओं स्वः
स्वाहा । इदं सूर्याय नमम । एता महाव्याहृतयः ॥

(शुक्लयजुर्वेद अध्याय २१ मंत्र ३)

ओं त्वन्नोऽअग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्य
हेडोऽअवयासिसीष्ठाः ॥ यजिष्ठो वह्नित-
मः शोशुचानो विश्वा द्वेषाथसि प्रमुमुग्ध्य-
स्मत्स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां नमम ॥१॥

(शुक्लयजु० अध्याय २१ मन्त्र ४ ॥)

ओं स त्वन्नोऽअग्नेऽवमो भवोती नेदि-
ष्ठोऽअस्याऽउषसो व्युष्टौ ॥ अवयस्व नो
वरुणथं रराणो वीहि मृडीकथंसुहवो नऽग्धि

इत्यादि पांच मन्त्रों से पांच आहुति पूत की देकर चरु का अभिघारण करके स्था-
लीपाक से एक प्रजापत्य आहुति का होम तूणों करे । तदनंतर अगली नी शा-
ष्याहुतियों में प्रत्येक आहुति के पश्चात् स्तुथा में शेष घड़े घृत घिन्दुओं की प्रोक्षणी-
पात्र में गिराता जाये और ब्रह्माके अन्वारम्भ करने पर इन नव आहुतियों का होम
करे । पूत और स्थालीपाक दोनों से स्विष्टकृद् आहुति देकर महाव्याहृतियों की

स्वाहा ॥ इदमग्नये नमम ॥२॥ ओम्-अया-
श्चाग्नेऽस्यनभिश्चितपाश्च सत्यमित्त्वम-
याऽअसि । अया नो यज्ञं वहस्यया नो धेहि
भेषजं स्वाहा ॥ इदमग्नये नमम ॥ ३ ॥

ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा-
वितता महान्तः । तेभिर्नाऽअद्य सवितोत
विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा ॥
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो दे-
वेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यो नमम ॥४॥

शुक्यजुर्वेद अध्याय २१ मन्त्र १२ ॥

ओम्-उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि-
मध्यमथं अथाय । अथा वयमादित्य व्रते
तवानागसोऽअदितये स्याम स्वाहा ॥ इदं व-
रुणाय नमम ॥५॥ एताः सर्वंप्रायश्चित्तसंज्ञकाः ॥

ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये नमम ।

इति मनसा । इदं प्राजापत्यं ततः संस्त्रप्रशासनम् । आचम्य-
धोमस्यां रात्री कृतैतच्चतुर्थीहीमकर्मणि कृताऽऽकृतावेक्षणरू-
पप्रह्नकर्मप्रतिष्ठार्थमिदं पूर्यपात्रं प्रजापतिदेवतममुकगो-

तीन सर्वंप्रायश्चित्त की पांन तथा गन से प्राजापत्य एक इन मय आहुतियों को
त्यागीं सहित देके संस्त्रप्रशासन तथा आचमन करके संस्त्रप्रशासन पत्र प्रह्लाकी

त्रायामुकशर्मणे ब्रह्मणे ब्राह्मणाय दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे ॥
इति दक्षिणा दद्यात् ॥ ओ स्वस्तोति प्रतिवचनम् ॥ ततः-

ओ-सुमित्रिया नऽआपऽओपधयः सन्तु ।

इति पवित्राभ्यां शिरः समृज्य ।

ओदुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्वेषिष्टि
यञ्च वयं द्विषमः ॥

इत्यैशान्या दिशि प्रणीता न्युदजी कुर्यात् । ततः स्त-
रणक्रमेण बर्हिस्तथाप्य घृताक्तं कृत्वा हस्तेनैव जुहुयात् ॥

शुक्र यजुर्वेद अध्याय ८ मंत्र २१

ओ देवा गातुविदो गातुं वित्वा गातुमि-
त । मनसस्पतऽइमन्देवयज्ञथं स्वाहा व्वाः
तेधाः स्वाहा ॥

तत ग्राम्पल्लवेन जलमादाय वरो मूर्ध्नि वधूमभिपिञ्जति-

ओ या ते पतिघ्नी प्रजाघ्नी पशुघ्नी गृ-
हघ्नी यशोघ्नी निन्दिता तनूर्जारघ्नी तत

दक्षिणा देवे तथा ब्रह्मा (ओ स्वस्ति) कह कर दक्षिणा का स्वीकार करे । त
दान्तर (सुमित्रि०) मन्त्र पढ़ के पवित्रो द्वारा प्रणीता का जल लेकर शिर में
सस्माजंन करे तथा (दुर्मित्रि०) मन्त्र पढ़ के प्रणीता के शेष जल को दृशान
दिशा में लौट देवे पश्चात् लिख क्रम से बिछाये थे उसी क्रम से सब कुछ घटा
कर कुशो में धी लगाके (ओ देवागातु०) मन्त्र पढ़ हाथ से ही होम का देवे
पश्चात् घर आग के पसे से जल लेकर वधू के मूर्दापर (ओ याते पतिघ्नी०)

एनां करोमि सा जीर्य त्वं मया सह, श्री अ-
मुकदेवी । इति मन्त्रेण ।

ततो वधूं स्थालीपाकं प्राशयति वरः ।

ओं—प्राणैस्ते प्राणान्संदधामि । ओं—
अस्थिभिस्तेऽस्थीनि संदधामि ॥ ओं—माथं
सैस्ते माथंसानि संदधामि । ओं—त्वचा ते
त्वचं संदधामि ॥

इति मन्त्रचतुष्टयेन प्रतिमन्त्रान्ते अन्नं प्राशयेत् ॥ ततो
वधूहृदयं स्पृशन् वरः पठेत् ।

ओं—यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रम-
सि श्रितम् । वेदाहं तन्सां तद्विद्यात्पश्येस
शरदः शतं जीवेस शरदः शतं शृणुयास
शरदः शतमिति ॥

तत उत्थाय वधूदक्षिणाहस्तस्पृष्टस्त्रुवेण घृतफलपुष्प
पूर्णेन पूर्णाहुतिं जुहुयात् ॥ (यजु० अध्याय ७ मन्त्र २४)

ओं मूर्धानं दिवोऽन्नरतिस्पृथिव्या वैशवा-

मन्त्र से अभिषेक करे । तदनन्तर वर वधू को (श्रीप्राणैस्ते०) इत्यादि चार
मन्त्रों से प्रत्येक मन्त्र के अन्त में अपने हाथ से भात ले २ कर चार प्रास खवावे ।
तदनन्तर (श्री यत्तेमु०) मन्त्र पढ़के वर वधू के हृदय का स्पर्श करे । तत्पश्चात्—
एक सडा होके वधू के दहिने हाथ से स्पर्श कराये घृत फल और पुष्पो से भरे
हुए खुवा से (श्री मूर्धानं०) मन्त्र पढ़ के पूर्णाहुति करे और खुवा के मूल

नरमृतऽग्राजातमग्निम् । कदिथं सस्त्राजम-
तिथिञ्जनानामासन्ना पात्रञ्जनयन्त देवाः
स्वाहा ॥ इदमग्नये नमम ॥

ततः सुव्रेण भस्मानीय दक्षिणानामिकया त्र्यायुषं कुर्यात् ।

यजु० अध्याय ३ मन्त्र ६२

ओं त्र्यायुषं जमदग्नेः ॥ इतिललाटे । ओं
कश्यपस्य त्र्यायुषम् ॥ इति ग्रीवायाम् । ओं
यद्देवेषु त्र्यायुषम् । इतिदक्षिणबाहुमूले ॥
ओं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम् ॥ इति हृदये ॥

एवं बध्वाऽपि त्र्यायुषं कुर्यात् । तत्र तन्नो इत्यरय
स्थाने तत्त इति विशेषः । तत्र आचार्याय दक्षिणां दद्यात् ॥
भूयसीं दद्यात् ॥ इति चतुर्थकर्म समाप्तम् ॥

द्वारा लाये भस्म को दहिने हाथ की अनामिका के अग्रभाग से (त्र्यायुषं) से
ललाट में (कश्यपस्य) से कण्ठ में (यद्देवेषु) से दहिने बाहू के मूल में
और (तन्नो अस्तु) से हृदय में भस्म लगाये । इसी प्रकार बधू के भी त्र्यायुष
करे-वच में (तन्नो) के स्थान में (तत्त) कहे तदनन्तर आचार्य को दक्षिणा
देवे अन्य सुपार्श्वों को भी यथाशक्ति यथायोग्य देवे ॥

इति चतुर्थकर्म समाप्तम् ॥

अथान्त्येष्टिकर्म निरग्निकानाम् ॥

यदि म्रियमाणसंबन्धिनो दानं चिकीर्षयुस्तर्हि मनु-
ष्याणां मरणकालात्प्राक् तस्य स्वस्यदशायामेव कुर्युर्नच
मरणकालेऽतिसंनिहिते कुर्युः । करणकाले सन्निहिते म्रिय-
माणस्य सम्बन्धिनर्इश्वरभक्त्यर्थमुपदिशेयुः संसाराद्वैराग्यं
च दर्शयेयुः । भगवद्गीतादिस्थं शान्तिजनकं सदुपदेशं च श्रा-
वयेयुः । संप्रणवां गायत्रीं च स्मारयेयुः । तथा च-भगवद्गीता-
यामुक्तम्-धूम्रमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । यः प्र-
याति त्यजन्देहं स याति परमांगतिम् ॥ ततः प्राणोपूत्क्रान्तेषु
कर्त्ता पुत्रादिः स्वस्य केशरमश्रुवापनानन्तरं स्नात्वाऽहते
वाससी परिधाय मृतसमीपे गत्वा शवं स्नपयित्वाऽहतवस्त्रं
परिधाप्योत्तरीयं च परिधापयेत् । शवस्य सर्वाङ्गेषु चन्दना-
नुलेपनं कुर्यात्पुष्पमालाश्च परिधापयेत् । पुरुषश्चेन्नवं यज्ञो-

भाषार्थः-मनुष्य के मरने के समय पुत्रादि लोग यदि दान करना चाहें तो
मनुष्य के मरने से पहिले उस की स्वस्य दशा में ही करें । किन्तु प्राण निकलने
का समय अतिसमीप आजाये तब न करें । मरण समय के समीप आजाने पर
मरते हुए के सम्बन्धी लोग ईश्वर भक्ति के लिये उपदेश करें संसार से वैराग्य
दिखायें और भगवद्गीतादि में लिखा सदुपदेश सुनायें तथा ओंकार सहित गाय-
त्री मन्त्र का स्मरण करायें । और भगवद्गीता में भी कहा है कि-जो पुरुष मरण
समय में ओम् इस एकाक्षर वेद मन्त्र का उच्चारण करता और मुक्त ईश्वर का स्मरण
करता हुआ शरीर को छोड़ता है वह परमोत्तमगति को प्राप्त होता है ।
तदनन्तर प्राणान्त हो जाने पर क्रिया करने वाला पुत्रादि अपने घाल हाड़ी
मौख मुद्गवाके स्नान कर हृद् कोरे दो वस्त्र पहन कर मृतक के समीप जा-
कर मृतक को स्नान करा और कौरा नया धौत वस्त्र पहना कर ऊपर से धु-
पटा लढावे । मृतक के सब अङ्गों में चन्दन का अनुलेपन करे और पुष्पों की
माला पहनावे । यदि पुरुष मृतक हो तो नया यज्ञोपवीत भी पहनावे । तद-

पवीतं च धारयेत् । ततः कर्त्ता पुत्रादिरपसव्येन देशकाली
 संकीर्त्य—अमुकगोत्ररथं पितुरमुकप्रेतस्य प्रेतत्वनिवृन्त्या उ-
 त्तमलोकप्राप्त्यर्थमूर्ध्वदेहिकं करिष्येति संकल्प्यैकोद्दिष्ट-
 निमित्तकं मरणास्थाने शवनाम्नां पिण्डं दद्यात्—तत्रायं प्र-
 कारः—आचम्य प्राणानायम्यापसव्येन कुशानादाय शवस-
 मीपे दक्षिणामुख उपविश्यं—अद्येत्यादि संकल्प्य—अमुकगो-
 त्रामुकप्रेतः ब्रह्मदैवतक एषं ते पिण्डो मया दीयते तवोप-
 तिष्ठताम्—इति—ब्रह्मपिण्डं दत्त्वा द्वारदेशे विष्णुपिण्डं
 दद्यात् । अमुकगोत्रामुकप्रेतं विष्णुदेवतक एषं ते पिण्डो
 मया दीयते तवोपतिष्ठताम् । इति । ततो वस्त्रेण प्रच्छादि-
 तंमुखं प्रेतं प्राक्शिरसमूर्ध्वमुखं गृहोन्निष्काम्य दाहदेशं प्रति
 नयेयुः । गमनकाले यमगाथां गायन्तो यमसूक्तं वा जप-
 न्तो वृद्धवयसोऽग्रे कृत्वाऽल्पाल्पवयसः पश्चात्कृत्वा गच्छेयुः ।
 अहरहर्नयमानो गामश्वंपुरुषंगजम् । वैवस्वतो नतृष्यति
 सुरयाइव दुर्मतिः ॥ इति यमगाथा ॥

नन्तर पुत्रादि क्रिया करने वाला अपसव्य हो देशकाल को कह कर (अमुकगो०)
 इत्यादि संकल्प करे । एकोद्दिष्ट के लिये मरण स्थान में मृतक के नाम से एक
 पिण्ड देवे । उस की रीति यह है कि—आचमन प्राणायाम कर अपसव्य हो कुशों
 को हाथ में ले के मृतक के समीप दक्षिणामुख बैठ कर (अद्य०) इत्यादि
 संकल्प कह के अश्वनेजन पूर्वक ब्रह्मदेवतक पहिला पिण्ड धरे ऊपर से यथोक्त
 प्रत्यक्षनेजन करे । तदनन्तर द्वार देश में विष्णुदेवतक पिण्ड अश्वनेजन प्रत्यक्षनेजन
 सहित देवे । तदनन्तर धस्त्र से मृतक का मुख ढाँपकर पूर्व की शिर ऊपर की
 मुख किये मृतक को घर से निकाल के शमशान स्थान की ले चले । चलते समय
 अधिकर आयु वाले आगे चले तथा कमर आयु वाले पीछे चले तथा चलते हुए
 (अहरहर्नय०) इत्यादि यमगाथा का गान वा यमसूक्त का जप करते जावे ।

अथ यमसूक्तप्रारम्भः ॥

ओं-तदेव । तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्त-
दुचन्द्रमाः । तदेवशुक्रन्तद्ब्रह्मताऽऽपःस-
प्रजापतिः ॥१॥ ओं-सर्वनिमेषाः । सर्वनिमेषा-
जजिरेविद्युतःपुरुषादधि । नैनमूद्धर्वन्नतिर्य-
ञ्चन्नमद्ध्येपरिजगग्रभत् ॥२॥ ओं-न तस्य प्र-
तिमाऽऽस्ति यस्यनामसहस्रशः । हिरण्यगर्भ-
ऽइत्येपमासांहिथंसीदित्येपायंस्मान्नजातऽइ-
त्येपः ॥३॥ ओं-एषोह देवःप्रदिशोऽनुसर्वाःपू-
र्वाहजातःसऽउगर्भऽअन्तः । सऽएवजातःसज-
निष्यसाणःप्रत्यङ्जेनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ४
ओं-यस्माज्जातन्नपुराकिञ्चनैव यऽआबभूव
भुवनानि विश्वा । प्रजापतिःप्रजया सथंरराण-
रुत्रीणिज्योतीथं पिसचतेसपोऽशी ॥ ५ ॥ ओं-
येनद्यौरुग्रापृथिवीचदृढा येनस्वःस्तभितंये-
ननाकः । योऽअन्तरिक्षोरजसोविवमानः -क-
स्मैदेवायहविषाविधेम ॥६॥ ओं-यङ्क्रन्दसी-
ऽअवसातस्तभानेऽअभ्यैक्षेतास्मन्सारेजमा-

ने । यत्राधिसूरऽउदितोविभाति कस्मैदेवा-
 यहविषाविधेम । आपोहयद्बृहतीर्यश्चिचदा-
 पः ॥ ७ ॥ ओं-वेनस्तत्पश्यन्निहितङ्गुहास-
 द्यत्रविश्वम्भवत्येकनीडम् । तस्मिन्निदंशंसञ्च-
 विचैतिसर्वं सञ्जातःऽप्रोतश्च विभू. प्रजासु ॥८॥
 ओं-प्रतद्वोचेदमृतन्नुविद्वान्गन्धर्वो धामविभू-
 तङ्गुहासत् ॥ त्रीणिपदानिनिहितागुहास्य
 यस्तानिवेदसपितुःपितासत् ॥ ९ ॥ ओ-स-
 नोबन्धुर्जनितासविधाता धामानिवेदभुवना
 निविश्या । यत्रदेवाऽअमृतमानशानास्तृती-
 येधामन्नद्ध्यैरयन्त ॥ १० ॥ ओ-परीत्यभू-
 तानिपरीत्यलोकान्परीत्यसर्वाःप्रदिशोदिश-
 श्च । उपस्थायप्रथमजामृतस्या-त्मनात्मा-
 नमभिसंविवेश ॥ ११ ॥ ओं-परिद्यावापृथिवी
 सद्यऽइत्वापरि लोकान्परिदिशःपरिस्वः । ऋ-
 तस्यतन्तुविततं विचृत्य तदपश्यत्तदभवत्तदा-
 सीत् ॥१२॥ ओं-सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य
 काम्यम् । सनिम्मेधामयासिषथंस्वाहा ॥१३॥

ओं-यास्मेधान्देवगणाः पितरश्चोपासते ॥
 तयामामद्यमेधयाऽग्ने मेधाविनङ्कुरुस्वाहा
 ॥ १४ ॥ ओम्-मेधास्मेवरुणोददातु मेधा-
 मग्निःप्रजापतिः ॥ मेधामिन्द्रश्चवायुश्च मे-
 धान्धाताददातुमेस्वाहा ॥ १५ ॥ ओम्-इद-
 म्मेब्रह्मचक्षत्र-ञ्चोभेश्रियमश्नुताम् । मयिदे-
 वादधतु श्रियमुत्तमान्तस्यैतेस्वाहा ॥ १६ ॥
 इति संहितापाठे द्वात्रिंशोऽध्यायः । इति अम-
 सुक्तं समाप्तम् ॥

मार्गमध्ये विग्रामपिण्डं दद्यात् । यथा-अमुकगोत्रा-
 मुकप्रेत रुद्रदैवतक एष ते पिण्डो मया दीयते तवोपतिष्ठ-
 ताम् । ततः श्मशाने नीत्वा भूमौ शनैः शवं दक्षिणशिरसं
 स्थापयेयुः । श्मशानदेशस्तु ग्रामादाग्नेय्यां नैर्ऋते वा कीणो
 सर्वतो निम्न अनावरणे बहुलौपधिको मध्योन्नतः कार्यः ।
 तत्र दाहाय वेदिं कुर्यात्-तथा चाश्वलायनगृह्यसूत्राणि-
 दक्षिणाप्रवणं प्राग्दक्षिणाप्रवणं वा प्रत्यग्दक्षिणाप्रवणमि-

वीच मार्ग में पहुँचें तब विग्राम पिण्ड अवननेजन प्रत्यवनेजन सहित दें । तद्-
 नन्तर श्मशान में पहुँचकर सूतक को धीरे से भूमि में दक्षिण की शिरकरके धरे ।
 श्मशान का स्थान ग्राम से आग्नेय या नैर्ऋत कोण में सब ओर से नीचा वीच
 में कुछ ऊँचे पर चारों ओर से खुला बहुत प्रकार की घासादि जहा ही बहा करे ।
 वहा पूर्व में निश्चित किये ऊपर रहे श्मशान में वेदि बनाने । आश्वलायन गृह्यसूत्रों
 में सूतक की वेदि (चित्ता) बनाने का प्रकार यो लिखा है कि-वेदि दक्षिण को
 भीची उत्तर को कुछ ऊँची रहे या आग्नेय कोण की ओर नीची रहे प्रथया

त्येके ॥ ७ ॥ यावानुद्वाहुकः पुरुपरतावढायामम् ॥८॥ व्या-
ममात्रं तिर्यक् ॥९॥ वितस्त्यर्वाक् ॥१०॥ आ० ४ । १ । तदा
कर्त्ता प्राचीनावीती भूत्वा भूरसीति चित्ताभूमिमभिमन्त्रयेत्-

ओम्-भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्व
धाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री । पृथिवीं यच्छ
पृथिवीं दूथं ह पृथिवीं माहिथंसीः ॥१॥

ततश्चिदास्थाने चित्तास्थाने प्रोक्षयेत्-

ओमिदमापः प्रवहतावद्यं च मलं च यत् ।
तच्चामिदुद्रोहानृतं यच्चशोपेऽअभीरुणम् ।
आपोनातरमादेनसः पवमानश्चमुञ्चतु ॥

ततश्चिदास्थाने यमपिण्डं दद्यात् । अमुक्गोत्रामुक्
प्रेत यमदैवतक एप ते पिण्डो मया दीयते तवीपतिष्ठताम् ।
ततः समिद्धो अञ्जन्विति मन्त्रेण यज्ञियकाष्ठैरेव दहनस
मया चितिं कारयेत्-

ओ-समिद्धोऽअञ्जन्कृदरंमतीनाङ्घृतमग्ने-

किन्ही के मत में नैऋतकोण की ओर नीची रहे । ऊपर को बाहू सटाने से
मनुष्य की जितनी लम्बाई होती है उसनी लम्बी वेदि करे और एक पैसा-साठे
तीन हाथ तिर्था चौड़ी हो एक बिलरती गहरी खोदे । तब क्रिया करनेवाला
अपसव्य होकर (ओम्भूरसि०) मन्त्र से चित्ता की भूमिका अभिमन्त्रण करे अर्थात्
चित्ता की भूमि को देखता हुआ मंत्र पढ़े । तब (इदमाप०) इस मंत्र से चित्ता
की भूमिका प्रोक्षण करे । तदनन्तर चित्ता स्थान में यमदैवतक पिण्ड अग्ने-
कामधत्यग्नेज्जग पूर्वक देवे । तत्पश्चात् (समिद्धोअञ्जन्०) मन्त्र पढ़ के वेदि में

मधुमत्पिन्वमानः । धाजीवहन्वाजिनंजात-
वेदोदेवानां वक्षिप्रियमासधस्थम् ॥

ततः—अपेतोजन्त्विति मन्त्रेण चित्तिं प्रोक्षयेत्—

ओम्—अपेतो यन्तु पणयोऽसुम्ना देवपीयवः ।

अस्य लोकः सुतावतः । द्युभिरहोभिरक्तुभि-
र्व्यक्तं यमोददात्ववसानमस्मै ॥

इति प्रोक्ष्य तदुपरि कुशतिलानास्तीर्य तत्र चित्तौ द-
क्षिणशिरसं शवं निदध्यात् । ततः कर्त्ता प्रेतरय मुखे ना-
सिकाद्वये चक्षुर्द्वये श्रोत्रद्वये च हिरण्यशकलानि निक्षिपे-
दाज्यविन्दून्वा । ततः प्रेतकुक्षौ पिण्डदानम्—अमुकगोत्रा
मुकप्रेत प्रेतदैवतक एष ते पिण्डो मया दीयते तवोपतिष्ठ-
ताम् । अत्र सर्वेष्वेव ब्रह्मापिण्डादिपञ्चपिण्डेषु—अवनेजन
प्रत्यवनेजने यथोक्तरीत्या कार्येणैव । ततः शवोपरिकाष्ठच-
यनम् । ततः शिरःप्रदेशे भूमौ—ऋष्यादसंज्ञकमग्निं प्रज्वा-
लय ऋष्यादाय नमइति प्रदक्षिणां कृत्वा—

यद्यस्यन्त्येष्टी लकड़ी ईंधन का ऐसा घयन करे जिस में शीघ्र ही मृतक भस्म हो
सके । जो कोई पुरुष श्राद्धादि चिन्मयता हो यही काष्ठो का घयन करे । तद-
नन्तर घयन किये ईंधन पर (अथेतो यन्तु) मन्त्र से जल प्रोक्षण कर शिर
के काष्ठो पर कुश विद्याघे और कुशों पर तिल फैलाये । चित्तास्थ लकड़ियों
पर विद्याघे कुश तिलो पर दक्षिण को शिर करके मृतक को जिटाधे । तदनन्तर
क्रिया करने वाला मृतक के मुख, नासिका के दोनों छिद्रों, दोनों घट्टु और
दोनों कानोंमें इन सारो छिद्रों में छोटे २ सुवर्णके टुकड़े रखे या पृत के दिन्दु
खोहे । तदपश्चात् मृतक की कुत्ति में अवनेजन प्रत्यवनेजन पथक सकल्प करके
पिण्ड देवे । पश्चात् मृतक के ऊपर लकड़ी चिन्मय शिर की और लकड़ियों से
लगता हुआ भूमि पर ऋष्याद अग्नि को स्थापन करके प्रज्वलित करे (श्री क-

ओं त्वं भूतभूजजगद्योनिस्त्वं भूतपरिपालकः ।
मृतः संसारिकस्तस्मादेनं त्वं स्वर्गतिं नय ॥

.. इतिःप्रार्थ्यं ततः-आज्यहोमं कुर्यात्- -

ओं लोमभ्यः स्वाहा । २ । ओं त्वचे स्वाहा । २ ।
लोहिताय स्वाहा । २ । मेदोभ्यः स्वाहा । २ ।
मांसेभ्यः स्वाहा । २ । स्नावभ्यः स्वाहा ॥ २ ॥
अस्थभ्यः स्वाहा । २ । मज्जभ्यः स्वाहा ॥ २ ॥
रेतसे स्वाहा ॥ २ ॥ पायवे स्वाहा । २ । आयासाय
स्वाहा । २ । प्रयासाय स्वाहा । २ । संयासाय
स्वाहा । २ । विर्यासाय स्वाहा । २ । उद्यासाय
स्वाहा । २ । शुचे स्वाहा । २ । शोचते स्वाहा । २ ।
शोचमानाय स्वाहा । २ । शोकाय स्वाहा । २ ।
तपते स्वाहा । २ । तप्यते स्वाहा । २ । त-
प्यमानाय स्वाहा । २ । तप्ताय स्वाहा । २ ।
घर्माय स्वाहा । २ । लिप्कृत्यै स्वाहा । २ ।
प्रायश्चित्त्यै स्वाहा । २ । भेषजाय स्वाहा । २ ।
यमाय स्वाहा । २ । अन्तकाय स्वाहा । २ ।

व्यासाय तप्त) कह कर अग्नि की प्रदक्षिणा कर (ओं त्वं) इत्यादि वचन पढ़
के अग्नि की प्रार्थना काके (ओं लोम) इत्यादि मन्त्रों से जलती हुई चिता में

मृत्यवे स्वाहा । २ । ब्रह्मणे स्वाहा । २ ।
ब्रह्महत्यायै स्वाहा । २ । विप्रवेभ्यो देवेभ्यः
स्वाहा । २ । ओं द्यावापृथिवीभ्याथं स्वाहा । २ ।

एताग्नाहुतीर्दत्त्वा वामं जान्वाच्य चतस्रग्नाज्याहुतीर्जु-
ह्यात्-यथा-

ओम्-अग्नये स्वाहा । ओं-सोमाय स्वाहा ।
ओं-लोकाय स्वाहा । ओं-अनुमतये स्वाहा ।

ततः प्रेतस्य हृदये पञ्चमीमाहुतिं दद्यात्-

ओं-अस्माद्धै त्वमजायथा अयं त्वदधिजा-
यतामसौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ॥

अत्र-असावित्यस्य स्थाने प्रेतस्य संबुद्धयन्तं नामो-
च्चारणीयम् । एताः पञ्चाहुतय आश्वलायनगृह्यलक्ताः ।
ततः पूर्वो दग्धे वाऽर्धे दग्धे सति शवमस्तकं काष्ठेन भित्त्वा
तत्रैकामाज्याहुतिं दद्यात्-

ओम्-भूर्भुवःस्वः स्वाहा ॥

पी की आहुति देवे । एक २ मन्त्र से दो २ आहुति देनी चाहिये । इन अष्टक
आहुतियों को देकर धार्ये पीट्ट को भूमि में टेक कर (ओं-अग्नये०) इत्यादि
अगली चार आहुति पी से करे । तदनन्तर मृतक के हृदय पर (अस्माद्धै०) मन्त्र
से पृथ की पाचर्षो आहुति देवे । मन्त्र में पढ़े असौ शब्द के स्थान में मृतक
का नाम संयोधनान्त लक्षारण करे । पूर्वोक्त पाच आहुतिया आश्वलायनगृह्य
में लिखी है । उपश्चात् पूरा वा आधा जलजाने पर मृतक के मस्तक को किसी
टूट लम्बी लकड़ी से फोड़ कर उस फोड़े हुए मस्तक पर (ओं भूर्भुव ०) मन्त्र

ततः प्रेतदाहानन्तरं सर्वे शवस्पृशः शवानुगन्तारश्च
 चितां वामावृत्त्या परावृत्त्य प्रेतमनवलोकमानाः—अहरह-
 र्नयमानी गामश्रवंपुरुषान्पशून् । धैवस्वतो न दृष्यति सुर-
 याइवदुर्मतिः ॥ इति यमगाथां गायन्तः कनिष्ठपूर्वा जला-
 शयं गच्छेयुः । नद्यादिसमीपस्थितं कंचिद्दयोनिस्सम्यद्दुं श्यालकं
 वा सपिण्डादयः सर्वे (उदकं करिष्यामहे) इति पठित्वो-
 दकं याचेरन् । एवं याचिते यदि शतवर्षादूर्वाक्प्रेतो भवे-
 त्त्तदा (कुरुध्वं मा चैवं पुनः) इत्येवमुत्तरं दद्यात् । यदि
 शतवर्षादूर्ध्वं प्रेतो भवेत्तदा कुरुध्वमित्येवोत्तरं वदेत् ।
 ततः सप्तमपुरुषसम्यन्धिनः सपिण्डा वा दशमपुरुषस-
 म्यन्धाः समानोदकाः समानग्रामनिवासे यावत्सापिण्ड्यं
 समोत्रत्वं वाऽनुस्मरेयुः । तावन्तः सर्वे प्राचीनावीतिन
 एकवस्त्रा जलं प्रविश्य वामहस्तस्थानामिकाङ्गुल्या तू-

से घृत की एक आहुति देवे । तब मृतक का दाह ही जाने पर मृतक का स्पर्श
 करने वाले और साथ आये हुए सब लोग बायीं ओर से चिता की परिक्रमा
 करके मृतक की ओर न देखते हुए और (अहरहर्नय०) इत्यादि यमगाथा को
 गाते हुए तथा कम २ आयुवाले आगे २ और अधिक २ आयु वाले पीछे चलते
 हुए जलाशय की ओर । किसी नदी आदि जलाशय के निकट आकर समीप
 में उपस्थित किसी मृतक के सशस्त्री वा साले से कुटुम्बी आदि सब लोग
 पूर्ण कि (उदकं करिष्यामहे) इस लोग उदकक्रिया करेंगे ऐसी आज्ञा मगने
 पर यदि सौ वर्ष से कम आयु का पुरुष मरा हो तो वह सशस्त्री वा साला बहे
 कि (कुरुध्वं मा चैवं पुनः) उदकक्रिया करो पर फिर आगे ऐसा न करना ऐसा
 वचन देवे । और यदि सौ वर्ष से ऊपर का मनुष्य मरा हो तो (कुरुध्वम्)
 करो इतना ही वचन देवे तब सात पीढ़ी वाले वा दश पीढ़ी तक के जहा तक
 सपिण्डता और मृतक का अपना एक गोत्र जानते हों वे उतने सब समानो-
 दक पुरुष अपसव्य हो एक वस्त्र पहने हुए जल में पुष कर बायें हाथ की ओर

ष्णीमुदकमपनोद्य-श्रीम्-अप नः शीशुचदधम् । इति दक्षि-
 णाभिमुखा जले निमज्जेयुः । तत् उदकाद् बहिरागत्य प्रेतमु-
 द्दिश्यामुकसगोत्रामुकशर्मन् प्रेत एतत्त उदकमित्युच्चार्य ए-
 कैक्रमज्जलिं सकृद्भूमौ प्रक्षिपेयुः । ततः शाड्वलवति शु-
 द्धदेशे उपविष्टान्सपिण्डादीनन्ये सुहृदः शोकनिवारकभग-
 वद्गीतोपनिषदादिकथाभिः संसारानित्यतां दर्शयन्त उपदि-
 शेयुः । ततः पश्चादनवलोकयन्तः कनिष्ठानग्रतः कृत्वा
 पङ्क्तीभूता ग्राममायान्ति । आगम्य च गृहद्वारे स्थित्वा
 निम्बपत्राणि दन्तैरवखण्ड्योदकमाचम्याग्निं गोमयं गौर-
 सर्पपंस्तैलं चेति क्रमेणालभ्य पादेनाशमानमाक्रम्य गृहं
 प्रविशेयुः । ततः परं सर्वे ज्ञातयो यावदाशीचं ब्रह्मचर्यम-
 धःशयनं लौकिककर्माकरणाभ्यां च कुर्वित्यप्रेरणां क्रीत्वा

नामिका अङ्गुलि से तूष्णीं बिना मन्त्र पढ़े जल को इधरउधर हटाकर (श्री-अप-
 नः०) मन्त्र पढ़ दक्षिण को मुख करके जल में एक साथ एक ही युद्धी लगावें तरप-
 द्यात् मय लोग जल से बाहर आकर एक २ अङ्गुलि भर जल मृतक के दृष्टेय से
 भूमि में छोड़ें । इसी का नाम उदकक्रिया है । तदनन्तर पास वाले शूद्रस्थान
 में बैठे हुए कुटुम्बियों के अन्य दृष्ट मित्र लोग शोकनिवारक भगवद्गीता और
 उपनिषदादि सद्ग्रन्थों की कथा सुनाके संसार की अनित्यता दिखावें । त-
 रपद्यात् पीछे की न देखते हुए थोड़े आयु वालों को आगे कर वृद्ध २ पीछे ही
 पङ्क्ति लगाके घर को आवें । मृतक के द्वार पर आके रुड़े हो वहाँ नौध के
 पत्तों को सब लोग दाँतों से काट २ कर धूक दें और जल का आचमन कर
 अग्नि, गोबर, प्रदेत सरसो और तैल इन पदार्थों का प्रम से स्पर्श करके और
 पश्चर को खाँच कर घर में प्रवेश करें । तरपद्यात् ३५ बुटुम्बी लोग कुट्टि के
 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहें स्त्री के निष्कट कीर्ष न लावे, पृथिवी पर हाँसे, व्य-
 थहार का कोई काम न करें और अन्य नीकर आदि का काम करने की आ-
 द्या भी न दें, भोल लेकर या बिन हागे कोई दे देवे तो भीजन करें पकाये

लट्ध्वा वा दिवैव मांसवर्जं भोजनमिति नियमात्सेवेरन् ।
 भोजनकाले प्रथमदिने कर्मकर्त्ता पुत्रादिः कृतापसव्यो द-
 क्षिणामुखः पातितवामजानुरुपलिप्तपिण्डस्थानोपरि द-
 क्षिणाग्रं कुशत्रयमास्तीर्य-श्रीम्-अद्यामुकगोत्रामुकप्रेतात्रा-
 वनेनिक्ष्वेति कुशत्रयोपरि-अवनेजनं दद्यात् ततो भोज-
 नार्थादन्नादन्नमादाय पिण्डं कृत्वा-श्रीमद्यामुकगोत्रामुक-
 प्रेत-एव ते पिण्डो मया दीयते तवोपतिष्ठताम् । इति सं-
 कल्प्यैकं पिण्डं दद्यात् । ततः प्रत्यवनेजनदानम्-श्रीम्-अ-
 द्यामुकगोत्रामुकप्रेत प्रत्यवनेनिक्ष्व-इति पिण्डोपरि जलं
 दद्यात् । यस्मिन्दिने स म्रियेत तस्यामेव रात्रौ मृन्मये पात्रे
 क्षीरोदके कृत्वा यथादिकमवलम्ब्याकाशे प्रेतात्रेति मन्त्रे-
 ण धारयेत् । श्रीं-प्रेतात्र स्नाहि पिव चेदम् । ततो द्वितीय-
 दिवसमारम्याशौचावधि भगवद्गीतोपनिषदादिकं शोकनि-
 वारकं संसारानित्यत्वदर्शकं शारत्रं प्रेतकुटुम्बिनः शृणुयुः ।

कोई नहीं और मांस रहित दिन में ही एक बार भोजन करें रात्रि को नहीं ।
 इन नियमों का सेवन शुद्धि के दिन तक करें । भोजन के समय पहिले दिन
 कर्म करने वाला पुत्रादि अपसव्य हो दक्षिण को मुख कर वाम घोंटू को दृ-
 क्षिणी में टेक कर पिण्ड देने योग्य लोपी हुई शुद्ध भूमि पर तीन कुश बिछा
 कर उन पर अवनेजन जल छोड़े । तदनन्तर भोजनार्थ अन्न में से एक पिण्ड
 बनाकर संकल्प पूर्वक कुशों पर धरे । पुनः प्रत्यवनेजन देकर जिस दिन वह
 पुरुष मरा हो उसी दिन रात्रि में मृत्ती के पात्र में दूध और जल मिला कर
 किसी लकड़ी में घाघ कर (प्रेताग्र०) मन्त्र द्वारा किसी वृक्ष में लटकाने ।
 तदनन्तर दूसरे दिन से लेकर शुद्धि के दिन तक भगवद्गीता और उपनिषदादि
 सन्ध्यागी शोक निवारक तथा संसार की अनित्यता दिखाने वाली कथा मृतक
 के कुटुम्बी लोग सुना करें । और चौथे दिन अस्थि संशयन कर्म करें-तीन

अथ चतुर्थदिनेऽस्थिसंचयनम् ॥

अयुजो वृद्धाः पुरुषा अस्थिसंचयनाय प्रमंशानं गच्छन्त्युः ।
 तत्रालक्षणे कुम्भे पुरुषमलक्षणायां कुम्भ्यां च स्त्रियं संचि-
 न्युः । क्षीरोदकेन शमीशाखया त्रिः प्रसव्यमायतनं परिव्रजन्
 श्रो-शीतिकेशीतिकावतीति चित्तां प्रोक्षेत् । ततोऽङ्गुष्ठोप-
 कनिष्ठिकाभ्यामेकैकमस्थि शब्दमकुर्वन् कुम्भेऽवदधुः पादौ
 पूर्वं शिरउत्तरम् । शिरःपर्यन्तं कुम्भेऽवधाय शूर्पेण चित्तास्थं
 भरम संशोध्य सूक्ष्माण्यस्थीनि शिरसुपरि संचित्य यत्र
 सर्वतन्नापो नाभिप्यन्देरेन्नन्या वर्षाभ्यस्तत्र गच्छेत् स्वात्वाऽ-
 स्थिकुम्भमवदधुः (उपसर्पमातरं०) इति मन्त्रेण-

ओम्-उपसर्पमातरं भूमिमेता-सुखद्वयचसं
 पृथिवीं सुशेवाम् । ऊर्णस्त्रदा युवतिर्दक्षिणा-
 वत एषा त्वा पातु निवर्ततेरुपस्थात् ॥ ऋ०
 १० । १८ । १८ ।

य आदि विपम संख्या वाले वृद्ध पुरुष अस्थि संचयन के लिये प्रमंशान भूमि में
 लावे वहां जा कर बिना चिह्न किये घट में पुरुष के शीर चिह्न रहित घटिका
 में स्त्री के अस्थियों का संचय करे । दूध और जल मिला कर शमी-दरीकर
 की शाखा द्वारा संचय करते हुए वासावृत्ति से चित्ता के सब शीर (शो शी-
 तिके०) मन्त्र पढ़ते हुए तीन बार घूमें । तदनंतर अङ्गुष्ठ और अनामिका द्वा-
 रा एक २ हड्डी को धीरे २ उठा २ कर [जिस से परस्पर हड्डियों का शब्द न
 हो] घड़े में धरे । पगों की ओर से शिर तक की हड्डी कम से रक्ते जिस से
 शिर के अस्थि घड़े में ऊपर रहें । शिर तक की हड्डी घड़े में रख के मूष से शिर
 की मसू को फटका कर सूक्ष्म अस्थि घड़े में ऊपर से धरे । फिर जहां सब शीर
 से वर्षासे भिन्न जल न भर जाता हो वहां गहरे सोड़कर दसमें (उपसर्प) सुद्ध

तत् उच्छ्वंसस्वेत्येतया गर्त्तं पांसूनवकिरेत्-

ओं-उच्छ्वंसस्वपृथिवीमानिबाधथाः, सूपा-
यनास्मैभवसुपवञ्चना । मातापुत्रंयथासिचा-
भ्येनंभूमऊर्णुहि ॥ ऋ० १० । १८ । ११ ।

कुम्भमुखावधि गर्त्तं पूर्णं उच्छ्वंसमानेऽयेतां जपेत्-

ओं-उच्छ्वंसमानापृथिवीसुतिष्ठतु, सहस्रं
मितउपहिश्रयन्ताम् । तेगृहासोघृतश्चुतोभ-
वन्तु विश्वाहास्मैशरणाःसन्त्वत्र ॥१२॥

तत उत्तेस्तभनामीति कपालेनापिघायाऽथानवेक्षं प्रत्या-
व्रज्यापउपस्पृशेयुः ।

ओं-उत्तेस्तभनामिपृथिवीत्वत्परीमं लो-
गनिदधन्मोअहरिषम् । एतांस्थूणांपितरो
धारयन्तु तेऽत्रायसःसादनातेमिनोतु ॥ ऋ०
१० । १८ । १३ ॥

अथवाऽस्थिकुम्भं जलाशये निक्षिपेयुः । ततो-गृहघ्रा-
गत्य-भूमिमुपलिप्य कुशत्रयमास्तीर्य-एकोद्विष्टविधिना

को पद के घटाधरे और (उच्छ्वंसस्व) मन्त्रसे गठमें माटीभरे जख पढेके करठ तक गटा भरजावे तथ (उच्छ्वंसमाने) मन्त्रका जपकरे । पदात् (उत्तेस्तभनामि) मन्त्र से घटे के मुख पर रापर घर के पीछे को न देरते हुए लौट आकर जल का स्पर्श करें । अथवा अस्थिभरे घटा को न गठे किन्तु नदी आदि किसी जलाशय में छोड़ दें । तथ घर में आकर भूमि की लीप कर घटा तीन कुश विद्या के एकोद्विष्ट विधि से अथनेजन प्रत्यवनेजन पूर्वक सबलप वाक्य पद के

पिण्डदानम् । यथा-अमुकगोत्रामुकशर्मन्प्रेत-एतदवनेजनं
ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम् । इति कुशोपरि जलं निपि-
च्य । अमुकगोत्रामुकशर्मन्प्रेत-एष ते पिण्डो मया दीयते
तवोपतिष्ठताम् । ततः-अमुकगोत्रामुकशर्मन्प्रेत एतत्प्रत्य-
वनेजनं मया दीयते तवोपतिष्ठताम् । इति पिण्डोपरि
जलं निपिञ्चेत् । ततएकादशे दिने सर्वे सपिण्डा गृहशुद्धिं
शरीरशुद्धिं च कृत्वा पञ्चगव्यं च पीत्वा नूतनं यज्ञसूत्रं
यज्ञोपवीतमिति मन्त्रेण धारयेयुः । ततः कर्त्ता स्नात्वा च-
न्दनपुष्पधूपदीपादिभिरिदंविष्णुर्विचक्रमइति मन्त्रेण वि-
ष्णुपूजनं कुर्यात् ।

श्रीम्-इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधेप-
दम् । समूहमस्यपाथंसुरे ॥

एवमेव श्रीश्रुत० इति मन्त्रेण लक्ष्मीपूजनम् ।

श्रीं-श्रीश्चतैलक्ष्मीश्चपत्न्यावहोरात्रेपा-
श्र्वेनक्षत्राणिरूपसशिवनीव्यात्तम् । इष्णान्नि-
षाणामुम्मइषाणसर्वलोकम्मइषाण ॥

ततो ब्राह्मणद्वारा ब्रह्मगायत्रीजपं वेदपाठं च कारयेयुः ।

ततो वृषोत्सर्गविचारः-पारस्करगृह्यसूत्रे वृषोत्सर्गः

पिण्ड देवे । तदनन्तरग्यारहवें दिन सब कुटुम्बी घर और शरीर की शुद्धि कर
पञ्च गव्य पीकर नया जमेक (यज्ञोपवीत०) मन्त्र से धारण करें तदनन्तर कर्म
करने वाला पुरुष स्नान कर चन्दन पुष्प धूप दीपादि से (इदं विष्णुर्वि०) मन्त्र
पढ़ के विष्णु का पूजन करे । इसी प्रकार (श्रीश्चते०) मन्त्र से लक्ष्मी का
पूजन करे । तदनन्तर ब्राह्मणों द्वारा ब्रह्म गायत्री का जप और वेद का पाठ

तत् उच्छ्वंचस्वेत्येतया गर्त्तं पांसुनसकिरेत्-

ॐ-उच्छ्वंचस्वपृथिवीमानिबाधथाः, सूपा-
यनास्मैभवसुपवञ्चना । मातापुत्रयथासिचा-
भ्येनंभूमज्जुहि ॥ ऋ० १० । १८ । ११ ।

कुम्भमुखावधि गर्त्तं पूर्णं उच्छ्वचमानेत्येतां जपेत्-

ॐ-उच्छ्वचमानापृथिवीसुतिष्ठतु, सहस्रं
मितउपहिश्रयन्ताम् । तेगृहासोघृतश्चुतोभ-
वन्तु विश्वाहास्मैशरणाःसन्त्वत्र ॥१२॥

तत् उत्तेस्तभ्नामीति कपालेनापिधायान्स्थानवेक्षं प्रत्या-
त्रज्यापठपस्पृशेयुः ।

ॐ-उत्तेस्तभ्नामिपृथिवीत्वत्परीमं लो-
गंनिदधन्मोअहरिषम् । एतांस्थूणांपितरो
धारयन्तु तेऽत्रायसःसादनातेमिनोतु ॥ ऋ०
१० । १८ । १३ ॥

अथवाऽस्थिकुम्भं जलाशये निक्षिपेयुः । ततो-गृहआ-
गत्य-भूमिमुपलिप्य कुशत्रयमास्तीर्य-एकीद्विष्टविधिना

की पट के घड़ाधरे और (उच्छ्वंचस्व०) मन्त्रसे गढ़ेमें माटाभरे लकड़ घड़ेके करट तक गटा भरजाये तत्र (उच्छ्वंचमान०) मन्त्रका जपकरे । पश्चात् (उत्तेस्तभ्नामि०) मन्त्र से घड़े के मुख पर तपपर धर के पीछे को न देरते हुए लौट आकर जल का स्पर्श करें । अथवा अस्थिभरे घड़ा की न गढ़े किन्तु नदी आदि किसी जलाशय में डोढ़ देवे । तब पर में आकर भूमि की लीप कर लकड़ा तीन कुश विद्या के एकीद्विष्ट विधि से अथनेजन प्रत्यवनेजन पूर्वक स्वरूप वाक्य पठ के

पिण्डदानम् । यथा-अमुकगोत्रामुकशर्मन्प्रेत-एतदवनेजनं
ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम् । इति कुशोपरि जलं निपि-
च्य । अमुकगोत्रामुकशर्मन्प्रेत-एव ते पिण्डो मया दीयते
तवोपतिष्ठताम् । ततः-अमुकगोत्रामुकशर्मन्प्रेत एतत्प्रत्य-
वनेजनं मया दीयते तवोपतिष्ठताम् । इति पिण्डोपरि
जलं निपिच्येत् । ततएकादशे दिने सर्वे सपिण्डा गृहशुद्धिं
शरीरशुद्धिं च कृत्वा पञ्चगत्यं च पीत्वा नूतनं यज्ञसूत्रं
यज्ञोपवीतमिति मन्त्रेण धारयेयुः । ततः कर्त्ता स्नात्वा च-
न्दनपुष्पधूपदीपादिभिरिदं विष्णुर्विचक्रमइति मन्त्रेण वि-
ष्णुपूजनं कुर्यात् ।

**श्रीम्-इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधेप-
दम् । समूहसस्यपाथंसुरे ॥**

एवमेव श्रीश्रुत० इति मन्त्रेण लक्ष्मीपूजनम् ।

**श्रीं-श्रीश्चतेलक्ष्मीश्चपत्न्यावहोरात्रेपा-
श्वेनक्षत्राणिरूपसशिवनीव्यात्तम् । इष्णान्नि-
षाणामुम्मइषाणसर्वलोकम्मइषाण ॥**

ततो ब्राह्मणद्वारा ब्रह्मगायत्रीजपं वेदपाठं च कारयेयुः ।

ततो वृषोत्सर्गविचारः-पारस्करगृह्यसूत्रे वृषोत्सर्गः

विष्णु देवे । तदनन्तरप्यारहर्षे दिन सद्य कुटुम्बी घर और शरीर को शुद्धि कर
पञ्च गव्य पीकर नया कनेक (यज्ञोपवीतं) मन्त्र से धारण करें तदनन्तर कर्म
कारने वाला पुरुष स्नान कर चन्दन पुष्प धूप दीपादि से (इदं विष्णुर्वि०) मन्त्र
पठ के विष्णु का पूजन करे । इसी प्रकार (श्रीश्रुते०) मन्त्र से लक्ष्मी का
पूजन करे । तदनन्तर ब्राह्मणों द्वारा ब्रह्म गायत्री का जप और वेद का पाठ

स्वातेन्वयेण व्यरियातो न तु मरणानन्तरं कार्यइति सर्व-
 न्धः प्रदर्शितः । ध्रुवप्रमाणेन मन्तव्यश्चेत्तत्करणसमयो
 नारित । एकं वृषं चतस्रो वत्सतरीरसृजेदिति लिखितम् ।
 एव च कर्तुं कालो नास्ति तस्माद्दोमं सामान्यविधिना कृ-
 त्वा वृषस्य गोश्रुत्याद्यादिना पूजनं कुर्युः । वेदि निर्माय प
 ञ्चभूसंस्कारान्कृत्वा—सामान्यदोमं कुर्यात्—

तत्रादौ कुशकण्डिकाप्रारम्भक्रम—यजमानहरतपरिमिता
 वेदीं कुशैः परिसमुह्य तान्कुशानैशान्या दिशि निक्षिप्य गोम-
 योदकेनोपलिप्य स्पर्शेन सुवेण वा प्राग्ग्रामादेशमात्रत्रिरु-
 त्तरोत्तरक्रमेणोलिलख्यउल्लेखनक्रमेणानामिकाङ्गाभ्यामृ-
 द्ममुद्धृत्य जलेनाभ्युक्ष्य तत्र तूष्णीं कास्यपात्रेणाग्निमानीय
 स्वाभिमुखं निदध्यात् ॥ ततः पुष्पचन्दनताम्वूलवस्तारया-
 दाय । अथो—अथ शोकान्त्यदिने कर्त्तव्यान्त्येष्टिदोमक्रमणि

करावे । तदपश्चात् यदोत्सर्ग का विचार यह है कि पारस्वर्यसूत्र में द्योत्सर्ग
 कर्म का स्वतंत्र व्याख्यान लिखा है किन्तु यह नहीं लिखा कि मरणान्तर द्यो-
 त्सर्ग करे अन्य प्रमाण से मन्तव्य कहा जाय तो उस के करने का समय नहीं है
 यद्यपि एक घेल और चार जोमर गीरे भाग में बाँटा लिखा है सी ऐसा
 करने का समय नहीं इस कारण द्योत्सर्ग के स्थान में सामान्य विधि से होम
 करके एक घेल और गौ का साद्य दाना घासादि देकर पूजन करे और किसी
 सुपात्र घाहण को घेल गौ दानो का दान कर देवे । होम का विधान—
 प्रथम वेदि में पञ्चभूसंस्कार करे—तीन कुशों से वेदि को ढाँढ कर कुशों को
 देशान्तर की ओर फेंक कर गोबर और जल से लीप कर के सुषा के मूल वा स्पर्श
 से वेदि में उत्तर २ प्रागायत सीम देना करे अनामिका और अङ्गुष्ठ से रेखाका
 में से मृत्ती को उठा कर फेंक के वेदि में जलसेचन करे । फिर कासे वा मृत्ती
 के पात्र में अग्नि लाकर पश्चिमाभिमुख स्थापन करे । तदपश्चात्—पुष्प चन्दन
 ताम्वूल और घेसों को लेकर (जोमटा) इत्यादि उक्तप्र वाक्य पदके यजमान

कृताऽऽकृतांवेक्षणरूपब्रह्मकर्म कर्तुममुकगोत्रममुकशर्माणां ब्राह्मणमेभिः पुष्पचन्दनताम्बूलवासोभिर्ब्रह्मत्वेन त्वामहं वृणो । इति ब्रह्माणं वृणुयात् । ओं-वृतोऽस्मीति प्रतिवचनम् । यथाविहितं कर्म कुर्विति यजमानेनोक्ते । करवाणीति ब्रह्मा वदेत् । ततोऽग्नेर्दक्षिणतः शुद्धमासनें दत्त्वा तदुपरि प्राग्-ग्रान्कुशान्नास्तीर्य ब्रह्माणामग्निप्रदक्षिणक्रमेणानीय, ओं-अत्र त्वं मे ब्रह्माभवइत्यभिधाय । ओं-भवानीति ब्राह्मणो-नोक्ते कल्पितासने उदङ्मुखं ब्रह्माणंमुपवेशयेत् । ततः प्रणी-तापात्रं पुरतः कृत्वा वारिणां परिपूर्य कुशैराच्छाद्य ब्रह्मणो मुखमवलोक्याग्नेरुत्तरतः कुशोपरि निदध्यात् ॥ ततः परि-स्तरणम् । बर्हिषश्चतुर्थभागमादायआग्नेयादीशानान्तं ब्र-ह्मणोऽग्निपर्यन्तम् । नैर्ऋत्याद्वायव्यान्तं अग्निंतः प्रणीता-पर्यन्तम् । ततोऽग्नेरुत्तरतः पश्चिमदिशि पविच्छेदनाथं कु-

ब्रह्मा का याण करे और पुष्पादि ब्राह्म के हाथ में देवे । ब्रह्मा पुष्पादि की लेकर (वृतोऽस्मि) कहे । तय (यथावि०) यजमान कहे और ब्रह्मा (करवाणि०) कहे । तय अग्नि से दक्षिण में शुद्ध आसन चौकी आदि बिछाकर उस पर पूर्व को जिन का अथभाग हो ऐसे कुछ बिछाकर ब्रह्माको अग्नि की प्रदक्षिणा क-राके (-अस्मिन् प्रमंणि यं मे ब्रह्मा भव) इस कर्म में तुम मेरे ब्रह्मा हो ऐसा कहकर ब्राह्म के (भवानि) कहने पर उस आसन पर ब्रह्मा को उत्तराभिमुख घेठा कर प्रणीतापात्र को सामने रखके लल से भरके कुशों से आच्छादन कर ब्राह्म का मुख अथलोकन करके अग्निसे उत्तर में कुशोपर प्रणीतापात्र को प्रा-गय रखे । तदनन्तर चार सुद्धी कुश लेकर अग्नि के सथ और परिस्तरण करे-एक चौथाई कुश अग्निकोण से-द्वितीयभाग ब्रह्मा के आसन से अग्निपर्यन्त, तृतीयभाग नैर्ऋतकोण से वायुकोण पर्यन्त और चौथाभाग अ-ग्नि से प्रणीता पर्यन्त बिछावे । तदनन्तर अग्नि से उत्तर में प्राक्संख्यपात्रासा-

ॐ-इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय नमः । इत्याचारौ ।
 ॐ-अग्नये स्वाहा । इदमग्नये नमः । ॐ-सोमाय स्वाहा ।
 इदं सोमाय नमः । इत्याज्यभागौ ॥
 ततः ॐ-अज्ये नैव । ॐ भूः स्वाहा । इदमग्नये नमः । ॐ
 भुवः स्वाहा । इदं वायवे नमः । ॐ स्वः स्वाहा । इदं
 सूर्याय नमः । एता महाव्याहृतयः ॥

(शुक्रयजुर्वेद, अध्याय २१ मंत्र ३)
 ॐ त्वन्नोऽग्ने वरुणास्य विद्वान्देवस्य
 हेडोऽअवधोसिसीष्ठाः ॥ यजिष्ठा चह्नितसः
 शोशुचानो विश्वा द्वेषांथसि प्रसुसुग्ध्यस्म-
 त्स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां नमः ॥ १ ॥

(शुक्रयजुः अध्याय २१ मंत्र ४ ॥)
 ॐ स त्वन्नोऽग्नेऽवसो भवोती नेदिष्ठा
 ॐ-अस्याऽउषसो व्युष्टौ ॥ अवयद्व नो वरु-
 णथं रराणो वीहि नृडीकथं सुहवो नऽएधि
 स्वाहा ॥ इदमग्नये नमः ॥ २ ॥ ॐ-अया-
 प्रचाग्नेऽस्य नभिश्शक्तिपाश्च सत्यमिस्वस-
 याऽअसि । अग्रानो यज्ञं वह्नास्यया नो धेहि

चार की तूष्णीं आहुति देवे और यजमान स्वयं सब त्याग बोलता जाय । आ-
 चार की दो अज्यभाग की देवे इन चार आहुतियों की देकर सहा आहुतियों की
 दोन धर्ममायवित्त की पांच तथा भक्त से प्राजापत्य एक इन सब आहुतियों की

भेषजथं स्वाहा ॥ इदमग्नये नमस ॥ ३ ॥

ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा
वितता महान्तः । तेसिर्नाऽऽद्य सवितोत
विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा ॥
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो दे-
वेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यो नमस ॥४॥

शुक्लयजुर्वेद अध्याय २१ मन्त्र १८ ॥

ओम्-उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि-
मध्यमथं श्रथाय । अथा वयमादित्य व्रते
तवानागसोऽऽदितये स्याम स्वाहा ॥ इदं व-
रुणाय नमस ॥५॥ एताः सर्वप्रायश्चित्तसंज्ञकाः ॥
ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये नमस ।

इदं प्रजापत्यम् । इति मनसा । ओमग्नये रिचष्टकृते
स्वाहा ॥ इदमग्नये रिचष्टकृते नमस । ततः संस्त्रवप्राशनम् ।
आचम्य-ओमद्य शोकान्त्यदिने कृतैतदन्त्येष्टिहोमकर्मणि
कृताऽकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं प्रजापति
दैवतममुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्रह्मणे ब्राह्मणाय दक्षिणां तुभ्य-

त्यागो सहित देके संस्त्रवप्राशन तथा आचमन वरुके संस्त्रवप्राशन पठ ब्रह्मणे

। ओं-इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय नममः । इत्याघारौ ।

। ओं-अग्नये स्वाहा । इदमग्नये नममः । ओं-सीमाय स्वाहा ।

इदं सीमाय नममः । इत्याज्यभागौ ॥

ततः ऽऽग्नाज्येनैव । ओं भूः स्वाहा । इदमग्नये नममः । ओं

भुवः स्वाहा । इदं वायवे नममः । ओं स्वः स्वाहा । इदं

सूर्याय नममः । एता महाव्याहृतयः ॥

(शुक्लयजुर्वेद, अध्याय २१ मंत्र ३)

। ओं त्वन्नोऽग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्य

हेडोऽअवयोसिसीष्ठाः ॥ यजिष्ठो वह्नितमः

शोशुचानो विषवा द्वेषाथसि प्रसुसुग्ध्यस्म-

त्स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां नममः ॥ १ ॥

(शुक्लयजुः अध्याय २१ मंत्र ४ ॥)

। ओं स त्वन्नोऽग्नेऽवसो भवोती नेदिष्ठो

ऽअस्याऽउषसो व्युष्टी ॥ अवयक्ष्व नो वरु-

णाथं रराणो वीहि सृडीकथं सुहवो नऽग्धि-

स्वाहा ॥ इदमग्नये नममः ॥ २ ॥ ओम्-अथा-

प्रचाग्नेऽस्य नभिश्शस्तिपात्रच सत्यमित्त्वम-

याऽअसि । अग्रानो यज्ञं वह्नास्यया नो धेहि

चार की तूष्णीं आहुति देवे और यजमान स्वयं सद्य त्याग सोलता जाय । आ-
चार की दो आज्यभाग की दो इन चार आहुतियों को देकर गद्य आहुतियों की
तीन पूर्वमाद्यज्ञ की पांच तथा मन से प्राजापत्य एक, इतने सद्य आहुतियों की

भेषजथं स्वाहा ॥ इदमग्नये नमम ॥ ३ ॥

ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा
वितता महान्तः । तेभिर्नोऽन्द्र्य सवितोत
विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा ॥
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो दे-
वेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यो नमम ॥४॥

शुक्लयजुर्वेद अध्याय २१ मन्त्र १८ ॥

ओम्-उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि-
मध्यमथं श्रथाय । अथा वयमादित्य व्रते
तवानागसोऽन्द्रदितये स्याम स्वाहा ॥ इदं व-
रुणाय नमम ॥५॥ एताः सर्वप्रायश्चित्तसंज्ञकाः ॥
ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये नमम ।

इदं प्राजापत्यम् । इति मनसा । ओमग्नये रिचष्टकृते
स्वाहा ॥ इदमग्नये रिचष्टकृते नमम । ततः संस्त्रवप्राशनम् ।
आचम्य-ओमद्य शोकान्त्यदिने कृत्तैतदन्त्येष्टिहोमकर्मणि
कृताऽकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं प्रजापति
दैवतममुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्रह्मणे ब्राह्मणाय दक्षिणां तुभ्य-

त्वार्णे सहित देके संस्त्रवप्राशन तथा आचमन करके उपपद्याक्य पद ब्रह्माकी

महं, संप्रददे ॥ इति दक्षिणां दद्यात् ॥ ओं स्वस्तीति प्रति-
वचनम् ॥ ततः—

ओं—सुमित्रिया नऽआप ओषधयः सन्तु ।

इति पवित्राभ्यां शिरः संमृज्य ।

ओं दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्वेषि-
यञ्च वयं द्विष्टमः ॥

इत्यैशान्यां दिशि प्रणीतां न्युव्ज्जी कुर्यात् । ततः स्त-
रणक्रमेण बहिर्रुत्थाप्य घृताक्तं कृत्वा हस्तेनैव जुहुयात् ॥

शुक्लं यजुर्वेदं अध्याय ८ मन्त्र २१

ओं देवा गातुविदो गातुं वित्वा गातुमि-
त । मनसस्पतऽइमन्देवयज्ञं स्वाहा द्वा-
तेधाः स्वाहा । इदं वाताय नमसं ॥

तत उत्थाय घृतफलपुष्पपूर्णां न स्रुवेशा पूर्णाहुतिं
जुहुयात् ॥ (यजुः अध्याय ७ मन्त्र २४) ।

ओं मूर्द्धानं दिवोऽन्नरतिस्पृथिव्या वैश्व-
नरमृतऽआजातमग्निम् । कविशंसम्त्राजम-

दक्षिणा देवे तथा द्रव्या (या स्वस्ति) कह कर दक्षिणा को स्वीकार करे । त-
दनन्तर (सुमित्रि०) मन्त्र पठ के पवित्रों द्वारा प्रणीता का लाल लेकर शिर में
संस्मार्जन करे तथा (दुर्मित्रि०) मन्त्र पठ के प्रणीता के शेष फल को ईशान
दिशा में लौटा देवे परघात जिसक्रम से बिछाये वे सभी क्रम से मद्य कुश सटा
कर कुशों में पी लगाके (ओ देवागातु०) मन्त्र पठ हाथ से ही होम कर देवे ।
मन्त्र पठ सहा हो के घृत फल और पुष्पों से भरे हुए खुवा से (ओं मूर्द्धानं)

तिथिञ्जनानामासन्ना पात्रञ्जनयन्तः देवाः
स्वाहा ॥ इदमग्नये नमम् ॥

ततः सुत्रेण भस्मानीय दक्षिणानामिकया त्र्यायुषं कुर्यात् ।

यजु० अथय्याय ३ मन्त्र ६२

ओं त्र्यायुषं जमदग्नेः ॥ इति ललाटे । ओं
कश्यपस्य त्र्यायुषम् ॥ इति ग्रीवायाम् । ओं
यद्देवेषु त्र्यायुषम् । इति दक्षिणबाहुमूले ॥
ओं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम् । इति हृदये ॥

ततो द्वादशे दिने एकादशाहवत्सामान्यहोमं विधाय
गवादिवलीनकृत्वा—एकं त्रीन्वा वेदयाठिनः सुपात्रान् ब्राह्म-
णान्भोजयेत् । यद्यस्मिन्नेव दिने सपिशडीकरणमिच्छेद्युस्त-
दा पारस्करगृह्यसूत्रे हृष्य कार्यम् ॥

ततोऽहरहः सुपात्रब्राह्मणाय भोजनं जलं च दद्यात् ।
संवत्सरान्ते क्षयाहे—एकोद्विष्टं श्राद्धं कुर्यात् । इति ।

मन्त्र पढ़ के पूर्णाहुति करे और स्तुवा के मूल द्वारा लाये भस्म को दहिने हाथ
की अनामिका के अग्रभाग से (त्र्यायुष०) से ललाट में (कश्यपस्य०) से कण्ठ में
(यद्देवेषु०) से दहिने बाहू के मूल में और (तन्नोअस्तु०) से हृदय में भस्म लगावे ।
फिर चारहवें दिन चारहवें दिन के कृत्य में कहे सामान्य विधि से होम कर गौ
श्रादि की बली देकर एक या तीन ब्राह्मणों को भोजन करावे । यदि छः ही दिन सपि-
शडी करण करना चाहें तो पारस्करगृह्यसूत्र के परिशिष्ट भाग में देखा कर करें । आने
नित्य सप्तमि दिन सुपात्रब्राह्मण को भोजन और जल दिया करें । वर्ष की समाप्ति
में जिस दिन मृत्यु हुआ हो उसी दिन एकोद्विष्ट श्राद्ध करे । मनुस्मृति में लिखा

द्विद्वैवेपितृकार्येत्री—नेकैकमुभयत्रवा ।

भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि नमसज्येतविस्तरे ॥

सत्क्रियादेशकालौच शौचंब्राह्मणसंपदम् ।

पंचैतान्विस्तरोहन्ति तस्मान्नेहेतविरतरम् ॥

अथ पिंडप्रमाणम्—एकोद्दिष्टेसपिंडेषु कपित्थंतुवि-
धीयते ॥ इत्यन्त्येष्टिविधिः समाप्तः ॥

हे कि देवकर्म के लिये दो और पितृ कार्य में तीन या दोनों में एक २ ब्राह्मण को श्रीमान् पुरुष होती भी भोजन करावे किन्तु बड़ी पात ब्राह्मण के निमित्त कदापि न करे । संस्कार, देश, काल, शुद्धि और ब्राह्मण की सुपात्रता इन पाषों की बहूतों को भोजन कराना नष्ट करता है । इस से बहूतों को भोजन कराने की चेष्टा न करे । एकोद्दिष्ट और सपिण्डीकरण में कपिरथ के प्रमाण छोटा पिएह बनाना चाहिये ॥ इति संस्कारमार्तेश्वरग्रन्थ समाप्त ॥

अथ केशान्तसंस्कारे विशेषः ॥

केशान्तःपोडशोवर्षे ब्राह्मणस्यविधीयते ।

राजन्यघनधोर्द्वाविंशे वैश्यस्यद्वयधिकेततः ॥ मनुः० ॥

लौकिकेऽग्नौ होमविधिः । देशकालौ स्मृत्वा केशान्त-
कर्माहं करिष्येइति संकल्पः । ब्राह्मणप्रयभोजनादेः सर्व-
स्य कर्मणाश्चूडाकर्मणि यो विधिरुक्तः स सर्वएवात्र तथैव
कार्यः । इयास्तु भेदः—उदकासेकमन्त्रे—केशान्वपेत्यत्र—के-
शमश्रू वप—इत्सूहः । यथा—उष्णो न वाय उदकेनेह्यदिते
केशमश्रू वप । ततो यत्क्षुरेणोति क्षुरपरिग्रहणमन्त्रे—य-
त्क्षुरेण०—प्रमोपीर्मुसम् । इति मुखशब्दोऽधिकः पठनीयः ।

भा०—अथ केशान्तसंस्कार की विशेषता लिखते हैं । मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण का सोटाद्यै तन्निय का २२ वर्ष और वैश्य का चौबीसवें वर्ष में केशान्तसंस्कार करे केशान्तसंस्कार में हाड़ी मूख और बगलें तथा शिर के सब घात प्रथम ही घनवाये जाते हैं । हाड़ी मूख और बगलों के घात घनवाने के पाररभ ही की केशान्तसंस्कार कहते हैं । चूडाकर्म के तुल्य लौकिक अग्नि में ही यद्य भी होम होता है । देशकाल वा स्मरण करके केशान्तकर्म का संकल्प करे । आगे तीन ब्राह्मणों का भोजन कराने से लेकर केशान्त के सब कर्म का विधान चूडाकर्म में कहे अनुसार ही करना चाहिये । इसी से यद्य फिर नहीं लिखते । भेद वा विशेषता यह है कि—गर्म और ठण्डा जल मिलाने के (उष्णेन वाय०) मन्त्र में (केशान्वप) के स्थान में (केशमश्रूवप) ऐसा कह करे । तदपगत (यत्क्षुरेण०) इस क्षुर लेने के मन्त्र में (यत्क्षुरेण०—प्रमोपीर्मुसम्) ऐसा बोले अर्थात् मुख शब्द को अधिक बोले । और मुख सहित शिर के चारों ओर प्र-

श्रीहरिः

प्रियतम धर्म सभा के नियम ॥

- १ राम नाम का भजन करना ॥
- २ विद्या पढ़ना ॥
- ३ सत्य बोलना, ॥
- ४ देश को सुधारना, ॥
- ५ विधि पूर्वक पिंडं तर्पण मात्र से मृत पितरों का श्राद्ध करना ॥
- ६ मद्य मांसादि अशुद्ध पदार्थ न खाना, ॥
- ७ श्रद्धा से मूर्ति पूजन करना, ॥
- ८ ईश्वरकृत तथा ऋषिकृत ग्रन्थों को मानना ॥
- ९ बाल विवाह न करना, ॥
- १० गुण जाति संपन्न योग्य ब्राह्मण को मानना ॥
- ११ चौध्यादि न करना, ॥
- १२ विधवा को ब्रह्मचर्य में रखना, ॥
- १३ अपने जैसा सुख दुःख सब का जानना ॥
- १४ अन्धेगुण को संसार में फैलाना ॥
- १५ ईश्वराकार वृत्ति से मोक्ष को पाना ॥
- १६ उक्ति युक्ति सृष्टिक्रम के विरुद्ध काम न करना ।

प्रि० ध० स० शिकारपुर (सिंध)

मूल्य घटाये हुए पुस्तकों का सूचीपत्र

आर्यसिद्धान्त पूर्व का अर्धा दश भाग १२० अक्षर इवहा लेने पर सब

होगा पृथक् २ प्रति भाग ॥२॥ उपनिषद्भाष्य-ईश ३) केन ३) वट ॥२॥ प्रक
मुएक ॥३) भाष्यहूय ३) तैत्तिरीय ॥२) ऐतरेय ॥२) श्वेताश्वतर ॥२) इन
उपनिषदों पर संस्कृत और नागरीभाषा में अत्र तक अच्छा भाष्य हो चुका
८ उपनिषद् भाष्य इच्छे लेने वालों को ३॥) मनुस्मृति का

संस्कृत तथा नागरी भाषा में अत्युत्तम भाष्य का अलभ्य आनन्द पु० देखने से

होगा, ३ अध्याय की १ प्रथम जिल्द मूल्य २॥) द्वितीय जिल्द ६ अध्याय
भगवद्गीता का ठीक हट्ट २ संस्कृत नागरी भाषा में भाष्य दूमरीवार का

गीतासंग्रह ॥२) व्याकरण की पुस्तकें- अष्टाध्यायी मूल भाषाटीका १॥)

मूल (मोटा अक्षर) ॥) गणितमहोदधि गणपाठ की संस्कृत व्याख्या और

श्लोक तथा अकारादि शब्द सूची मद्रित १) घातुपाठ [शब्दसिद्धि के रूप में

१) वैदिककर्मकाण्ड-पुष्यग्रहवाचन -) दर्शपौरोमासेष्टपट्टति [श्रीतकर्मों

दुर्लभ पुस्तक ॥] समाप्तकर्मपट्टति ॥) पञ्चमहायज्ञ -) वृष्टिसंग्रह ॥)

३॥) पतिव्रतामाहात्म्य मू० ३॥) सद्बिचारनिर्णय -) पुत्रकामेष्टिपट्टति (पुत्रहीने

त्रिधि) है -) आयुर्वेदशब्दार्थकोष ॥) भर्तृहरिनीतिशतक भाषाटीका २॥)

वैराग्यशतकभाषाटीका ३) यमपमीमूक का अच्छा ठीक २ उपवस्थापुस्तक संस्कृत

भाषा भाष्य -) ॥ सत्यभास्कर (अन्दी में पाषाणपूजा खगहन) २)

विदुरनीति मूल टिप्पणी सहित २) सहुपदेश भजन आधा पैसा ॥) सैकड़ा

श्रारती नित्य वा उरस्य पर गाने के लिये ॥) में दो आर्यसमाज के नियम ३

सैकड़ा ॥ व्याख्यान का सामान्य विद्यापन २) प्रति सैकड़ा ॥ अबलाविनय (स्त्री

शिक्षा) ॥) धर्मबलिदान आह्ला-लेखरामवध २) यज्ञोपवीतशुद्धासभाधि

गङ्गादितीर्थस्वविचार २) कन्यासुधार -) संगीतसुधासागर (भजन) -) वेदशा

लीला १ भाग ॥ आर्यसमाज के नियमोपनियम ॥) धर्मलक्षणवर्णन ३) पुनर्जन्म

[पुन जन्महोता है यह सिद्ध किया गया है] २॥) श्यावरमेंजीव विचार -) देवम

गरीवर्णमाला ॥) * संगीतरत्नाकर २) * भजनामृतसौंदर्य २) गाजीमिया की पुस्तक

सभाप्रसन्न ३) शास्त्रार्थसुजा -) सत्यसंगीत ॥) स्वर्गमेंसज्जेवटकमेटी -) ॥ ऐतिह्य

निकनिरीक्षण २) सुमतिमुधाकर ३॥) नीतिशार -) पासवहमतकुटार -) वनित

विनोद २) नलोपारख्यान -) गणितारम्भ -) बालक्य भाषाटीका -) * शान्तिशर

वर २) * सुमतिमुधाकर -) संस्कृतप्रवेशिका २॥) * शारहभासा (भारतविद्याप)

सहस्रविधयोगश्लोक -) वदनिविसूचिका ॥) दशनियमशिक्षारिणी में ॥) * सत्यार्था

काश २) आदि स्वामी जी कृत सब पुस्तक यहा मिलते हैं बड़ासूची मंगाकर देखिये
पता—सत्यव्रतशर्मा सरस्वतीमेस—इटावा (पश्चिमोत्तरदेश)